संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF CULTURE, GOVERNMENT OF INDIA

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर
SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE, NAGPUR

वार्षिक प्रतिवेदन
२०१५–१६



ANNUAL REPORT
2015-16

MINISTRY OF CULTURE, GOVERNMENT OF INDIA

ANNUAL REPORT 2015-16

मध्यदक्षिणी

S C Z C C

SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE, NAGPUR

56/1, CIVIL LINES, NAGPUR-440001
P: 0712-256 2974; F: 0712-256 0966;
E: sczccnagpur1986@gmail.com; W: www.sczcc.gov.in

INDEX

EXECUTIVE BOARD & GOVERNING BODY

Sr. No.	Name & Designation	Official/Non-Official
1.	**Shri CH. Vidyasagar Rao** Hon'ble Governor of Maharashtra & Chairman, S.C.Z.C.C., Nagpur Raj Bhavan, Malabar Hill, Mumbai 400 035	Chairman
2.	**Dr. Mahesh Sharma** Hon'ble Minister of Culture, Government of India, Room No.501, "C" Wing, Shastri Bhavan, New Delhi 110 001	Ex-officio Member
3.	**Shri Vinod Tawde** Hon'ble Minister of Culture, Government of Maharashtra, Mantralaya, Mumbai 400 001	Ex-officio Member
4.	**Smt. Umashreee** Hon'ble Minister for Kannada & Culture, Government of Karnataka, Room No.252, Vidhan Saudha, Bengaluru 560 001	Ex-officio Member
5.	**Shri Palle R, Reddy** Hon'ble Minister of Culture, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad 500 004	Ex-officio Member
6.	**Shri Surendra Patwa** Hon'ble Minister of Culture, Government of Madhya Pradesh, Vallabh Bhavan, Bhopal	Ex-officio Member
7.	**Shri Dayaldas Baghel** Hon'ble Minister of Culture, Government of Chhattisgarh, Naya Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Capital Complex, Naya Raipur	Ex-officio Member
8.	**Shri N. K. Sinha, IAS** Secretary to Government of India, Ministry of Culture, Room No.502, "C" Wing, Shastri Bhavan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110 015	Ex-officio Member

EXECUTIVE BOARD & GOVERNING BODY

Sr. No.	Name & Designation	Official/Non-Official
9.	**Smt. Valsa Nair Singh, IAS** Principal Secretary, Tourism & Culture Department, Government of Maharashtra, Room No.721, 7th Floor, Mantralaya, Mumbai 400 032	Ex-officio Member
10.	**Shri Kumar S. Krishna, IAS** Financial Advisor, Ministry of Culture, Government of India, Room No.135, "B"-Wing, Krishi Bhavan, New Delhi 110 001	Ex-officio Member
11.	**Shri Manoj Shrivastava, IAS** Principal Secretary, Department of Culture, Government of Madhya Pradesh, Vidhan Bhavan, Bhopal 462 001	Ex-officio Member
12.	**Shri Neerab Kumar Prasad, IAS** Principal Secretary, Department of Youth Services, Tourism & Culture, "H"-Block, 1st Floor, AP Secretariat, Hyderabad 500 022	Ex-officio Member
13.	**Shri S. R. Umashankar, IAS** Principal Secretary, Department of Kannada & Culture, Room No.2, Ground Floor, Vikas Soudha, Bengaluru 560 001	Ex-officio Member
14.	**Shri Santosh Kumar Mishra, IAS** Secretary, Department of Culture, Naya Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Capital Complex, Naya Raipur	Ex-officio Member
15.	**Prof. Vishwanath Prasad Tiwari** President, Sahitya Academy, Ravindra Bhavan, 35 Feroze Shah Road, New Delhi 110 001	Ex-officio Member
16.	**Chairman** Lalit Kala Academy, Ravindra Bhavan, 35 Feroze Shah Road, New Delhi 110 001	Ex-officio Member

EXECUTIVE BOARD & GOVERNING BODY

Sr. No.	Name & Designation	Official/Non-Official
17.	**Shri Shekhar Sen** Chairman, Sangeet natak Academy, Ravindra Bhavan, 35 Feroze Shah Road, New Delhi 110 001	Ex-officio Member
18.	**Shri Shailesh Jadhav** Director, Directorate of Cultural Affairs, Government of Maharashtra, Old Secretariat Building, 1st Floor, M. G. Road, Mumbai 400 032	Member
19.	**Dr. D. Vijaya Bhaskar** Director, Department of Cultural Affairs, Kala Bhavan, Saifabad, Hyderabad	Member
20.	**Shri K. A. Dayananda, KAS,** Commissioner, Department of Kannada & Culture, Government of Karnataka, Kannada Bhavan, J. C. Road, Bengaluru 560 002	Member
21.	**Shri Rajesh Prasad Mishra, IAS,** Director, Directorate of Cultural Affairs, Sanskruti Bhavan, Banganga Road, Bhopal	Member
22.	**Shri Rakesh Chaturvedi** Director, Department of Culture & Archaeology, Government of Chhattisgarh, Raipur	Member
23.	**Shri Lalesab Sheikh Master** Chairman, Karnataka Natak Academy, Bengaluru	Member
24.	**Shri Prasad Mahajan** Project Director, P. L. Deshpande Kala Academy, Ravindra Natya Mandir, Prabhadevi, Mumbai	Member
25.	**Shri Baba Bhand** Chairman, Sahitya Sanskruti Mandal, Government of Maharashtra, 2nd Floor, Ravindra Natya Mandir, Prabhadevi, Mumbai	Member

EXECUTIVE BOARD & GOVERNING BODY

Sr. No.	Name & Designation	Official/Non-Official
26.	**Prof. Malathi Pattanashetty** Chairman, Karnataka Sahitya Academy, Bengaluru	Member
27.	**Dr. Umesh Kumar Singh** Director, Sahitya Academy, Mulla Ramuji Bhavan, Baanganga Road, Bhopal	Member
28.	**Shri Shyamsunder Ayyagery** 102, Rishi Residency, Street No.12, Somasundara Nagar, 2-2185/63 Bagh Amberpet, Hyderabad 500 013	Member
29.	**Shri Nagesh Thakur** 877/3/B, Balco Nagar, Korba, Chhattisgarh	Member
30.	**Dr. Mandvi Singh** Vice Chancellor, Indira Kala Sangeet Vishwavidyalaya, Khairagarh, Chhattisgarh	Member
31.	**Prof. O. L. Nagabhushana Swamy** #201, 2nd Cross, Rudraksha Residency, Kalena Agrahara, Banerghatta Road, Bengaluru	Member
32.	**Shri Subhash Kammar** No.38, Vinayaka, 2nd Cross, 2nd Main Katriguppe East, BSK 3rd Stage, Bengaluru	Member
33.	**Dr. Mruthunjay Agadi** Nada Lahari, Plot No.288, behind Tiwae Quarters, Nisarga Nagar, Dharwad	Member
34.	**Padmashree R. Nageshwar Rao Surabhi** Sri Venkateswara Natyamandali, #12-8-236/7/1/2 Surbhi Building, Mettuguda, Hyderabad 500 017	Member
35.	**Dr. Alekhya Punjala** Sree Sadan, 3-6-105 Himayat Nagar, Hyderabad 500 029	Member
35.	**Dr. Piush Kumar** Director, South Central Zone Cultural Centre, 56/1, Civil Lines, Nagpur 440 001	Member Secretary

PROGRAMME COMMITTEE MEMBERS

Sr. No.	Name & Address	
01.	**Shri Vinod Tawde** Hon'ble Minister of Culture, Government of Maharashtra, Mantralaya, Mumbai 400 001	Chairman
02.	**Shri Rakesh Chaturvedi** Director, Department of Culture & Archaeology, Government of Chhattisgarh, Raipur	Member
03.	**Smt. Renu Tiwari** Director, Directorate of Cultural Affairs, Higher Secondary Education Board Campus, Government of Madhya Pradesh, Shivaji Nagar, Bhopal 462 001	Member
04.	**Shri K.R.B.H.N. Chakravarthy, IAS,** Special Commissioner, Department of Cultural Affairs, kala Bhavan, Saifabad, Hyderabad	Member
05.	**Shri Ajay Ambekar** Director, Directorate of Cultural Affairs, Government of Maharashtra, Old Secretariat Building, 1st Floor, M. G. Road, Mumbai 400 032	Member
06.	**Shri K. A. Dayananda, KAS,** Director, Directorate of Cultural Affairs, Government of Karnataka, Kannada Bhavan, J. C. Road, Bengaluru 560 002	Member
07.	**Chairman** Sangeet Natak Academy, Rabindra Bhavan, Feroze Shah Road, New Delhi 110 001	Member
08.	**Shri Krishna Kimbahune** Regional Secretary, Sahitya Academy, 172, Mumbai Marathi Grantha, Sangrahalaya Marg, Dadar, Mumbai 400 014	Member
09.	**Shri R. M. Palaniappan** Regional Secretary, Lalit Kala Academy, Regional Centre, Chennai	Member

PROGRAMME COMMITTEE MEMBERS

Sr. No.	Name & Address	
10.	**Shahir Dada Pasalkar** 9-B/1, Guruwari Peth, Pune 411 042	Member
11.	**Smt. Vani Devi** Principal, Sri Venkateshwara College of Fine Arts, Madhapur, Hi-tech City Road, Hyderabad 500 081	Member
12.	**Miss Lalitha** Flat No.301, Bhaskara Towers, #3-4-507, Barkatpura, Hyderabad 500 027	Member
13.	**Smt. Krishna Varma** Malwa Lok Kala Kendra, L-96, Muni Nagar, near Talab, Ujjain	Member
14.	**Shri Arun Moroney** 35/203, Navya Park Apartment, Lalaran Nagar, Indore 452 001	Member
15.	**Shri Anil Kumar** F-43/12, South T. T. Nagar, Bhopal 462 003	Member
16.	**Shri Girish Pande** c/o Pratibha Goregaonkar, C/703, River Park, Opp. Saidham Mandir, Western Express Highway, Kandivali (E), Mumbai	Member
17.	**Dr. Madhukar Wakode** Daryapur Road, Sangai Plot, Anjangaon Surji 444 705, Dist. Amravati (M.S.)	Member
18.	**Dr. Madhukar Wakode** Daryapur Road, Sangai Plot, Anjangaon Surji 444 705, Dist. Amravati (M.S.)	Member
19.	**Shri Yogendra Choube** D. N. White, Lalpur, near Ramakrishna Hospital, Raipur (C.G.)	Member
20.	**Ms Yasmin Singh** D-1/20, Govt. Officers Colony. Devendra Nagar, Raipur 492 001	Member
21.	**Dr. Piush Kumar** Director, South Central Zone Cultural Centre, 56/1, Civil Lines, Nagpur 440 001	Member Secretary

FINANCE COMMITTEE MEMBERS

Sr. No.	Name & Address	
01.	**Smt. Valsa Nair Singh, IAS** Principal Secretary, Tourism & Culture, Government of Maharashtra, Room No.721, 7th Floor, Mantralaya, Mumbai 400 032	Chairman
02.	**Shri Kumar S. Krishna, IAS** Financial Advisor & Additional Secretary, Ministry of Culture, Government of India, Room No.174, “H”-Wing, Krishi Bhavan, New Delhi 110 001	Ex-officio Member
03.	**Shri Manoj Shrivastava, IAS** Principal Secretary, Department of Culture, Government of Madhya Pradesh, Vidhan Bhavan, Bhopal 462 001	Ex-officio Member
04.	**Shri Neerab Kumar Prasad, IAS** Principal Secretary, Department of Youth Services, Tourism & Culture, “H”-Block, 1st Floor, AP Secretariat, Hyderabad 500 022	Member
05.	**Shri S. R. Umashankar, IAS** Principal Secretary, Department of Kannada & Culture, Room No.2, Ground Floor, Vikas Soudha, Bengaluru 560 001	Ex-officio Member
06.	**Shri Santosh Kumar, IAS** Principal Secretary to Government, Department of Culture, Naya Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Capital Complex, Naya Raipur	Ex-officio Member
07.	**Shri Shailesh Jadhav** Director, Directorate of Cultural Affairs, Government of Maharashtra, Old Secretariat Building, 1st Floor, M. G. Road, Mumbai 400 032	Ex-officio Member
08.	**Shri Rajesh Prasad Mishra, IAS,** Director, Directorate of Cultural Affairs, Sanskruti Bhavan, Banganga Road, Bhopal	Ex-officio Member
09.	**Dr. Piush Kumar** Director, South Central Zone Cultural Centre, 56/1, Civil Lines, Nagpur 440 001	Member Secretary

SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE, NAGPUR

Activity Report for the period 01.04.2015 to 31.03.2016

Sl. No,	Name of the Programme	Venue / State / UT	Duration	Art Forms presented	No of artists participated		No. of programmes		Expenditure Incurred (Rs.)	No. of target beneficiaries	Details of VIP's participation
					Male	Female	Rural & Mofussil area	Urban area			
1.	Aanandam – Yoga Shivir	Centre's premises, Nagpur	01.4.2015 to 30.03.2015	Yoga	-	15		Urban	--	75	Regular event
2	Rashtriya Mahamurkh Sammelan	Centre's premises Nagpur	01.04.2015	Shri Ashok Chakradhar Shri Madhu Pandey Shri Arun Jamini Shri Vishnu Saxena Dr. Sarvesh Asthana Smt. Mamta Sharma Shri Pratap Fouzdar	06	01		Urban	5,83,320/-	2000	Shri Anoop Kumar, IAS, Divisional Commissioner, Nagpur. Shri K.K. Pathak, Police Commissioner, Nagpur
3	28th National Exhibition of Contemporary Art	Centre's Art Gallery	01.04.2015 to 08.04.2015	214 – painting, Sculpture and Photographs	130	84		Urban	12,08,830/-	200 per day	Shri Raghu Rai ,Shri Jatin Das, Shri Laxma Goud & Shri Anoop Kumar, IAS, Divisional Commissioner, Nagpur,
4	Mujhe Bhi Kuch Khene Hai.	Nagpur	05.04.2015	Vocal & Instrumental	06	10		Urban	3,000/-	200	
5	Baisakhi Parva	Home Science College Hall ,Jabalpur	11.04.2015 to 12.04.2015	Bhangda Nritya, Giddha, Jindwa & Malvayi Nritya	15	10	--	Urban	1,48,769/-	300	Programme organised by Punjabi Hindu Association. The Centre was sponsored the troupe
6.	Brahmanaad	SCZCC, Campus, Nagpur	12.04.2015	Sarod Vadan Shri Narendranath Dhar & Bharti Bhandu	02	--	--	Urban	90,000/-	400	Shri Kisan Sharam renowned announcer , Shri Vishnu Manohar, Sheaf

SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE, NAGPUR

Activity Report for the period 01.04.2015 to 31.03.2016

7	Baisakhi	SCZCC Camps, Nagpur	13.04.2015	Bhangda Nritya, Giddha, Jindwa & Malvayi Nritya	15	10	--	Urban	Expen. Incurred in Sr. no. 5	300	Dr. Piush
8	28th National Exhibition of Contemporary Art	Bharat Bhavan, Bhopal	17.04.2015 to 26.04.2015	214 – painting, Sculpture and Photographs Junior Award - 4 Nos- Rs. 4,00lakh Senior Award - 4 Nos- Rs. 8,00lakh Sponsoring –10 Award Each Rs, 50,000/-	130	84	--	Urban	25,00,000/-	400	Shri Sundarlal Patwa, Hon'ble Cultural Minister, Govt. of Madhya Pradesh, Shri Manoj Shrivastava, IAS Principal Secretary, Dept. of Culture, M.P., Smt. Bhuri Bai, renowned folk artists, Smt, Brinda Milan, Smt. Alka Pande
9	Screening of Art Films	Bharat Bhavan, Bhopal	18.04.2015	Audio Visual Presentation by Brinda Miller, Abstract Artists, Mumbai Dr. Alka Pande, Delhi Art Historian	--	02	--	Urban	50,000/-	100	
10	Three Days Festival of Company Dramas	V. Ramamurthuy Rangamandira Tumkur	18.04.2015 to 20.04.2015	Company Drama Udupi Maani Panchaboothagalu Baduku Bangaravayithu				Urban	75,000/-		Programme organsied by Amareshwara Vijaya Nataka Mandali, Tumkur under SCZCC- NGO Partnership.
11	Screening of Art Films	Bharat Bhavan, Bhopal	19.04.2015	Audio Visual Presentation by Smt. Namita Gokhale, Jaipur	--	01	--	Urban	25,000/-	80	
12	Screening of Art Films	Bharat Bhavan, Bhopal	20..04.2015	Audio Visual Presentation by Shri Suresh Jairam, Bangalore	01	--	--	Urban	30,000/-	90	
13	Screening of Art Films	Bharat Bhavan, Bhopal	21.04.2015	Audio Visual Presentation by Ms. Kavita Jaiswal, Delhi	--	01	--	Urban	25,000/-	85	
14	Screening of Art Films	Bharat Bhavan, Bhopal	22.04.2015	Audio Visual Presentation by Bhavana Kakkar, New Delhi	--	01	--	Urban	25,000/-	65	
15	Ceramic Pottery Workshop	Juni Mangalwari, Nagpur	23.04.2015 to 27.04.2015	Smt. Rekha Borkar, Workshop Director Participants	--	15		Urban	50,000/-	--	Programme organised By Ruchi Bahuuddeshiya Mahila Mandal, Nagpur under sczcc- NGO Partnership

16	Screening of Art Films	Bharat Bhavan, Bhopal	23.04.2015	Audio Visual Presentation by Diwan Manna, Chandigarh	01		--	Urban	35,000/-	75	
17	Screening of Art Films	Bharat Bhavan, Bhopal	24.04.2015	Audio Visual Presentation by Shri Gunjan Ahlawat Delhi	01		--	Urban	25,000/-	80	
18	Wall Painting Workshop	Shilpgram Khajuraho	24.04.2015 to 27.04.2015	Smt. Krishana Verma & Colleagues	02	02	Rural	--	45,000/-	2000	Smt. Krishna Verma & Colleagues
19	Screening of Art Films	Bharat Bhavan, Bhopal	25.04.2015	Audio Visual Presentation by Prof. Shormishtha Panja, Delhi	--	01	--	Urban	25,000/-	70	
20	Khajuraho International Film Festival (organised by Dept. of Culture, Govt. of M.P.	Shilpgram Khajuraho	25.04.2015 to 28.04.2015	400 artists			Rural	--	80,000/-	1000	Shri Shivraj Singh Chauhan, Chief Minister, M.P., Film person – Om Puri, Ramesh Shippy, Manmohan Shetty, Govind Nihalani, Dr. Chandraprakash Dwivedi, Dipti Naw
21	Screening of Art Films	Bharat Bhavan, Bhopal	26.04.2015	Audio Visual Presentation by Poonam Goel	--	01	--	Urban	25,000/-	75	
22	Classical Dance Programme	SCZCC, Campus, Nagpur	25.04.2015	Bharatnatyam & Mohiniattam	20	43		Urban	20,000/-	900	
23	Anandam	Nagpur (M.S.)	01.05.2015 to 31.05.2015	Yoga	25	40	--	Urban		65	Regular activity
24	Mujhe Bhi Kuch Khena Hai.	Nagpur (M.S.)	03.05.2015		05	03	--	Urban	3,000/-	250	
25	Malwa Utsav	Indore (M.P.)	09.05.2015 to 11.05.2015	Glimpses of Maharashtra	12	08		Urban	1,20,000/-	--	Programme organised by Lok Sankruti Manch, Indore. The Cente sponsored the artists

26	Brahmanaad	Nagpur (M.S.)	10.05.2015	Gazal by Ustad Ahmad & Mohammad Hussain Jaipur (Raj.)	06	-	-	Urban	1,45,800/-	300	Shri Anup Kumar, IAS, Divisional Commissioner , Nagpur
27	13th Folk Fair	Puri (Odisha)	25.05.2015 to 29.05.2015	Kathi Nritya –M.P. Kaksar- C.G.	15 09	-- 06	--	Urban	2,40,000/-	--	Programme organised by Kolkata
28	Social Play Festival (Daylong)	Dr. Gubbi Veeranna Kalkshetra, Tumkur (K.S.)	30.05.2015	1)PanchBoothagalu 2) Whisky- Risku 3) Lockout Allaknockout 4) Aa Karala Rathriyalli 5) Sevanthi Prasanga	07 03 03 04 04	01 02 01 02 02	--	Urban	75,000/-		Programme organized under SCZCC-NGO Partnership
29	Kalpashree Nruthya Vaibhava	Ramanagar Tuluka, Bangalore	31.05.2015	Smt. Hema Govindaraju, Bangalore Ku. Ananya Harish, Channapatna Smt. Madhulitha Mahapatra, Bangalore Smt. Poorna Acharya, Bangalore Classical Bharatnatyam, Kuchipudi performance	04 03 03 03	02 01] 01 01	--		55,000/-	--	Shri B.T. Nagesh, President- Kannada Sahitya Parishth, Ramanagar Dist. Sri Su. Tha. Ramegowda, Senior Journalist, Chennapatna, Dr. Saraswathi Rajatesh, Kuchipudi Janapada Parishad, Bangalore . Dr. Kuruva Basavaraj, (SCZCC-NGO Partnership prog.)
30	Anandam	Nagpur (M.S.)	01.06.2015 to 30.06.2015	Yoga	25	40	--	Urban		65	Regular activity
31	Mujhe Bhi Kuch Khena Hai.	Nagpur (M.S.)	07.06.2015	Solo Gayan, Instrumental, Poetry , Dance etc	09	06		Urban	3,000/-	250	

32	Brahmanaad	SCZCC's Campus Nagpur	14.06.2015	Smt. Anuradha Pal (Tabla Solo)	01	01	--	Urban	1,13,067/-	400	Ms. Gabrilo, USA, Dr. Piush Kumar, Director, SCZCC,Nagpur
33	International Day of Yoga	Yashwant Stadium, Nagpur	21.06.2015	Yoga	1200 0	9000	-	Urban	87,125/-	21,000	Shri Nitin Gadkari, Hon'ble Minister of Transport, Govt. of India Shri Devendra Fadnavis, Hon'ble Chief Minister, Govt. of Maharashtra and other dignitaries
34	Traditional Folk Painting & Traditional workshop	SCZCC's Campus Nagpur	30.6.2015 To 06.07.2015	Gound Painting (Shri Ajay Urveti) Madhubani (Shri Bhavendra Jha) Phad/Pat (Sr. Bhaskar Mahapatra) Mysore Painting Style	03	65	1	Urban	87,453/-	100	Inaugurated by experts
35	Anandam	Nagpur (M.S.)	01.07.2015 to 31.07.2015	Yoga	25	40	--	Urban		65	Regular activity
36	Mujhe Bhi Kuch Khena Hai.	Nagpur (M.S.)	05.07.2015	Gayan, Kathakathan	06	07		Urban	5000/-	150	Regular activity
37	Two days Mythological Play Festival (SCZCC-NGO Partmership)	Muddaianapalya (K.S.)	11.07.2015 To 12.07.2015	Theatre Plays Narada Vinoda Komala Gandhara Dhootha Ghatothkacha Kaneena	 03 02 05 05	 01 01 02 -		Urban	75,000/-	400	Programme organized under SCZCC- NGO - Partnership

38	Brahmanaad	SCZCC's Campus Nagpur	12.07.2015	Smt. Manjusha Patil, Hindustani Vocal	02	03	--	Urban	1,07,631/-	400	Shri Anup Kumar, IAS, Divisional Commissioner, Nagpur Shri Rajeev Ranade, IRS Income Tax Commissioner, Nagpur Shri Mahesh Elkunchwar, Senior Drama Writer, Nagpur
39	Traditional Tribal Folk Painting & Craft training workshop of India by master craft person	SCZCC's Campus Nagpur	15.07.2015 To 21.07.2015	Warli Painting Smt. Minakshi Wayada (M.S.) Nathdwara Painting Shri Pramod Sharma (Raj.) Kinnal Work (Craftmen) Shri Kishor Chitragar (K.S.) Solawood (Craftsmen) Shyamal Ghosh (W.B.)	02	55	--	Urban	45,000/-	100	Inaugurated by experts
40	Dr. Vasantrao Deshpande Yuva Sangeet Pratiyogita	SCZCC's Campus Nagpur	25.07.2015	Hindustani Vocal Hindustani Instrumental (Screening round)	06 07	06 --	--	Urban	Expenditure included in Sr. No. 54.	100	Juri Members Pt. BholaNath Mishra, New Delhi Ustad Attar Husain, New Delhi
41	Dr. Vasantrao Deshpande Yuva Sangeet Pratiyogita	SCZCC's Campus Nagpur	26.07.2015	Karnatic Vocal Karnatic Instru. (screening round)	02 04	01 --	--	Urban		100	Juri Members Vidwan Kovai Balasubramaniun Coinbatore (T.N.) Vidan G.S. Mani Chennai (T.N.)

42	Dr. Vasantrao Deshpande Yuva Sangeet Pratiyogita	SCZCC's Campus Nagpur	27.07.2015	Hindustani Vocal Hindustani Instrumental Karnatic Vocal Karnatic Instru. (Final round for Award)	09	02	--	Urban			Juri Members Pt. Brij Narayan, Mumbai Pt. Prabhakar Karekar Mumbai, Padmabhushan Vidvan Shri V. Ramachandra & Vidvan Shashank Subramanya (Chennai)
43	Anandam	Nagpur (M.S.)	01.08.2015 to 31.08.2015	Yoga	25	40	--	Urban		65	Regular activity
44	Lok Kala Yatra	Warud (M.S.)	9.08.2015	Songi Mukhwate (M.S.) Bahurupi (M.S.) Rannappa (Orissa) Pandwani gayan (C.G.) Veernatyam (A.P.) Pung Cholam (Manipur)	15 05 15 05 14 10	-- -- -- 01 01 05	Rural	--	9,56,062/-	3000	Dr. A. Pande, MLA
45	Lok Kala Yatra	Shrikhed (M.S.)	10.08.2015	Songi Mukhwate (M.S.) Bahurupi (M.S.) Rannappa (Orissa) Pandwani gayan (C.G.) Veernatyam (A.P.) Pung Cholam (Manipur)	15 05 15 05 14 10	-- -- -- 01 01 05	Rural	--	Expen. including Sr. No. 44	4000	Shri Sahebrao Tatte, Ex. MLA
46	Lok Kala Yatra	Ambada (M.S.)	11.08.2015	Songi Mukhwate (M.S.) Bahurupi (M.S.) Rannappa (Orissa) Pandwani gayan (C.G.) Veernatyam (A.P.) Pung Cholam (Manipur)	15 05 15 05 14 10	-- -- -- 01 01 05	Rural	-	Expen. including Sr. No. 44	4000	Mrs. Dr. V. Bande

47	Lok Kala Yatra	Hiwarkhed (M.S.)	12.08.2015	Songi Mukhwate (M.S.) Bahurupi (M.S.) Rannappa (Orissa) Pandwani gayan (C.G.) Veernatyam (A.P.) Pung Cholam (Manipur)	15 05 15 05 14 10	-- -- -- 01 01 05	Rural	--	Expen. including Sr. No. 44	2000	Shri R. Wasankar, Principal, MFHS
48	Adv. Shantaram pant Khirwadkar Smruti Sangeet Samaroha	Scientific Sabhagruha, Nagpur	12.08.2015	Shri Shirish Bhalerao (Violin Vadan) Smt. Gauri Pathare (Hindustani Vocal)	02 03	 01	--	Urban	1,75,000/	800	Shri Abhay Kholapurkar, Dr. Chitra Modak, Dr. Piush Kumar, Director, SCZCC & Smt. Kanchan Gadkari, Shri Manoj Shroti.
49	Adv.Shantaram pant Khirwadkar Smruti Sangeet Samaroha	Scientific Sabhagruha, Nagpur	13.08.2015	Smt. Indrayani Mukharjee, (Hin. Vocal) Pt. Vishwamohan Bhatt, (Mohanveena)	02 02	02	--			700	
50	Lok Kala Yatra	Prabhat Pattan (M.P.)	13.08.2015	Songi Mukhwate (M.S.) Bahurupi (M.S.) Rannappa (Orissa) Pandwani gayan (C.G.) Veernatyam (A.P.) Pung Cholam (Manipur)	15 05 15 05 14 10	-- -- -- 01 01 05	Rural	--	4,33,535/-	1000	Shri Sayaram, CEO, Pattam
51	Lok Kala Yatra	Multai (M.P.)	14.08.2015	Songi Mukhwate (M.S.) Bahurupi (M.S.) Rannappa (Orissa) Pandwani gayan (C.G.) Veernatyam (A.P.) Pung Cholam (Manipur)	15 05 15 05 14 10	-- -- -- 01 01 05	Rural	--	Expen. including Sr. No. 50	3000	Shri Pankaj Jain, IAS & Shri M. Sharma, Chairman, Multai Panchayat Parishad

52	Fete- De- Puducherry,	Karaikal & Yanam At Puducherry	14.08.2015 To 19.08.2015	Badhai / Norta Nritya	07	08	1	--	--	--	Programme Organised by South Zone Cultural Centre, Thanjavur
53	Cultural Programme (Patriotic songs)	Centre's Premises	15.08.2015	Shri Sachin Dhomne & Others	04	01	-	Urban	5,000/-	100	Shri Ram Khandwe Guru, shri Janardhan Swami Yogabhasi.
54	Dr. Vasantrao Deshpande Sangeet Samaroha	Nagpur (M.S.)	17.08.2015	Aditya Modak (Hindustani Vocal) Rakesh Chaurasia (Flute) Smt. Girija Devi (Vocal)	04 02 02	 04	-	Urban	22,83,497/-	800	Shri Krupal Tumane, Member of Parliament,Shri Anoop Kumar IAS, Divisional Commissioner, Nagpur. Shri Basantlal Show, Shri Prasanna Varale, High Court Judge, Shri Naveen Sona, IAS, Director, Vanamati, Shri Ranjeet Deshmukh,
55	Dr. Vasantrao Deshpande Sangeet Samaroha	Nagpur (M.S.)	18.08.2015	Mayur Sharma (Tabla) Uday Bhawalkar (Dhrupad) Niladri Kumar (Sitar)	02 03 02			Urban	Expen. Included in Sr. No. 54	900	Shri Prasanna Varale, High Court Judge, Shri R.R. Mishra, M.D. , W.C.l.
56	Dr. Vasantrao Deshpande Sangeet Samaroha	Nagpur (M.S.)	19.08.2015	Maihar Band (M.P.) Wadali Brothers (Sufi Folk Singer)	12 09			Urban	Expen. Included in Sr. No. 54	1000	Shri Prasanna Varale, High Court Judge, Shri Bhushan Gawai, High Court Judge,
57	Lok Kala Yatra	Atari (C.G.)	22.08.2015	Chau Nritya Bahurupi Bhartari Gayan Halagee Kunitha Lingo Nritya	14 05 05 14 14	- - 01 - -	Rural		5,50,000	2000	Shri Samjeet Sahu President, Atari
58	Lok Kala Yatra	Mohalai (C.G.)	23.08.2015	Chau Nritya Bahurupi Bhartari Gayan Halagee Kunitha Lingo Nritya	14 05 05 14 14	- - 01 - -	Rural		Expen. Included in Sr. No. 57	2000	Smt. Ramsheela Sahoo, Hon'ble Min. for women & Child Development & Dr. A. Shoo Ex. MLA

59	Lok Kala Yatra	Abhanpur (C.G.)	24.08.2015	Chau Nritya Bahurupi Bhartari Gayan Halagee Kunitha Lingo Nritya	14 05 05 14 14	- - 01 - -	Rural		Expen. Included in Sr. No. 57	2000	Shri A. Bajaj, Chairman, Brij Utapadam & Shri S. Baghel, Chairman, Panchayat Parishad
60	Training Painting Workshop	Dhrupad Sanshan, Bhopal (M.P)	25.08.2015 To 31.08.2015	Scroll Painting Warangal Style (A.P.) Shri N. Ganesh Patta & Phad Painting (Orissa) Shri Bhavendra Jha	01 01		-	Urban	44,000/-	700	Shri Ramakant Gundecha, Dhrupad Singer
61	Anandam	Nagpur (M.S.)	01.09.2015 to 31.09.2015	Yoga	25	40	--	Urban		65	Regular activity Programme
62	Mujhe Bhi Kuch Khena Hai.	Nagpur (M.S.)	06.09.2015	Gayan, Kathakathan	06	07		Urban	5000/-	150	Regular activity Programme
63	Lok Kala Yatra	Piduguralla Disgt-Guntur (A.P.)	10.09.2015	Panthi Nritya (C.G.) Gargalu Nritya (A.P.) Songi Mukhwate (M.S.) Dholu Kunitha (K.S.) Gudum Baja (M.P) Kanakatppu (local Group)	12 11 15 15 12 15	-- 04 -- -- -- --	Rural	--	7,56,237/-	800	Shri Amraali, Ward Member & Shri Addiynai shrinivasan, Chairman, Committee

64	Lok Kala Yatra	Dache Palli Mandal Dist- Guntur (A.P.)	11.09.2015	Panthi Nritya (C.G.) Gargalu Nritya (A.P.) Songi Mukhwate (M.S.) Dholu Kunitha (K.S.) Gudum Baja (M.P) Thinmara (local Group)	12 11 15 15 12 15	-- 04 -- -- -- --	Rural	--	Expen. Included in Sr. No. 63	800	Shri Subbrao, S.I., DaChepalli.
65	Lok Kala Yatra	Karempudi Dist- Guntor (A.P.)	12.09.2015	Panthi Nritya (C.G.) Gargalu Nritya (A.P.) Songi Mukhwate (M.S.) Dholu Kunitha (K.S.) Gudum Baja (M.P) Burrakatha (local Group)	12 11 15 15 12 02	-- 04 -- -- -- --	Rural	--	Expen. Included in Sr. No. 63	800	
66	Cultural Programme	Saraipali Mahasamun dar (C.G.)	18.09.2015 To 20.09.2015	Manipur Lok Nritya Bamboo Nritya Mizoram	15 09	05 09	Rural	--	4,54,167/-	1500 per day	Programme Organised by Nagar Palika Parishad, Saraipalli (C.G.)
67	Lok Kala Yatra	Ramtek (M.S.)	23.09.2015	Bhangda /Gidha (Puj) Gudum Baja (M.P.) Kalbeliya/ Bhavai (Raj.) Sidhi Dhamal (Guj) Chau Nritya	10 15 9 12 14	07 -- 5 -- --	Rural	-	5,90,000/-	2000	Shri Tumane, Member of Parliament, Ramtek, Shri Ashish Jaiswal Ex- MLA, Ramtek
68	Varhadi Hasya Kavi Sammelan (Lok kala Yatra)	Katol (M.S.)	23.09.2015	Varhadi Kaviya	04	01	Rural	-	Expen. Included in Sr. No. 68	3000	Shri Ranjeet Deshmukh, Ex- Minister and Shri Ashish Deshkukh, MLA

69	Lok Kala Yatra	Godhani (M.S.)	24.09.2015	Bhangda /Gidha (Puj) Gudum Baja (M.P.) Kalbeliya/ Bhavai (Raj.) Sidhi Dhamal (Guj) Chau Nritya	10 15 9 12 14	07 -- 5 -- --	Rural	-	Expen. Included in Sr. No. 68	800	Shri Deepak Raut, Dy. Sarpanch, Godhani Grampanchayat
70	Varhadi Hasya Kavi Sammelan (Lok kala Yatra)	Narkhed (M.S.)	24.09.2015	Varadi Hasya Kavi Sammelan	04	01	Rural	-	Expen. Included in Sr. No. 68	3500	Shri Ranjeet Deshmukh, Ex- Minister and Shri Ashish Deshkukh, MLA
71	Lok Kala Yatra	Katol (M.S.)	25.09.2015	Bhangda /Gidha (Puj) Gudum Baja (M.P.) Kalbeliya/ Bhavai (Raj.) Sidhi Dhamal (Guj) Chau Nritya	10 15 9 12 14	07 -- 5 -- --	Rural	-	Expen. Included in Sr. No. 68	2000	Shri Ashish Deshmukh, MLA
72	Lok Kala Yatra	Narkhed (M.S.)	26.09.2015	Bhangda /Gidha (Puj) Gudum Baja (M.P.) Kalbeliya/ Bhavai (Raj.) Sidhi Dhamal (Guj) Chau Nritya	10 15 9 12 14	07 -- 5 -- --	Rural	-	Expen. Included in Sr. No. 68	2000	Shri Tumane, Member of Parliament, Ramtek, Shri Ashish Jaiswal Ex- MLA, Ramtek
73	Anandam	Nagpur (M.S.)	01.10.2015 to 31.10.2015	Yoga	25	40	--	Urban		65	Regular activity
74.	Lok Kala Yatra	Hubli , (K.S.)	02.10.2016	Lavani Nritya (M.S Gudum Baja (M.P.) Doddata (K.S.) Gotipua(Odisha) Cherow (Mizoram)	08 15 15 15 08	07 - - - 07	--	Urban	8,61,149/-	3000	Shri Arvind Belled, MLA, Dharwad

75	Lok Kala Yatra	Shalwadi (K.S.)	03.10.2016	Lavani Nritya (M.S Gudum Baja (M.P.) Doddata (K.S.) Gotipua(Odisha) Cherow (Mizoram)	08 15 15 15 08	07 - - - 07	--	Urban	Expen. Included in Sr. No. 75	2000	Shri S. Muddakari, Member of Karnataka Janapada Academy & Shri V.C. Patil, Chairman, Gram Panchayat, Shalwadi
76	Lok Kala Yatra	Shiggaon	04.10.2016	Lavani Nritya (M.S Gudum Baja (M.P.) Doddata (K.S.) Gotipua(Odisha) Cherow (Mizoram)	08 15 15 15 08	07 - - - 07	--	Urban	Expen. Included in Sr. No. 75	1000	Dr. Srishail Hoddar, President Karnataka Janapada Parishad.
77	Mujhe Bhi Kuch Khena Hai.	Nagpur (M.S.)	04.10.2015	Gayan, Mimicry Instrumental	09	03		Urban	5,000/-	100	Regular Activity
78	4th Handicraft & Cultural Village	Innovative Film City, Bangalore	16.10.2015 to 19.10.2015	Songi Mukhwate (M.S.) Baiga Karma (M.P.) Ghusadi (A.P.) Panthi (C.G.)	16 07 07 15	-- 08 08 -	--	Urban	4,20,493/-	--	Programme Organised by Innovative Film City, Bangalore. The Centre sponsored four troupes.
79	Vaako Naam Kabeer (A majestic journey into mystic aura of Sant Kabeer)	Sai Sabhagruha Shankar Nagar	16.10.2015	Ustad Baljeet Singh Namdhari Mukhtiyar Ali	04 07	--	--	Urban	12,83,200/-	400	Shri Anup Kumar, Divisional Commissioner, Nagpur, Shri Basantlal Shaw, President, Nico Group.
80	Vaako Naam Kabeer (A majestic journey into mystic aura of Sant Kabeer)	Sai Sabhagruha Shankar Nagar	17.10.2015	Kalapini Komkali Padmashree Prahlad Singh, Tipanya	02 07	03	--	Urban	Expen. Included in Sr. No. 80	450	Shri Anup Kumar, Divisional Commissioner, Nagpur, and Shri Devendra Parekh, President, VED
81	Vaako Naam Kabeer (A majestic journey into mystic aura of Sant Kabeer)	Sai Sabhagruha Shankar Nagar	18.10.2015	Shekhar Sen	07	--	--	Urban	Expen. Included in Sr. No. 80	450	Shri Anup Kumar, Divisional Commissioner, Nagpur, Shri Anup Jalota, Bhajan Singer, Shri Kisan Sharma, Shri Madhoop Pandey, Poet.

82	Dashahara Mahotsava	Basana (C.G.)	19.10.2015 to 22.10.2015	Raaseela (Manipur) Bamboo Dance	13 11	05 07	Rural	--	5,26,658/-	--	Programme organized by Women & Child Development & Social Welfare, Saraipalli, (C.G.) The Centre sponsored two troupes.
83	Foundation day celebration of MECL	MECL, Nagpur	21.10.2015	Cultural evening by Kala Sangham, Group, Nagpur	08	04	-	Urban	--	--	Programme organized by MECL, Nagpur
84	Mysore Dasara Festival	Mysore (K.S.)	22.10.2015 to 23.10.2015	Gangaur Nritya	7	8	--	Urban	--	--	Programme Organised by S.Z.C.C.,Thanjavur
85	International Crafts & Culture Fair 2015	Bangaluru (K.S.)	24.10.2015 to 25.10.2015	Gangaur Nritya	7	8	--	Urban	--	--	Programme Organised by S.Z.C.C.,Thanjavur
86	Lok Kala Yatra	Kovur (A.P)	26.10.2015	Dappu (Telangana) Gargalu (A.P.) Dhangari Gaja(M.S) Badhai (M.P.) Panthi (C.G.)	15 15 15 10 15	- - - 05 -	Rural	--	7,26,237/-	1000	Shri Surya Bhaskar Ram Mohan, Kovur, Panchayat Chairman, & Shri P Srinivas Rao Ward Council.
87	Lok Kala Yatra	Kadiyam (A.P)	27.10.2015	Dappu (Telangana) Gargalu (A.P.) Dhangari Gaja(M.S Badhai (M.P.) Panthi (C.G.)	15 15 15 10 15	- - - 05 -	Rural	--	Expen. Included in Sr. No. 87	2000	Mandal President Sri Murgani Satyanarayana
88	Lok Kala Yatra	Dulla (A.P)	28.10.2015	Dappu (Telangana) Gargalu (A.P.) Dhangari Gaja(M.S Badhai (M.P.) Panthi (C.G.)	15 15 15 10 15	- - - 05 -		--	Expen. Included in Sr. No. 87	2000	Sri G. Sathyanarayan & Sri N.V.V.Murthy, M.P.D.O.,Dulla, Kadiyam

89	Lok-Rang Festival	Jaipur (ERaj.)	28.10.2015 to 31.10.2015	Badhai/ Norta (M.P) Dholu Kunitha (K.S.) Panthi Nritya (C.G.)	08 15 15	07 -- --	--	1	3,90,831/-	--	Programme Organised by Jawahar Kala Kendra, Centre sponsored three troupes.
90	Anandam	Nagpur (M.S.)	01.11.2015 to 30.11.2015	Yoga	25	40	--	Urban		65	Regular activity
91	Mujhe Bhi Kuch Khena Hai.	Nagpur (M.S.)	01.11.2015	Gayan, Light music songs	09	03		Urban	5,000/-	100	Regular Activity
92	Rashtriya Samskruti Mahotsava	IGNAC New Delhi	01.11.2015 To 08.11.2015	Songi Mukhawate Gudum Baja Gaur Maria Panthi Badhai Lezim Rai Shiv Mudra Dhol Kabir Gayan Tal Vadya Kacheri Cultural Quiz Rangoli Traditional Painter (Angan)	16 16 10 16 10 09 11 45 07 03 03 07 20	-- - 06 -- 06 06 04 10 -- -- - 03 05	-	Urban	49,63,311/-	4000 per day	Dr. Venkaiah Naidu, Hon'ble Minister for Urban Development Housing, Smt. Sushma Swaraj, Hon'ble Minister for External Affairs overseas Indian Affairs, Dr. Mahesh Sharma, Hon'ble Minister for Culture and Many other dignitaries
93	Utkal Banga Utsav -2015	Chandaneswar Mahavidyalay, Campus, Sahabajipur Odisha	18.11.2015 To 20.11.2015	Gedi Nritya (C.G.) Bhagoriya (M.P.)	15 07	-- 08	-	Urban	1,74,050/-	2500	Programme organized by Utkal Banga Utsav Committee,
94	Janabheri National Theatre Festival	Thrissur, Kerala	20.11.2015	A Theatre Play The Transparent Trap from Pune (M.S.)			--	Urban	45,000/-	1500	Programme organized by Janbheri National Theatre, Kerala

95	Pachmadhi Utsav	Pachmadhi (M.P.)	20.11.2015 To 22.11.2015	Bihu (Assam)	07	08	Rural	--	1,26,171/-	3,000	Programme organized by District Administration , Hoshangabad
96	Dance – Jathre (National Festival of Dance)	Chitrakala Parishad Bangalore	21.11.2015 To 22.11.2015	Smt. Shama Bhate Pune & group Local group	- 15	06 20	--	Urban	50,000/-	2500	Programme organized by Shambhavi School of Dance, Bangalore
97	Rashtriya Sanskrit Parishad (Ashtapailu Kalidas)	Nagpur	22.11.2015	Seminar	03	01	--	Urban	55,062/-	400	Programme by Kavi Kulguru Kalidas Sanskrut Mahavidyalaya, Ramtek
98	Paramparik Bhitti Chitra Karyashala	Nagpur	23.11.2015 To 29.11.2015	Warli (M.S.) Rajwad(C.G.) Bhil (M.P.) Gond (M.P.) Traditional Mural (K.S.) Madhubani (Bihar)	04 05 04 04 04 1	02 01 02 02 - 5	--	Urban	4,40,000/-	1000	Smt Manakibai Wayda, State Awardee, Warli Painting
99	Republic Day Parade Children Continent Rehearsal	Nagpur	24.11.2015 To 15.12.2015	Songi Mukhwate (M.S.) Gusadi (A.P.) Participant Children's (from different schools)	08 08 80	-- -- 70	--		Expenditure incurred in Sr. no.139.	200 per day	
100	Mandai Mela Utsav	Mohlamanpur (Dist-Rajnandgaon (C.G.)	29.11.2015 To 01.12.2015	Bihu Nritya (Assam)	07	08	Rural	--	97,666/-	--	Programme organized by District Administration Rajnandgaon (C.G.)
101	Anandam	Nagpur (M.S.)	01.12.2015 to 31.12.2015	Yoga	25	40	--	Urban		65	Regular activity
102	Mujhe Bhi Kuch Khena Hai.	Nagpur (M.S.)	06.12.2015	Gayan, Light music songs	09	03		Urban	5,000/-	100	Regular Activity

103	Painting Workshop	Nagpur	06.12.2015 To 15.12.2015	Warli Painting (M.S.) Madhubani style (Bihar) Rajasthani (Pichwai, Gangour) Odishapat Chitra (Surpur style) Karnataka	7	28	-	Urban	10,88,667/-	-	
104	Rashtriya Shilp Mela	NCZCC, Allahabad	7.12.2015 To 09.12.2015	Dholu Kunita	15	--	--	Urban	--	--	Programme organized by North Central Zone Cultural Centre, Allhabad
105	Painters Camp Kurukshetra Utsav	Kurukshetra	11.12.2016 To 20.12.2015	Painters	01	-	-	Urban	-	-	Programme organized by North Zone Cultural Centre, Patiala
106	Brahmanad	Nagpur	12.12.2015	Shujatkhan (Sitar) Dr. Kalyani Deshmukh (Vocal)	05	03	-	Urban	3,50,000/-	450	Regular Activity
107	Gita Gayanti Mahotsava	Kurukshetra	17.12.2015 To 21.12.2015	Rai Nritya Dholu Kunitha	09 15	06 --	--	Urban	2,53,356/-	--	Programme organized by Information, Public Relations & Cultural Affairs, Department, Haryana
108	Lok Kala Yatra (Dist- Karwar)	Sadashivgad (K.S.)	20.12.2015	Songi Mukhwate M.S. Sugi Kunitha K.S. Mimicry (K.S.) Thatya – M.P. Lawani- M.S. Ghoomar – Har.	15 15 03 09 09	-- -- -- 06 06	Rural	--	7,74,981/-	800	Inaugurated by Shri Vijaykumar Ghosh, IAS, Dy. Commissioner Karwar (K.S.)
109	Lok Kala Yatra	Avesa (K.S.)	21.12.2015	Songi Mukhwate M.S. Sugi Kunitha K.S. Mimicry (K.S.) Thatya – M.P. Lawani- M.S. Ghoomar Haryana	15 15 03 09 09	-- -- -- 06 06	Rural	--	Expen. Include in Sr. No.109	600	Inaugurated by Shri Madhav Naik, Social Worker

110	Lok Kala Yatra	Amadali (K.S.)	20.12.2015	Songi Mukhwate M.S. Sugi Kunitha K.S. Mimicry (K.S.) Thatya – M.P. Lawani- M.S. Ghoomar Haryana	15 15 03 09 09	-- -- -- 06 06	Rural	--	Expen. Include in Sr. No. 109	1000	Inaugurated by Dr. R. Jamaddani, P.o. Karnataka Folk University , Dandali
111	Vasant Bahar	Ravindra Natya Mandir, Prabhadevi Mumbai	22.12.2015	Yuva Kala Manch, Mumbai Mahesh shedge Anil Karlkar Jagdish Mayekar Prashant Lalit Depak Borkar Praful Pawaskar Sanjay Thakur Salaka Thakur Pritam Purav D.D. Purav Santosh Panchal	7 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1	8 - - - - - - 1 - 1 -	--	Urban	69,700/-	1500	Programme organized by Department of Cultural Affairs, Mumbai in collaboration with SCZCC,Nagpur
112	Karwar a Adab (Akhil Bhartiya Mushayara)	Nagpur	23.12.2015	Anwar Jalpuri Gopaldas Neeraj Aalok Shrivastav Sunil Kumar Tang Nia Fadli Samer Kabir Sheen Kaaf Nizam	1 1 1 1 1 1 1	--	--	Urban	7,51,205/-	2000	Regular Activity
113	Maharashtra Darshan	University Cultural Centre	26.12.2015	Warsa Sanskruticha (M.S.)	12	08	--	Urban	30,37,659/ -	800	Inaugurated by Shri Deshpande, President, Sanand, Indore
114	Maharashtra Darshan	Navnaas Kolhe Samudaik Bhavan, Ram Nagar Indore	26.12.2015	Dhangari Gaja Songi Mukhwate Koli Nritya Korku Nritya Lingo Nritya Powada Khanjari Wadan Bharud	20 20 12 08 15 09 04 02	-- -- 08 11 05 01 04 05	--	Urban	Expend. Included in Sr. No 114	1000	

115	Maharashtra Darshan (Warli Painting Workshop)	Shri Madhav University	26.12.2015 To 29.12.2015	Warli Painting Artists from Thane (M.S.)	04	01	--	Urban	Expend. Included in Sr. No 114.	1000	
116	Maharashtra Darshan (Sanskar Bharti Rangoli Workshop)	University Cultural Centre, Indore	26.12.2015 To 29.12.2015	Rangoli artists Maharashtra – Nagpur & Warli Painter	3 5	4	--	Urban	Expend. Included in Sr. No 114.	1000	
117	Maharashtra Darshan	University Cultural Centre, Indore	27.12.2015	Santwani – Pune	04	01	--	Urban	Expend. Included in Sr. No 114	1000	
118	Maharashtra Darshan	University Cultural Centre, Indore	27.12.2015	Jai Jai Gauri Shankar (Musical Play)	17	03	--	Urban	Expend. Included in Sr. No 114	800	
119	Maharashtra Darshan	Samartha Path Panth Vaidya Colony, Indore	27.12.2015	Dhangari Gaja Songi Mukhwate Koli Nritya Korku Nritya Lingo Nritya Powada Khanjari Wadan Bharud	20 20 12 08 15 09 04 02	-- -- 08 11 05 01 04 05	--	Urban	Expend. Included in Sr. No 114	750	
120	All India Craft Mela	Shilparamam, Hyderabad	27.12.2015 To 30.12.2015	Raasleela / MabojoyNritya Panthi Nritya Lawani Nritya Kathi Nritya	11 15 09 15	07 -- 06 --	--	Urban	4,35,027/-	--	Programme organized by Shilparamam, Arts Crafts & Cultural Society
121	Maharashtra Darshan	University Cultural Centre, Indore	28.12.2015	Dhangari Gaja Songi Mukhwate Koli Nritya Korku Nritya Lingo Nritya Powada Khanjari Wadan Bharud	20 20 12 08 15 09 04 02	-- -- 08 11 05 01 04 05	--	Urban	Expend. Included in Sr. No 114	1000	

122	Maharashtra Darshan	Anand Mohan Mathur Sabha gruha, Indore	29.12.2015	Dhangari Gaja Songi Mukhwate Koli Nritya Korku Nritya Lingo Nritya Powada Khanjari Wadan Bharud	20 20 12 08 15 09 04 02	-- -- 08 11 05 01 04 05	--	Urban	Expend. Included in Sr. No 114.	1000	
123	Maharashtra Darshan	University Cultural Centre, Indore	29.12.2015	Lawani Nritya	06	04	--	Urban	Expend. Included in Sr. No 114	800	
124	Cultural Programme	Hindi Vishvavidya laya , Wardha	30.12.2015	Padmashri Pralhad Tipaniya	05	--	--	Urban	1,00,000/-	850	Programme organized by Mahatma Gandhi Vishvadyalaya, Wardha
125	All India Mega Festival of Folk Martial Arts Shourya Parva	Ramanagar (K.S.)	31.12.2015 To 03.01.2016	Karrasamu Art (A.P) Akhada Kartab (C.G.) Akhada (M.P.) Thangta (Manipur)	15 15 15 15	-- -- -- --	--	Urban	4,54,500/-	---	Programme Organised by Karnataka Sahasa Kala Academy, Ramanagar, Bangalore
126	Anandam	Nagpur (M.S.)	01.1.2016 to 31.1.2016	Yoga	25	40	--	Urban		65	Regular activity
127	Mujhe Bhi Kuch Khena Hai.	Nagpur (M.S.)	03.1.2016	Gayan, Light music songs	09	03		Urban	5,000/-	100	Regular Activity

128	24th Orange City Craft Mela	Nagpur (M.S.)	8.01.2016 To 12.01.2016	Ghumar Nritya (Haryana) Rannnapa Teralali/ Bhavai Chhau Nritya Thapeta Gullu Powada Padwani Gayan Bharud Manganiyar Bajigar Bioscope Totawale Baharupiya Craftsmen Food stall	07 16 08 16 15 07 07 06 08 08 -- 02 08 178 28	08 -- 07 - - - 01 -- -- -- 2 -- --	--	Urban	1,09,81,083/ -	3000 per day	Inaugurated by Shri Chandrashekhar Bawankule,, Gardian Minister, Govt. of Maharashtra and other dignitaries
129	Salangai Naadam & All India Craft Fair	Thanjavur	09.01.2016 To 17.01.2016	Gudum Baja M.P Lawani Nritya M.S.	15 07	-- 08	--	Urban	--	--	Programme organized by South Zone Cultural Centre, Thanjavur
130	Bramhanaad	Nagpur M.S.	01.01.2016	Ram Shankar Bhimmna Jadhav	03 01	--	-	Urban	2,60,000/-	900	Regular Activity
131	24th Orange City Craft Mela	Nagpur (M.S.)	13.01.2016 To 16.01.2016	Mewasi Nritya Raasleela & Pung cholam Kalbeliya & Chari Nritya Kud Nritya Bhangda & Giddha Nritya Kajari Gayan Bajigar Bioscope Totawale Baharupiya Craftsmen Food stall	11 07 06 15 08 06 08 -- 02 08 178 28	10 06 07 - 08 01 -- 2 -- --	--	Urban	Expend. Included in Sr. No 129	2500 per day	

132	Food Festival	Dharwad (K.S.)	14.01.2016 To 16.01.2016	Badhai Nritya M.P Dhangari gaja M.S.	08 15	07 --	--	Urban	1,34,961/-	600 per day	Inaugurated by Shri Mahesh Shetty, President, Food Fest- 2016
133	24th Orange City Craft Mela	Nagpur (M.S.)	17.01.2016	Naurangi Natni (Folk Play) Lawani Nritya Bajigar Bioscope Totawale Baharupiya Craftsmen Food stall	04 12 08 -- 02 08 178 28	01 08 -- 2 -- --		Urban	Expend. Included in Sr. No 129	2000	
134	Sanskrutic Sandhya	C.P. Club, Nagpur	21.01.2016	Panthi Nritya C.G. Lawani nritya M.S. Badhai/ Norta M.P.	15 07 07	-- 08 08	--	Urban	1,65,000/-	800	Programme inaugurated by Chief Secretary, Government of M.S.
135	All Women "World Folk Arts"	Ravindra Kalakshetra Bangalore	22.01.2016 to 24.01.2016	Dholu Kunitha	--	09	-	Urban	33,200/-	--	Programme organized by International Arts & Cultural Foundation, Bangalore
136	Gram Mahotsava	Godhangaon	23.01.2016 To 25.01.2016	Panthi Nritya Lawani Nritya Badhai Nritya	15 08 07	-- 07 08	Rural	-	1,92,633/-	--	Programme organized by Sawangadi Sansthan, Godhangaon
137	Workshop on Indo China Music	Nagpur M.S.	23.01.2016	Chinise Indian	08 08	-- --	-	Urban	--		

138	R.D. Parade Children Contingent Rehearsal - I & Rehearsal - II	Raj Path New Delhi Nagpur New Delhi	26.01.2016 10.12.2015 to 25.12.2015 04.01.2016 to onwards	Dance Expert Songi Mukhwate Chorographer Assistant Teacher Cordinator Boys Girls	08 1 8 76	 1 3 67	--	Urban	61,41,586/ -		In presence of Shri Francois Hollande, Hon'ble President of the France, Shri Pranab Mukherjee Hon'ble President of India, Shri Narendra Modi, Hon'ble Prime Minister, and many other dignitaries
139	Lok Rang	Bhopal M.P.	27.01.2016 to 28.01.2016	Lawani Nritya M.S. Mathuri Nritya A.P.	07 07	08 08	--	Urban	1,08,488/-	1500 per day	Programme organized by Adiwasi Lok Kala & Boli Vikas Akademy, M.P.
140	Rang Bundeli	Khajuraho M.P.	28.01.2016	Shri Munnalal Saini Babulal Rajput Smt. Shakuntala Rajput & others	01 01 03	-- -- 01	Rural	--	77,278/-	500	
141	Kalakari (Competition for Bundeli Traditional Art Form)	Khajuraho M.P.	29.01.2016	160 students from various school	120	40	Rural	-	18,000/-	500	Expert for Judging Shri Bahadur Singh Parmar, Principal Govt. college Rajnagar Smt. Pawan Singh, Bundeli ptg Artists
142	Rajasthani Folk song and Sufi Gayan	Chandrapur (M.S.)	29.01.2016	Shri Pawar and his group from Mumbai	12	08	Rural	-	80,000/-	800	
143	Drums of India	Govt. Junior College ground, Ram Nagar (K.S.)	29.01.2016	Banchari Nagada Dhol Dholak cholam – Manipur Gudam Baja Dhappu Dance	10 15 15 15	-- -- -- --	--	Urban	5,94,462	800	Programme inaugurated by Director, N.S.D. Bangalore
144	Abhinandan Samaroha (R.D. Parade Children Contingent – 1st Prize winner	Centre's Campus, Nagpur	29.01.2016	Songi Mukhwate dance presence by Children Boys Gils	 76	 67	-	Urban			Inaugurated by Shri Banwarilal Purohit, Ex. M.p.

145	Drums of India	Bidadi (K.S.)	30.01.2016	Banchari Nagada Dhol Dholak cholam – Manipur Gudam Baja Dhappu Dance	10 15 15 15	-- -- -- --	--	Urban	Expend. Included in Sr. No 144	500	
146	Drums of India	Innovative Film City (K.S.)	31.01.2016	Banchari Nagada Dhol Dholak cholam – Manipur Gudam Baja Dhappu Dance	10 15 15 15	-- -- -- --	--	Urban	Expend. Included in Sr. No 144	300	
147	Folk Theatre Festival	Shilpgram Khajuraho	31.01.2016	Chhisgarahi Folk theatre Raipur by Shri Rakesh Tiwari	18	--	Rural	-	95,000/-	500	Inaugurated by Shri Rakesh Tiwari,
148	Anandam	Nagpur (M.S.)	01.2.2016 to 29.2.2016	Yoga	25	40	--	Urban		65	Regular activity
149	International Fleet Review	Vishakapatnam (A.P.)	02.02.2016 To 06.02.2016 04.02.2016 05.02.2016 06.02.2016	Bihu Siddhi Dhamal Bhangda/giddha Thapetta Gullu Ghoomar, Faag Pung Cholam Padmabhushan Raja Radha Reddy- Kuchipudi Padmashree Kavitha Krishmurty Aaditi Bhagwat & groups Bahurupi Puppet Bajigar Kacchi Ghodi Rangoli Craftsmen Food Stalls	08 16 10 16 15 08 12 08 12 07 10 08 08 06 110 34	07 -- 10 -- 08 12 -- -- 02	--	Urban	99,00,000	25000 per day	On 4th March 2016 inaugurated by Shri Chandrababu Naidu, Chief Minister & on 6th March, 2016 visit – Shri Narendra Modi, Hon'ble Prime Minister of India

SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE, NAGPUR

Activity Report for the period 01.04.2015 to 31.03.2016

150	Chalo Man Ganga Yamuna Teer (Magh Mela)	Allahabad	04.02.2016 To 06.02.2016	Thapatagullu A.P. Dholu Kunitha K.S.	15 --	-- 15	--	Urban	--	--	Programme organized by North Central Zone Cultural Centre, Allahabad
151	Chikhaldhara Paryatan Mahotsava	Chikhaldhara (M.S.)	6.02.2016 To 07.2016	Lawani M.S. Bhangda (Puj)	07 15	08 --	Rural	--	1,39,955/-	600 per day	Chikhaldhara
152	Kala Ghoda Festival	Kala Ghod Street, Mumbai	6.02.2016 To 14.02.2016	Puppet Show Bahurupi Kachi Ghodi Kalbeliya Nritya Adiwasi Nritya	05 5 4 03 02	 03 04	--	Urban	1,34,900/-	2500 per day	Programme organized by Department of Cultural Affairs, Mumbai.Centre sponsord the artists
153	Mujhe Bhi Kuch Khena Hai.	Nagpur (M.S.)	07.2.2016	Gayan, Light music songs	09	03		Urban	5,000/-	100	Regular Activity
154	International Fleet Review	Vishakapatnam (A.P.)	07.02.2016 To 10.02.2016 08.02.2016 09.02.2016	Dnagi Nritya Chhau Mayur Holi/ Charkula Rauf Nritya Tera Taali Panthi Been Jogi Kalbeliya/Bhawa Mangniyar Martial Art Panch Vadya Mall Khamb Pt. Rakesh Chaurasia & group Padmashree Vijay Ghate & Group Shama Bhate& group Craftsmen Food Stalls	11 15 08 07 07 16 13 07 11 30 10 21 06 14 110 34	10 - 10 08 08 - - 08 - - - - - -	--	Urban	Expend. Included in Sr. No 150	25000 per day	
155	Lokotsava	Bangalore (K.S.)	13.02.2016 To 14.02.2016	Baiga Karma Bhill Nritya	07 15	08	--	Urban	2,00,000/-		Programme organized by Karnataka Janapada, Bangalore

156	Make In India	Mumbai	13.02.2016 To 18.02.2016	Dholu Kunitha Badhai Nritya Pandwani Gayan Malkhamb Creative Rangoli 4- artists from Mumbai Traditional Mask Making 2 artists - Warangal(A.P.)	15 08 07 12 04 02	-- 07 01 08	--	Urban	8,49,514/-	5000 per day	Inaugurated by Shri Narendra Modi, Hon'ble Prime Minister of India.
157	Discover North East – 2016	Tripura	13.02.2016 To 15.02.2016	Gaur Maria (C.G.)	07	08	--	Urban	--	--	Programme organized by North East Zone Cultural Centre, Dimapur. The Centre sponsored artists under NCEP norm.
158	Competition for Bundeli Traditional Art Forms	Khajuraho (M.P.)	13.02.2016	School children	25	11	Rural	-	18,000/-	500	Traditional Folk Singing competition
159	Bramhanaad	Nagpur	14.02.2016	Shri Ashok Chadradhar (New Delh) Pt. Ulhas Kashalkar Kolkata	1 5	1	--	Urban	5,71,263/-	500	Regular activity
160	Ambedkari Jalasa	Mumbai	17.02.2016 To 18.02.2016	Padmashi Bharti Bandhu Abhijit Kosambhi	04 9	-- 4	--	Urban	2,32,000/-		Programme organized by Department of Cultural Affairs, Govt. of M.S.
161	Lopmudra	Amravati	17.02.2016 to 21.02.2016	Panthi Nritya	15	--	--	Urban	86,875/-	--	Programme organized by Canvas Foundation, Amravati,
162	Bilasa Mahotsava	Bisalpur (C.G.)	19.02.2016 To 21.02.2016	Saila Karma (M.P) Songi Mukhwate	08 15	07	--	Urban	1,26,017/-	--	Programme organized by Bilasa Mahotsava

163	International Dhrupad Samaroha	Gwalior (M.P.)	19.02.2016 To 21.02.2016	Amita Sinha Mahapatra Sukhad Munde & Rushishankar Upadyaya Ivan Tunzalkar Padmashri Vasifuddin Dagar Dr, RitwikSanyal Shri Inove Sau Vishal Bhattrei Pt. Dalchand Sharma Nainshi Lesh Pt. Umakant Ramakant Gundecha Borther Afzalhusen/ Rajesh Sendh (ugalbandi) Pushjkaraj Kashti Uday Bhavalkar Premkumar Malik Ustad Sayeeduddin	03 02 04 03 02 02 03 03 04 05 04 05 06 03	03 -- 02 01 02 -- -- -- 01 -- -- 01 02 01	--	Urban	22,82,810/ -	--	Porgramme organized by South Central Zone Cultural Centre, Nagpur in collaboration with Dhrupad Sasthan,Bhopal, Department of Cultural Affairs, Govt. of M.P.
164	Kala Gram Mahotsava	Aurangabad	20.02.2016 To 22.02.2016	Dholu Kinitha Lawani Songi Mukhwate Panthi Kaksar Saila Karma Gusadi Bhagoriya Gargalu	15 08 15 15 08 08 08 08 08	-- 07 - -- 07 07 07 07 07	--	Urban	6,77,068	-	Programme organized by Department of Cultural Affars, Govt. of M.S. & SCZCC, Nagpur
165	Bundeli Utsav (Traditional Fairs and Festival)	Basari Dist-Chhatarpur	20.02.2016 To 22.02.2016	Kaksar Songi Mukhwate	08 15	07 --	Rural	--	1,50,000/-		Prestigious programme for Bundelkhand region

166	Discover North East – 2016	Manipur	22.02.2016 To 24.02.2016	Panthi Nritya C.G.	15	-	--	Urban	--	--	Programme organized by North East Zone Cultural Centre, Dimapur. The Centre sponsored artists under NCEP norm.
167	Khajuraho Dance Festival	Khajuraho (M.P.)	20.02.2016 To 26.02.2016	Purva Dhanashi Madhu Natraj Pratiksha Kashi Alpana Vajpeyi Dipika Reddi	03 02 03 04 06	02 03 03 04 06	Rural	--	7,50,000--		Programme organized by Ustad Allauddin Kala Academy, Bhopal. Department of Cultural Affairs. Govt. of M.P., & South Central Zone Cultural Centre, Nagpur
168	Discover North East – 2016	Nagaland	22.02.2016 To 24.02.2016	Badhai Nritya (M.P.)	07	08	--	Urban	--	--	Programme organized by North East Zone Cultural Centre, Dimapur. The Centre sponsored artists under NCEP norm.
169	Maa Navchandi Mela Utsav	Khandwa (M.P.)	25.02.2016 to 27.02.2016	Bonalu (A.P.) Raut Nacha (C.G.) Chhaw Nritya	06 15 15	09 -- --	Rural	--	2,44,716/-	--	Programme organized by Maa Navchandi Devidham Shaktipeeth , Khandwa
170	Traditional Bundeli Art Form (Kavi Sammelan)	Khajuraho (M.P.)	28.02.2016	Dr. Awad h Kishor Jariya D.P. Pardarshi, Mahesh Katare & others	10	-	Rural	-	45,000/-	500	Inaugurated by Smt. Kavita Singh, Chairwomen of Nagar Parishad, Khajuraho
171	Anandam	Nagpur (M.S.)	01.3.2016 to 31.03.2016	Yoga	25	40	--	Urban		65	Regular activity
172	Rajim Khumbh	Rajim (C.G.)	01.03.2016 To 05.03.2016	Gotipua (Odisha) Chaw (W.B.) Bonalu (A.P) Baiga Karma (M.P.)	16 15 15 08	-- -- -- 07	--	Urban	3,83,410	--	Pogramme organized by Department of Culture, Govt. of C.G.
173	Mujhe Bhi Kuch Khena Hai.	Khajuraho (M.P.)	04.3.2016	Gayan, Light music songs, Jokes	13	08	Rural	--	10,000/-	500	Regular Activity

174	Mujhe Bhi Kuch Khena Hai.	Nagpur (M.S.)	06.3.2016	Gayan, Light music songs	08	03		Urban	5,000/-	100	Regular Activity
175	Participation in Traditional Fairs & Festival	Khajuraho (M.P.)	09.03.2016	Sugam Sangeet	08	02	Rural	-	20,000/-	2000	Programme inaugurated by Smt. Kavita Singh, Chairman, Nagar Parishad, Khajuraho in presence of Shri Arun Pateria, Chief Municipal Officer, Khajuraho
176	Modern Techniques of Investigation an Intelligence Gathering	NADT, Nagpur	10.03.2016	Light Music Programme				Urban	40,000/-		Programme organized by NADT, Nagpur
177	Rasrang (Sufi, Gazal & Quawali)	Raipur (C.G.)	11.03.2016 To 13.03.2016	Pinaz Masani (Gazal) Aslam Sabhri (Quawali) Hansraj Hans (Sufi Gayan)	16	01	--	Urban	13,13,880/-	2500 per day	Inaugurated by Shri Mishtra, Ex. Chief Secretary, Govt. of Chhatisgarh in presence of Shri Agrawal, Finance Secretary, Govt. of Chhatisgarh.
178	Bramhanaad	Nagpur	13.03.2016	Padmashri Umakant Ramakant Gundecha Brothers (Dhrupad Gayan) Jugalbandhi with Ijino Byunory (Sexophone) Smt. Vijiniya Nikoli (Silver Flute) (Italy) and devotional songs by Karnamritya Dasi (USA)	05	02	--	Urban	3,15,467/-	400	Regular activity. Inaugurated by Shri Anup Kumar, Divisional Commissioner, Nagpur

179	Mahashivratri Festival	Thanjavur	13.03.2016	Ms. Raminder Khurana – Odissi Dancer	03	02	-	Urban	60,000/-	--	Programme Organised by Brahan Natyanjali Fondation, Thanjavur
180	National Theatre Festival	Gubbi (K.S.)	16.03.2016	Nachha (Chhatisgari Style) Dashavathar (M.S.)	18 15	-- --	Rural	--	2,78,693/-	-	Programme Organised by Dr. Gubbi Veeranna Trust, Gubbi (Karnataka)
181	Swarn Jayanti Gramin Rojgar Yojana	Centre's premises	17.03.2016 To 21.03.2016	Bahurupiya Totewale (Raj)	08 02	--	--	Urban	77,880/-	--	Programme organized by Zilla Gramin Vikas Yantrana
182	Cultural Programme	Ordnance Factory, Chanda	18.03.2016	Lawani Nritya Badhai Nritya Kalbeliya, Mangniyar	08 08 05	08 07 07	Rural		1,90,000/-		Programme Organised by Ordnance Factory Chanda
183	29th National Exhibition of Contemporary Art	State Art Gallery, Madhapur Hyderabad	18.03.2016 To 27.03.2016	Works 270 displayed for Exhibition Awards 5- senior cateogory- 2 lakhs each 5- Junior category – 1 lakh each 10- Sponsorshing Award for junior category – 50,000/- each Jury Ms. Anjali Ela Menon Ms. Rini Dhumal & Mr. N.N. Rimzen			--	Urban	72,86,454/-	--	Inaugurated by Hon'ble Cultural Minister, Govt. of Telangana
184	Books Exhition on Art and Culture	State Art Gallery, Madhapur Hyderabad	18.03.2016 To 27.03.2016	5- books stalls Lalit Kala Academy, Delhi Sangeet Natak Academy, Delhi Sahitya Academy, Delhi, International Yoga Societry, Gaziabad Mapin Publishing , Bangalore	9	1	--	Urban	Expend. Included in Sr. No 184		Inaugurated by the hands of Cultural Minister, Govt. of Telengana

185	Live Demonstration of Famous Portrait Rangoli of Maharashtra	State Art Gallery, Madhapur Hyderabad	18.03.2016 To 27.03.2016	Sameer Pednekar Uday, Kalpesh Shubhada	03	01	--	Urban	1,15,000/-		
186	Festival of Visual & Performing Arts by Distinguished Women Artistes of India	State Art Gallery, Madhapur Hyderabad	19.03.2016	Jameela Nishant Urdu Poetry (Telangana) Ritu Verma Pandwani Gayan Mangala Bhat Kathak Nritya (Telangana)	07	04	--	Urban	30,00,000/ -	--	
187	Tapti Mahotsava	Multai (M.P)	19.03.2016 To 20.03.2016	Dandar (M.P.) Lawani (M.S.) Pandwani (C.G.)	16 10 06	-- 06 01	Rural	--	98,030/-	--	Programme organized by Department of Cultural Affairs, Govt. of M.P.
188	Festival of Visual & Performing Arts by Distinguished Women Artistes of India	State Art Gallery, Madhapur Hyderabad	20.03.2016	Ritu Varma Pandwani Gayan Yamini Reddy Kuchipudi Nritya (Telangana)	10	02	--	Rural	Expend. Included in Sr. No 184		
189	Ganpatrao Kavathekar Sangeet Samaroha	Miraj	20.03.2016	Pt. Harvider Sharma (Sitar) Pt. Milind Tulankar(Jaltarang) Pt. Ramdas Palsule (Tabla)	04	--	--	Urban	1,00,000/-		Programme organized by Shri Ganpatrao Kavathekar Sangeet Samaroha Samithi, Miraj
190	Festival of Visual & Performing Arts by Distinguished Women Artistes of India	State Art Gallery, Madhapur Hyderabad	21.03.2016	Chitrangana Agle-Reshwal Pakhawaz (M.P.) Suchismita & Debopriya – Flute	02	03	--	Urban	Expend. Included in Sr. No 184		


191	Festival of Visual & Performing Arts by Distinguished Women Artistes of India	State Art Gallery, Madhapur Hyderabad	22.03.2016	Padmashri Mallini Awasthi Folk Music (U.P.)	04	01	--	Urban	Expend. Included in Sr. No 184		
192	Festival of Visual & Performing Arts by Distinguished Women Artistes of India	State Art Gallery, Madhapur Hyderabad	23.03.2016	Pooja Kamad Teratali, (Raj.) Rimpa Siva – Tabla	06 01	06 01	--	Urban	Expend. Included in Sr. No 184		
193	Heritage of India (Glimpses of Indian Semi classical, folk nad instrumentals music)	Vasuki Auditorium New Delhi	23.03.2016	Dr. Mrs. Tanuja Nafde,& others Semi classical vocal Saroj Monhanty-Harmonium Jitendra Swain 0 Tabla Kiran kumar Sharma – Flute Mridul Nath-Synth Arko Ganguly – Cajon Shrikant Biswakarma - Guitar	06	01	--	Urban	1,00,000/-	--	Programme organized by Swaranjali in collaboration with SCZCC, Nagpur
194	111th Anniversary of Hindu Yuvajana Sangam	Eluru (A.P.)	23.03.2016 To 25.03.2016	Kakasar (C.G) Songi Mukhwate (M.S.) Gangaur (M.P.) Kuchipudi	07 16 08 06	08 -- 10	Rural	--	2,85,208/-	--	Programme Organised by Hindu Yuvajana Sangam.

195	Festival of Visual & Performing Arts by Distinguished Women Artistes of India	State Art Gallery, Madhapur Hyderabad	24.03.2016	Pooja Kamad – Teratali (Raj.) Kalapini Komkali Kabir Bhajan	06 02	06 01	--	Urban	Expend. Included in Sr. No 184		
196	Festival of Visual & Performing Arts by Distinguished Women Artistes of India	State Art Gallery, Madhapur Hyderabad	25.03.2016	Volga – Telugu Poetry(A.P.) Padmashri Penaz Masani – Gazal (M.S.)	02 04	01 01	--	Urban	Expend. Included in Sr. No 184		
197	Lok Natya Utsav	Shilpgram Khajuraho	26.03.2016	Maach Folk Theate (M.P.)	08	10	Rural	-	1,25,090/-	1000	Programme inaugurated by Shri R. Dwivedi, Manager, State Bank of India, Khajuraho
198	Festival of Visual & Performing Arts by Distinguished Women Artistes of India	State Art Gallery, Madhapur Hyderabad	26.03.2016	Jyoti Hegde – Rudra Veena (K.S.) Gopika Verma Mohiniattam Nritya	-- --	02 01	--	Urban	Expend. Included in Sr. No 184		
199	National Tribal Festival -2015	Vishakapatn am (A.P.)	29.03.2016 To 31.03.2016	Gudum Baja (M.P.)	15	--	--	Urban	--	--	Programme Organised by South Zone Cultural Centre, Thanjavur
200	Khar Dhusar Pratiyogita	Nagpur (M.S.)	31.03.2016	Pratiyogita artists Hahsy Vyang Cartoon	 21 02	02	--	Urban	82,667/-	3500	Ianugrated by Shri Anup Kumar, Commissioner, Nagpur Division, Shri Ravindra Kadam, ACP, Nagpur Shri Mishtra, Maneging Director, WCL, Nagpur

Glimpses of Programmes conducted during the Year 2015-16



Inauguration of Khajuraho Film Festival: 25-28-4-2015



Brahmanaad, SCZCC Campus, Nagpur: 10-05-2015






Traditional and Tribal Craft and Painting Training Workshop being held at SCZCC Campus, Nagpur from 15-7-2015 to 21-7-2015



Traditional Folk & Tribal Painting Workshop, Nagpur: 30-6-15 to 6-7-15



Maharashtra Darshan at Indore: 26 to 29-12-2015



Khirwadkar Sangeet Samaroh, Nagpur: 12-13-8-15



Lok Kala Yatra, Chhattisgarh: 22 to 24-8-2015

Glimpses of Programmes conducted during the Year 2015-16



Rashtriya Mahamoorkh Sammelan, Nagpur: 01-04-2015



Make in India, Mumbai: 13 to 18-02-2016



Ras Rang, Raipur (CG): 11 to 13-03-2016



Caravan-e-Adab, Akhil Bhartiya Mushaira, Nagpur: 23-12-2015



Dr. Vasantrao Deshpande Yuva Sangeet Pratiyogita, Nagpur: 25 to 27-07-2015



Guru-Shishya Parampara - Cherial Painting Workshop, Telangana: 2015




Lok Kala Yatra, Madhya Pradesh: 09 to 14-08-2015



Mujhe Bhi Kuchh Kehna Hai, Nagpur: 05-07-2015

Glimpses of Programmes conducted during the Year 2015-16


Inauguration of Khajuraho Film Festival: 25-28-4-2015



Brahmanaad, SCZCC Campus, Nagpur: 10-05-2015




Traditional and Tribal Craft and Painting Training Workshop being held at SCZCC Campus, Nagpur from 15-7-2015 to 21-7-2015


Traditional Folk & Tribal Painting Workshop, Nagpur: 30-6-15 to 6-7-15


Maharashtra Darshan at Indore: 26 to 29-12-2015



Khirwadkar Sangeet Samaroh, Nagpur: 12-13-8-15


Lok Kala Yatra, Chhattisgarh: 22 to 24-8-2015

Glimpses of Programmes conducted during the Year 2015-16



Rashtriya Mahamoorkh Sammelan, Nagpur: 01-04-2015



Make in India, Mumbai: 13 to 18-02-2016


Ras Rang, Raipur (CG): 11 to 13-03-2016


Caravan-e-Adab, Akhil Bhartiya Mushaira, Nagpur: 23-12-2015


Dr. Vasantrao Deshpande Yuva Sangeet Pratiyogita, Nagpur: 25 to 27-07-2015


Guru-Shishya Parampara - Cherial Painting Workshop, Telangana: 2015


Lok Kala Yatra, Madhya Pradesh: 09 to 14-08-2015



Mujhe Bhi Kuchh Kehna Hai, Nagpur: 05-07-2015

मध्यदक्षिणी SCZCC

SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE, NAGPUR

MINISTRY OF CULTURE, GOVERNMENT OF INDIA

SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE, NAGPUR

ANNUAL ACCOUNTS 2015-16

Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the accounts of the South Central Zone Cultural Centre (SCZCC) for the year ended 31 March 2016.

We have audited the attached Balance sheet of the South Central Zone Cultural (the Centre) as at 31March 2016 and the Income &Expenditure Account for the year ended on that date. Under Section 20(1) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Clause 30 (i) of the bye laws of the Centre, The audit has been entrusted for the period up to 2019-20. These financial statements are the responsibility of the Centre's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification. Conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observation on financial transaction with regard to compliance with the Law, Rules and Regulation (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects.ect. If any, are reported through Inspection Reports (AG's Audit Reports Separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

i We have obtained all the information and explanation which, to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit:

ii The Balance Sheet and the Income & Expenditure Account dealt with by this report have not been drawn up strictly in the format approved by this report have not been drawn up strictly in the format approved by the Government of India (Ministry of Finance.) Further, the Centre has not prepared Receipt & Payment Account.

iii In our opinion. Proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Centre as required under Clause 29 (i) of its Bye laws insofar as it appears from our examination of such books,

iv We further report that:

A Balance Sheet

A.1 Liabilities

A.1.1 Corpus Fund (Schedule 1) Rs. 2562.50 lakh

As per Uniform Format of Accounts, Surplus if any, of the Income & Expenditure Account is required to be transferred to Corpus Fund (Schedule 1) of the Balance Sheet. The Centre has however transferred the whole surplus of Rs.133.94 lakh to Reserves & Surplus instead of, to Corpus Fund Corpus is therefore understated by Rs.133.93 lakh with corresponding overstatement of Reserves & Surplus.

A.1.2 Current Liabilities (Schedule 7) Rs.823.79 lakh

Current Liabilities (Sehedule7) include Rs.85.00 lakh on account of rent, water charges, municipal taxes and electricity charges for the period from May 1991 to March 2016. However, as per the records the actual outstanding on this account is Rs.82.45 lakh as on 31.03.2016. Thus the Current Liabilities are overstated by Rs.2.55 lakh with corresponding understatement of Reserves and Surplus.

A.2 Assets

A.2.1 Current Assets, Loans and Advances

(Schedule 11) Rs.700.16 lakh

The Bank Reconciliation Statement in respect of five savings bank accounts maintained by the SCZCC for the year 2015-16 revealed that 52 cheques amounting to Rs. 9,40 lakh issued up to December 2015 were time barred was required to be written back in the accounts. The Centre however had not

Reversed the state cheques which resulted into understatement of bank balance by Rs. 9,40 lakh. This has resulted in understatement of Current Assets, Loans and Advances (Bank Balance) of Rs.9,40 lakh with corresponding understatement of Sundry Creditors.

A.2.2 Current Assets, Loans and Advances

(Schedule 11) Rs. 700.16 lakh.

Bank reconciliation statement in respect of bank of Baroda (Saving A/c no. 04650100005138) revealed that credit in respect of two demand drafts amounting to Rs.14863 and four flexi deposits amounting to Rs.29002 bas effected by the bank. Current Assets, Loans & Advances (Bank Balance) is overstated by Rs. 43865 with corresponding overstatement of Reserves and Surplus.

A.2.3 Investments – Others (Schedule 10) Rs.2972.00 lakh

SCZCC has depicted investments worth Rs.86.17 lakh (Term Deposit Advice-No. 6727654528 worth Rs.86.17 lakh invested on 17.08.2015 with maturity amount of Rs.95.13 lakh and date of maturity as on 17.11.2016) as Rs. 77.00 lakh in the Annual Accounts (Schedule 10, Sub Schedule 7). The investments are thus understated by Rs. 9.17 lakh with corresponding understatement of Reserves & Surplus.

A.2.4 Current Assets, Loans and Advances

(Schedule – 11) Rs. 700.16 lakh

The Centre has not written back lapsed cheques amounting to Rs. 5.68 lakh and traced the unidentified credits of Rs.0.44 lakh appearing in the Bank Reconciliation Statement which are outstanding for more than three month. The Current Assets (bank balance) are thus understated by Rs. 5.24 lakh with corresponding understatement of sundry creditors.

B. Income & Expenditure Account

B.1 Expenditure

B.1.1. Expenditure Rs. 1133.61 lakh

The SCZCC has treated depreciation of Rs.25.22 lakh for the current year as actual expenditure by debiting the same to Income & Expenditure by debiting the same to Income & Expenditure Account. This has resulted in understatement of income of Rs.25.22 lakh with consequent understatement of Reserves & Surplus. The Centre should have treated the same as deferred income as per the guidelines contained in the Uniform Format of Accounts.

B.2 Income

B.2.1 Interest Earned (Sehedule-17) Rs.282.61 lakh

The Centre had received interest of Rs.299.36 lakh from various bank accounts against which it had accounted only Rs.282.61 lakh in Income & Expenditure accounted only Rs.282.61 lakh in Income & Expenditure account, resulting in understatement of income of Rs.16.74 lakh with corresponding of Reserves & Surplus.

C. General Comments

1. SCZCC has not taken action on the CBI Report in respect of the complaint on misconduct of some employees of the Centre, as per the instruction of the Ministry in August 2016. The funds reported to have been misappropriated have not been recovered from the respective personnel so far.

2. SCZCC did not file Service Tax Returns/Income Tax Returns in time. There was undue delay in payment of Profession Tax deducted and TDS from client's etc., to Government Account. There was delay ranging from two months to nineteen months in remittance of Service Tax/Profession Tax/TDS to Government account. The Centre has paid Rs.9.74 lakh on account (Schedule 21 (U) however no provision for interest/penalty was made in the Accounts.

3. SCZCC has not strictly followed Uniform Format of Accounts for Central Autonomous Bodies:

(i) Schedule 8 to Balance Sheet (Fixed Assets) has not been drawn up in the prescribed format.

(ii) The Centre has not attached the required Schedule 24-Significant Accounting Policies and Schedule 25- Contingent Liabilities and Notes to Accounts to the Annual Accounts. However, the Internal Auditor has submitted the Significant Accounting Policies and Notes to Accounts as a part of Internal Auditor's Report which is not in order. The Centre is required to prepare the required Schedules and attach to the Annual in order in maintain uniformity. Transparency and clarity of accounts.

(iii) Expenditure on Grant, Subsidies etc. As per Schedule 22 is Rs.785.61 lakh which is left blank in the Income & Expenditure Account. The Centre has again drawn Schedule 24 and 25 for expenditure on regular programme and special

programme respectively. Thus the schedules are not special programme respectively there is no clarity in the figures reflected in the accounts. The numbering of the sub-schedules are incorrectly reflected in the Annual Accounts and therefore it was cumbersome to link the figures reflected in the Accounts.

4. Artefacts/art works created by Artisans during various programs amounting to Rs. 81.73 lakh were not included in the accounts and no disclosure regarding the same is made in the Notes to Accounts.

5. The Centre does not submit its approved Budged to the Charity Commission one month before commencement of Financial Year as per the provision of Section 31 A of Bombay Public Trust Act, The matter is under dispute with Government of Maharashtra and the Centre has neither made any provision for the same nor disclosed the fact in the Notes to Account.

6. SCZCC has not prepared Receipt & Payment Account as required under the Uniform Format of Account even after commenting consistently in previous years Audit Reports.

7. The Centre has not made provisions for Leave encashment as per actuarial valuation and the payment towards leave encashment is made on cash basis. The Centre is required to make provisions for leave encashment on actuarial basis in terms of Accounting Standard-15.

8. The Centre has an unspent grant of Rs.556.52 lakh as on 31.03.2016. The interest earned on the unspent grant is required to be credited to respective grant balance. The Centre has however treated the same as income under Income & Expenditure Account which is not in order.

9. The construction and furnishing work of dormitory cam administrative block has been completed in November 2013. However. CPWD has not refunded Rs. 20.45 lakh as the issue is under litigation. The fact has not been disclosed under Schedule 25 – Notes to Accounts by SCZCC.

C. Grants – in – Aid

Out of the grant-in-aid of Rs. 13.42 crore (including unspent balance of Rs. 2.27 crore. Leaving a balance of Rs. 5.56 crore as on 31st March 2016.

D. Management letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Institute through a management letter issued separately for remedial/ corrective action.

V. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and the Income & Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

Vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements. read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in the Annexure to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

(a) Insofar as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs, of the South Central Zone Cultural Center, Nagpur as at 31 March 2016, and

(b) Insofar as it relates to the Income & Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of

the Comptroller and Auditor General of India,

Director General of Audit (Central)

Place: Mumbai
Date: 07/03/2018.

Annexure

1	**Adequacy of Internal Audit System** Internal Audit was conducted by a Chartered Accountant for the financial year 2015-16, however several loopholes were observed in Annual Accounts. The Centre has no Internal Audit Cell. The Ministry of Culture has not carried out internal audit since April 2011.
2	**Adequacy of Internal Control System** The internal control system is very weak and not commensurate with the size and nature of the Centre. (i) SCZCC has not acted upon the findings of CBI on the alleged misappropriation of fund by the erring officials even after instructions received from the Ministry. (ii) The Centre has not followed Uniform Format of Account for Central Autonomous Bodies strictly.
3	**Physical verification of Assets** Physical verification of assets has been conducted by the Centre however no action has been taken on the Artifacts found missing during physical verification and reported by the CBI in the Preliminary Enquiry conducted.
4	**System of Physical verification of Inventory** Physical verification of inventory has been conducted by the Centre.
5	**Regularity in payment of statutory dues.** SCZCC did not make payments of statutory dues in time and the Service Tax Returns/Income Tax Returns were not filed in time. There was undue delay in payment of Profession Tax deduced and TDS from clients etc., to Government Account. The Centre has paid Rs.9.74 lakh on account of interest/ penalty for delay in remittance of TDS to Government account.

Director General of Audit (Central)

KEDAR GOKHALE & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS

AUDITOR'S REPORT[REVISED]

To,
The Hon'ble Chairman,
South Central Zone Cultural Centre,
56/1, Opp. MLA Hostel,
Civil Lines, Nagpur- 440 001 (MS)

1. We have audited the attached Balance Sheet of South Central Zone Cultural Centre, Nagpur as on 31st March 2016 and also the attached Income and Expenditure Account for the year ended on that date. These statements are responsibility of the management of the Society. Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audit.
2. We conducted our audit in accordance with the Auditing Standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining on test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. We have enclosed a separate report in Annexure "A" as required under section 33 and 34 and rule 19 of the Bombay Public Trust Act' 1950. Without qualifying our report we invite attention to matters of emphasis reported in the said Annexure "A" regarding weakness in statutory compliances.
4. Reference is drawn to para 9 of the "Notes to Accounts" regarding a search operation that was carried by Anti Corruption Wing of CBI, Nagpur in the month of June 2015. Since, no specific charges have so far been framed by CBI, financial implication of their investigation are not known and no provisions have been made in the accounts.

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

5. Further to above, we report that:-

   i. The said Income and Expenditure Account and Balance Sheet are in agreement with the Books of Accounts.

   ii. In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the said accounts read together with the notes thereon in Schedule "M" and Annexure "A" to our report, gives the information required by the Bombay Public Trust Act' 1950 in the manner so required and gives a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

   a. In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Society as at 31st March 2016; and

   b. In the case of the Income and Expenditure Account of the excess of Expenditure over the Income for the year ended on that date.

Nagpur
Dated: December 27,2016

For Kedar Gokhale & Co
Chartered Accountants
FRN: 131980W

(CA Kedar Gokhale
Partnerr
M.No. 039140

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE, NAGPUR

Schedules forming part of the Balance Sheet as at 31/03/2016

SCHEDULE: "M": SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO THE ACCOUNT

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1. Accounts of the society are maintained on the mercantile system of account.
2. Fixed assets are accounted at cost of acquisition plus incidental expenses and are shown in the Balance Sheet at written down value.
3. Grants received for acquisition of non depreciable assets are shown in the Balance Sheet under the head "Capital Reserve."
4. No depreciation has been charged on the land. Depreciation on the assets has been charged at the rates approved by the competent authority of the Centre. Depreciation has been charged on the written down value method.
5. Grants received for acquisition of depreciable assets are shown as deduction from the cost of assets acquired.
6. Grants received for the specific events to be completed in more than one accounting period are credited to the Income and Expenditure Account to the extent they are spent during that financial year. Remaining portion is shown in the Balance Sheet under the head "Specific Grants." Upon completion of the event unutilized portion is shown in the Balance Sheet under "Current Liabilities" till they are returned to the respective authorities.
7. Expenses incurred on various programs are allocated under specific heads. General and administrative expenses are shown separately as overall expenses of the Centre.

NAGPUR
CHARTERED ACCOUNTANTS

B. NOTES TO THE ACCOUNTS:

1. The equal contribution towards corpus fund from the state of Andhra Pradesh amounting Rs. 37.50 lakh is pending since long time.

2. Investment against the Corpus Fund and General Reserve amounting Rs. 2972 lakhs (P.Y. 2781 lakhs) have been made in the fixed deposits / bonds of nationalised banks/ Reserve Bank of India as per Schedule "G" to the Balance Sheet.

3. Following items due from employees/ ex-employees are remaining outstanding for more than one year as these amounts are connected with the civil suit no. SCS-497/03 against Mr. A. S. Padmanabha and civil suit no. 496/03 against Mr. Y. S. Sirdeshpande. The Centre has initiated action on such persons and matter is sub-judice:

Sr No	Particulars	Amount FY 31.03.16 Rs.	Amount FY 31.03.15 Rs.
i	Mr. A. S. Padmanabha	89,690/-	89,690/-
ii	Mr. Y. S. Sirdeshpande	3,91,204/-	3,91,204/-
iii	Mr. A. S. Padmanabha	21,868/-	21,868/-

4. Advance of Rs. 500,406 [PY Rs. 500,406] given to Amol Caterer, who was running Ghotul Restaurant in premises of the centre is outstanding for more than one year. The matter is subjudice. No provision has been made in the accounts.

5. Statutory Compliance: Centre is not following statutory compliance prescribed under most of the statutes governing it on timely basis. Tax payment and filing of returns under the statues/ laws given below has been delayed:

   i. Annual income tax returns under the Income Tax Act'1961 have not been submitted for the financial year 2009-10, 2015-16.

   ii. Quarterly returns for deduction of income tax at source from salary and non salary payments prescribed under the Income Tax Act'1961 have been filed late. Payment of income tax deducted at source to the credit of the Central Government has been delayed in many cases.

   iii. Filing of Service Tax Returns for the year 2014-15 and 2015-16 are pending.

NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

iv. Centre has not filed electronic returns under The Maharashtra State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 1975 since July'2011. Payment of profession tax deducted from the employee salary to the credit of the State Government has been delayed in many cases.

v. Centre has not submitted the annual budget as prescribed under section 58 of the Bombay Public Trust Act'1950.

vi. Payment of other deductions from the salary like contribution to provident fund, life insurance etc have been delayed in many cases.

6. Construction and furnishing work of dormitory cum administrative block has been completed during the year under audit. This work was executed through the Central Public Works Department. Rs. 20.50 lakh are lying idle with it since the completion of work in the month of November'2013.

7. The centre has valued the artifacts but not included in the books of accounts because some of them are unserviceable, broken and beyond economically repairable condition and those artifacts are produced during the various workshop under the scheme of National Cultural Exchange Programs.

8. There was delay in payment of Statutory Liabilities Like TDS, Service Tax, Profession Tax, LIC Premium, GSLI Claims Receivable.

9. No provision has been made for interest and penalty that will be payable on late payment of statutory dues and late filing of statutory returns.

10. No provisions have been made for leave encashment payable to employees of the Centre, Contribution payable under section 58 of the Bombay Public Trust Act, 1950.

11. The centre has not paid Rent of Art Gallery in Vasantrao Deshpande Hall amounting to Rs. 85.00 Lakh (PY Rs. 77.20 lakh) on account of dispute with State PWD and, the centre has contested this demand. However, provision has been made in the accounts.

12. During the month of June 2015, Anti Corruption Wing of CBI, Nagpur has conducted a Search in the premises of the centre and confiscated some documents. Their investigation is in progress. However, no specific charges have so far been framed by CBI and hence, financial and other implications of their investigation are not ascertainable.

NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

13. Programme Advance of Rs. 14.04 Lakh (PY 12.87 Lakh) is appearing outstanding against Mr. Gopal Betawar. Adjustment vouchers submitted by him are in custody of CBI. Hence, no adjustment entry has been passed in the books of account.

14. Some Accounts of Programme Advances, Travelling Advances, Other Advances are under reconciliation.

15. Previous year's figures have been regrouped or re-arranged wherever necessary.

For South Central Zone Cultural Centre

(Dr. Piush Kumar)
Director

Director
South Central Zone
Cultural Centre, Nagpur

for Kedar Gokhale & CO
Chartered Accountants
FRN- 131980W

(Kedar Gokhale)
Partner
M. No. 039140

KEDAR GOKHALE & CO.
NAGPUR
CHARTERED ACCOUNTANTS

SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE
BALANCE SHEET AS AT 31.03.2016 [REVISED]

CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/ CAPITAL FUND	1	25,62,50,000.00	25,62,50,000.00
RESERVES AND SURPLUS	2	7,13,05,634.31	5,79,11,138.74
EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	3	-	-
SECURED LOAN AND BORROWINGS	4	-	-
UNSECURED LOAN AND BORROWINGS	5	-	-
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	8,23,78,934.00	4,57,39,167.00
TOTAL		**40,99,34,568.31**	**35,99,00,305.74**
ASSETS			
FIXED ASSETS	8	4,27,19,000.96	4,24,61,857.39
INVESTMENTS- FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	9	-	-
INVESTMENTS- OTHERS	10	29,72,00,000.00	29,82,40,000.00
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	11	7,00,15,567.35	1,91,98,448.35
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)			
TOTAL		**40,99,34,568.31**	**35,99,00,305.74**

Place : Nagpur
Date : December 27, 2016

Sr. Accounts & Admn. Officer
South Central Zone Cultural Centre,
Nagpur.

Director
South Central Zone
Cultural Centre, Nagpur

As per our report of even date
FOR KEDAR GOKHALE & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 131980W

(KEDAR GOKHALE)
PARTNER
M.No. 039140

SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2016

SCHEDULE 1 - CORPUS/ CAPITAL FUND :

Particulars	Current Year	Previous Year
Balance as at the beginning or the year	2562,50,000.00	1562,50,000.00
Add : contribution towards Corpus/ Capital Fund		1000,00,000.00
BALANCE AS AT THE YEAR - END	2562,50,000.00	2562,50,000.00

SCHEDULE 2 - RESERVE AND SURPLUS :

Particulars	Current Year	Previous Year
1. Capital Reserve :		
As per last account	87,61,000.00	87,61,000.00
Addition during the year		-
Less : Deduction during the year		-
2. Balance in Income & Expenditure Account :		
As per last account	141,50,138.74	153,87,470.07
Addition during the year	133,94,495.57	(12,37,331.33)
Less : Deduction during the year	37,50,000.00	-
Closing Balance	237,94,634.31	141,50,138.74
3. Special Reserve :		
As per last account		-
Addition during the year		-
Less : Deduction during the year		-
4. General Reserve :		
As per last account	350,00,000.00	350,00,000.00
Addition during the year	37,50,000.00	-
Less : Deduction during the year		-
Closing Balance	387,50,000.00	
TOTAL	713,05,634.31	579,11,138.74

Schedule -3 EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS :

Particulars	Current Year	Previous Year
Total		

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS :

Particulars	Current Year	Previous Year
1.Central Government		-
2. State Government (Specify)		-
3. Financial Instions		
a) Term Loans		-
b) Interest accrurd and due		-
4. Banks:		
a) Term Loans		
- Interest accrurd and due		-
b) Other Loans (Specify)		
- Interest accrurd and due		-
5. Other Instiutions and Agencies		-
6. Debentures and Bonds		-
7. Other (Specify)		-
TOTAL		-
Note: Amounts due within one year		-

SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS :

Particulars	Current Year	Previous Year
1.Central Government		-
2. State Government (Specify)		-
3. Financial Instions		-
4. Banks:		
a) Term Loans		-
b) Other Loans (Specify)		-
5. Other Instiutions and Agencies		-
6. Debentures and Bonds		-
7. Fixed Deposits		-
8. Other (Specify)		-
TOTAL		-
Note: Amounts due within one year		-

NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

SCHEDULE 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES :

Particulars	Current Year	Previous Year
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets		-
b) Others		-
TOTAL		-
Note: Amounts due within one year		-

SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS :

Particulars	Current Year	Previous Year
A. CURRENT LIABILITIES		
1. Acceptances		-
2. Sundry Creditors:		
a) For Goods		-
b) Others (Sub-Schedule 1)	13,57,256.00	37,05,809.00
3. Acceptances Received		
4. Interest accrued but not due on:		
a) Secured Loans / borrowings		
b) Unsecured Loans /borrowings		
5. Statutory Liabilities:		
a) Overdue		-
b) Others (Sub Schedule 2)	10,63,683.00	5,33,224.00
6. Others Current Liabilities (Sub Schedule 3 to 6)	799,57,995.00	415,00,134.00
TOTA (A)	823,78,934.00	457,39,167.00
B. PROVISIONS		
1. For Taxation		
2. Gratuity		
3. Superannuation / Pension		
4. Accumulatrd Leave Encashment		
5. Trade Warranties / Claims		
6. Others (Specify)		
TOTA (B)	-	-
TOTA (A+B)	823,78,934.00	457,39,167.00

NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE, NAGPUR
SCHEDULES 'A' TO 'L' FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31/03/2016

Schedule: '8' Fixed Asset
Sub Schedule: 'F-1' Movebal Properties

Particulars	Rate of Dep	Balance As on 1/4/2015	Transfor to other heads	Addition		Adjuestment of Excess Dep	Total	Arrears of Depriciation	Dep During the year	Balance As on 31/3/2016
				01/04/2015 - 30/9/2015	1/10/2015 - 31/3/2016					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	H-J
A C Unit	15%	52,772.25	-	-	36,513.00	-	89,285.25	-	10,654.31	78,630.94
Audio Video Equipment	20%	57,652.77	-	-	-	-	57,652.77	-	11,530.55	46,122.21
Casettes	20%	282.92	-	-	-	-	282.92	-	56.58	226.34
Computer - Pention Scheme	15%	90,919.18	-	-		-	90,919.18	-	13,637.88	77,281.30
Dead stock Electrical light	15%	1,85,798.22	-	-	37,640.00	-	2,23,438.22	-	31,169.78	1,92,268.44
Dead Stock Sound System A/c	20%	2,27,720.00	-	-		-	2,27,720.00	-	45,544.00	1,82,176.00
Electrical Equipment	15%	3,43,006.45	-	-		-	3,43,006.45	-	51,450.97	2,91,555.49
Electrical Instrument	15%	50,860.65	-	-		-	50,860.65	-	7,629.10	43,231.55
Exibition& Prog Asset	20%	1,098.39	-	-		-	1,098.39	-	219.68	878.71
Furniture - Pention Scheme	10%	2,28,380.00	-	-		-	2,28,380.00	-	22,838.00	2,05,542.00
Furniture & Fixture Shilpgrame	10%	8,980.20	-	-		-	8,980.20	-	898.02	8,082.18
Furniture & Fixture	10%	7,91,566.88	-	13,000.00	50,681.00	-	8,55,247.88	-	82,990.74	7,72,257.14
LCD	15%	10,961.60	-	-		-	10,961.60	-	1,644.24	9,317.36
Grass cutting machine	15%	-			36,550.00		36,550.00		5,482.49	31,067.51
Library Books	10%	1,45,280.34	-	600.00	28,748.00	-	1,74,628.34	-	16,025.43	1,58,602.91
Mobile Phone	15%	11,097.23	-			-	11,097.23	-	1,664.58	9,432.64
Musical Instruments	10%	708.63	-			-	708.63	-	70.86	637.77
Office Equipment Dead Stock	15%	2,82,986.00	-		48,081.00	-	3,31,067.00	-	46,053.98	2,85,013.03
Office Equipment Camera	15%	36,923.15	-			-	36,923.15	-	5,538.47	31,384.68
Office Equipement Computer note book					1,10,250.00		1,10,250.00		-	1,10,250.00
Office Equipment Computer	15%	3,39,446.77	-		1,44,163.00	-	4,83,609.77	-	50,917.02	4,32,692.75
Office Equipement HP Pinter					4,990.00		4,990.00		-	4,990.00
Office equipement HP scanner					14,396.00		14,396.00			14,396.00
Office equipement Suit case				14,800.00			14,800.00		2,220.00	12,580.00
Office equipement Telephone		-		6,780.00			6,780.00		1,017.00	5,763.00
Office equipement Tin boxes		-		9,500.00			9,500.00		712.50	8,787.50
Office equipement - Xerox machine					1,71,293.00		1,71,293.00		-	1,71,293.00
Photographic Equipment	15%	2,545.55	-			-	2,545.55	-	381.83	2,163.72
Presentetion Articals	5%	96,174.24	-	1,80,876.00		-	2,77,050.24	-	9,330.61	2,67,719.63
Printer - Pention Scheme	15%	12,487.50	-	-		-	12,487.50	-	1,873.13	10,614.38

NAGPUR
RED ACCOUNTANTS

Solar Light A/c	15%	3,91,534.65	-	-		-	3,91,534.65	-	58,730.20	3,32,804.45
Solar Water Heater Syatem	15%	36,937.60	-	-		-	36,937.60	-	5,540.64	31,396.96
Tea & Coffee Vending Machine	15%	14,876.70	-	-		-	14,876.70	-	2,231.51	12,645.20
Vehicales	20%	7,12,895.68	-	17,22,335.00	1,48,370.00	-	25,83,600.68	-	5,16,720.14	20,66,880.54
Total		41,33,893.55	-	19,47,891.00	8,31,675.00	-	69,13,459.55	-	10,04,774.24	59,08,685.31

Particulars	Rate of Dep	Balance As on 1/4/2015	Transfor to other heads	Addition		Adjuestment of Excess Dep	Total	Arrears of Depriciation	Dep During the year	Balance As on 31/3/2016
				01/04/2015 - 30/9/2015	1/10/2015 - 31/3/2016					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	H-J
Art Gallery	5%	1,91,670.34	-	-	-	-	1,91,670.34		9,583.52	1,82,086.82
Building Govt of Maharashtra	5%	1,77,585.40	-	-	-	-	1,77,585.40		8,879.27	1,68,706.13
Building & Road	5%	49,98,242.32	-	-	-	-	49,98,242.32		2,49,912.12	47,48,330.20
Construction of cafeteria	5%	79,793.35	-	-	-	-	79,793.35		3,989.67	75,803.68
Construction of craft stall	5%	1,62,414.85	-	-	-	-	1,62,414.85		8,120.74	1,54,294.11
Construction of Green room	5%	18,99,609.55	-	-	-	-	18,99,609.55		94,980.48	18,04,629.07
Dormetary Building	5%	130,86,494.15	-	-	-	-	130,86,494.15		6,54,324.71	124,32,169.44
Land & Building Govt of Maharshtra	0%	75,30,000.00	-	-	-	-	75,30,000.00		-	75,30,000.00
Land Gov of Madhya Pradesh	0%	4,45,000.00	-	-	-	-	4,45,000.00		-	4,45,000.00
Nala Contraction	5%	9,22,594.57	-	-	-	-	9,22,594.57		46,129.73	8,76,464.84
Shilpgram Khajuraho	5%	85,67,611.91	-	-	-	-	85,67,611.91		4,28,380.60	81,39,231.31
Well & Drainege	5%	2,66,947.41	-	-	-	-	2,66,947.41		13,347.37	2,53,600.04
Total		**383,27,963.84**	-	-	-	-	**383,27,963.84**		**15,17,648.19**	**368,10,315.65**
Total of Movable/Immovable Asset		**424,61,857.39**	-	**19,47,891.00**	**8,31,675.00**	-	**452,41,423.39**	-	**25,22,422.43**	**427,19,000.96**

GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMRKED / ENDOWMENT

Particulars	Current Year	Previous Year
1.In Government Securities		-
2.Other approved Securities		-
3. Shares		-
4. Debentures and Bonds		-
5. Subsidiaries and Joint Ventures		-
6. Others (to be specified)		-
TOTAL		-

SCHEDULE 10- INVESTMENTS - OTHERS

Particulars	Current Year	Previous Year
1.In Government Securities		-
2.Other approved Securities		-
3. Shares		-
4. Debentures and Bonds	0.00	201,66,000.00
5. Subsidiaries and Joint Ventures		-
6. Others (to be specified) FD (Sub Schedule 7)	2972,00,000.00	2780,74,000.00
TOTAL	2972,00,000.00	2982,40,000.00

SCHEDULE 11- CURRENT ASSETS, LOANS, ADVACES ETC

Particulars	Current Year	Previous Year
A. CURRENT ASSETS		
1. Inventories:		
a) Stores and Spares		-
b) Loose Tools		-
c) Stock -in- trade		
Finished Goods		-
Work - in - Progress		-
Raw Material		-
2. Sundry Debtors :		
a) Debts outstanding for the period exceeding six months		-
b) Others (Sub Schedule 8)	24,95,476.00	60,13,095.00
3. Cash balances in hand (including cheques/ drafts and imprest)	47,502.00	42,488.00

GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

4. Bank Balances :		
a) With Schedule Banks :		
-On Current Accounts (Canara Bank, Kkajuraho)	11,526.90	(2,335.10)
-On Deposit Accounts (includes margin money)		
-On Saving Accounts (Sub Schedule IV)	6,01,32,888.35	60,99,224.35
b) With non-Schedule Banks :		
-On Current Accounts		-
-On Deposit Accounts		-
-On Saving Accounts		-
5. Post Office- Saving Accounts		-
TOTAL (A)	**6,26,87,393.25**	1,21,52,472.25
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
1. Loans :		
a) Staff (fest & temp loan + med)	1,97,676.00	1,77,984.00
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received :		
a) On Capital Account		
b) Prepayments		
Advances to staff for expenses (Sub Schedule IV A+B+C)	20,45,048.00	16,53,461.00
Advances to suppliers of goods and services (Sub Schedule IV 3)	27,18,058.00	34,63,007.00
c) Others (Sub Schedule IV D)	12,92,513.00	8,88,529.00
3. Income Accrued :		
a) On Investments from Earmarked/ Endowment Funds		
b) On Investments- Others	5,30,060.00	3,77,792.00
c) On Loans and Advances		
d) Others (grants rec) (includes income due unrealised-Rs......)		
4. Claims Receivable	5,44,819.10	4,85,203.10
TOTAL (B)	73,28,174.10	70,45,976.10
TOTAL (A+B)	7,00,15,567.35	1,91,98,448.35

NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

SOUTH CENTRAL CULTURAL ZONE, NAGPUR

Sub Schedules to Schedules of Balance Sheet as at 31.03.2016

Sub Schedules of Liabilities

Sub Schedule- '1' Sundry Creditors & Other Credit Balances
Part of Schedule - 7.2

Particulars	Amount (Rs) 31.3.16	Amount(Rs.) 31.03.2015
Aditya Modak	-	52,779.00
Admark Event Pvt Ltd	-	20,03,805.00
Admas Advertisement	-	52,565.00
Bharat Security agency	22,635.00	-
INMIND STUDIO	-	2,170.00
Joy Hospitality Pvt Ltd	-	10,512.00
KGN Decorators	-	20.00
M/S Kaloti security agency	87,870.00	-
Mulkh Raj A/c	-	45,000.00
Natraj Films	-	520.00
Shri Arvind Tagade A/c	-	2,800.00
SHRI ASLAM SABRI	-	82,500.00
Shri Ch Shyame A/c	-	1,21,520.00
Shri Imran Siddi A/c	-	1,32,640.00
SHRI MASOOM ABDUL HAFEES	-	1,25,000.00
Shri Suman Madavi A/c	-	1,37,660.00
Shri Suramnath A/c	-	1,33,980.00
Shri T.C Siddaramju A/c	-	1,51,104.00
Universal Facilities & Management services	4,38,600.00	-
R.C. Bagga	80,000.00	-
Director EZCC, Kolkata	99,500.00	-
Globle Tours & Travels	17,782.00	-
Programme expenses Payable		
Bhartu- Programme Advance		386.00
Kulkarni- Deepak- Prog-Advance	4,312.00	1,320.00
Patil - Programme Advance	5,530.00	4,310.00
Travelling Expenses payable	-	-
Betawar- Travelling Advance	29,502.00	-
Dande- Travelling Advance	-	1,784.00
Indurkar- Travling Adv	12,058.00	4,296.00
Khandagale- Travelling Advance	5,000.00	2,009.00
Prajapati- Travelling Advance	-	12,916.00
R.V. Koche- Travling Adv	19,161.00	986.00
Sonpipare- Travelling Advance	830.00	3,127.00
Thakare Travelling Adv.	-	3,537.00
Thorat- Travelling Adv	29,814.00	946.00
Tiwari- Travelling Advance	3,333.00	10,616.00
Iswar Shrirame - Travelling Advance	352.00	-
Koche- Travelling Advance	3,670.00	-
Thorat- Travelling Adv	39,782.00	-

NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

WANKHEDE-TRAVELING ADV	-	6,176.00
Advance received for premises booking	-	73,800.00
GSLI Claim Received	74,502.00	74,502.00
State Cheques	3,83,023.00	4,50,523.00
Total - 1	13,57,256.00	37,05,809.00

Sub Schedule- '2' Payroll & Statutory Liabilities
Part of Schedule - 7.5

Particulars	Amount (Rs) 31.3.16	Amount(Rs.) 31.03.2015
CPF Contribution Payable	76,778.00	71,176.00
Deduction From Salary Payable	-	36,922.00
G.I.S Subcription A/c	540.00	840.00
GPF Subcription Paybal	1,75,009.00	65,002.00
GSLI PREMIUM PAYABLE	1,887.00	3,774.00
Leave Salary/ Pension payable	7,77,973.00	-
Incentive Payable	-	3,51,310.00
Professional Tax Payable	4,100.00	4,200.00
Other recovery a/c	27,396.00	
Total - 2	**10,63,683.00**	5,33,224.00

Sub Schedule- '3' Liability for Expenses
Part of Schedule - 7.6

Particulars	Amount (Rs) 31.3.16	Amount(Rs.) 31.03.2015
Salary & Wages Payable	15,724.00	450.00
Admas advertising	10,26,435.00	-
Art Gallery Rent Payable	85,00,000.00	77,20,272.00
Amit Tent house	1,00,880.00	-
Audit Fee Payable	1,86,701.00	2,26,701.00
Audit Fees Payable to DGA(C)MUMBAI	2,90,605.00	1,50,000.00
Beyond Trends, Hyderabad	32,802.00	-
Central India Television	79,592.00	-
Eastern Zonal cultural center	4,74,832.00	-
Electicity Charges Payable	1,10,220.00	97,070.00
Fair offset	18,980.00	-
Gafoor khan bazaar	9,000.00	-
Geetika arora	14,000.00	-
Girisons bombay dying	76,838.00	-
Golmart publicity	54,767.00	-
Gopika Varma	45,000.00	-
Gandhi Shilp Bazar Paybal	-	21,973.00
Gratuity Premium Payable	-	29,25,222.00
Guru Shisha Parampara Payable	17,250.00	6,68,250.00
Hotel Heritage	17,981.00	-
Innovators Nagpur	2,84,090.00	-
Jog Hospitality pvt.ltd	15,943.00	-
Jyoti Hedge	36,000.00	-
Kedar Gokhale & Co.	45,800.00	-

Khandelwal travels	71,072.00	-
Komal Publicitty & Entertainment	45,863.00	-
Kathak Dance Programme Payable	-	10,000.00
Liability for Expenses	21,46,803.00	22,02,649.00
LIC PREMIUM PAYABLE	24,622.00	53,419.00
Laxmi tent Khajuraho	43,598.00	-
Mangrusian Marari	1,07,700.00	-
Manisha Travels	42,844.00	-
MP State Tourisum	48,550.00	-
Mrs Archana Sapre	42,750.00	-
Nitin Sachdeva & Co.	39,275.00	-
Mukesh Darbar	80,000.00	-
Mulkha raj A/c	22,500.00	-
Music broadcast pvt.ltd	4,979.00	-
Naren Karmarkar	82,586.00	-
News Paper and Periodicals Payable	2,385.00	2,195.00
Oshan Tours & Travels	42,822.00	-
Pankaj Advertising, Gwalior	63,965.00	-
Peenaz Masani	1,60,819.00	-
Perfect Octive media	44,880.00	-
Pooja Kamad	99,996.00	-
Rainbow Society Jaipur	25,000.00	-
Provision for IT TDS Deducted	-	4,23,788.00
Provision For Telephone Exp	18,460.00	5,700.00
Ramindar Khurana	60,000.00	-
Ramjoga Rao	1,35,825.00	-
Reliable automation	4,49,332.00	-
Rituraj Morey sound systeem	1,60,900.00	-
Riya Flowers A/c	3,650.00	-
SNPP Programe Paybale	-	19,00,000.00
Shri Gopal Singh Gond	87,950.00	-
Shyam Decoration works	51,63,183.00	-
Shyam Magician	5,000.00	-
Shyam Tourist Delhi	15,225.00	-
Smt Komalkali Kalapani	63,000.00	-
Smt Malini Awasthi	1,80,000.00	-
Smt Lalita Kumari	10,000.00	-
Smt Rimpa Shiva	54,007.00	-
State gallary of art	1,20,000.00	-
Subodh Parmanik	89,400.00	-
Sushama behl	80,000.00	-
Tansen residancy	18,717.00	-
Travel Links	1,836.00	-
Vankar Kanbai Poonam	14,800.00	-
Vedapally Shriniwas	1,09,200.00	-
Water Bill Payable	1,516.00	4,862.00
Uday Anant Dawal	16,528.00	-
Yatra Resources	44,750.00	-
Total - 3	**215,99,728.00**	164,12,551.00

NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

Sub Schedule- '4' Security Deposit

Particulars	Amount (Rs) 31.3.16	Amount(Rs.) 31.03.2015
SD Against Art Gallery	10,000.00	10,000.00
SD Against Catering- AMOL CATERERS	250,000.00	250,000.00
SD Against Decoration Contract-ADMARK	-	500,000.00
SD- Agest CCTV (OCCM)	3,000.00	3,000.00
SD Boarding Rights, Nagpur	50,000.00	50,000.00
SD-Construction of Green Room	48,603.00	48,603.00
SD- Garden Maintenance	5,000.00	5,000.00
SD House Keeping	-	5,000.00
SD Kaloti security services	25,000.00	-
SD Shilpagram Decoration	200,000.00	200,000.00
SD- Shilpagram Decoration Light & Sound	25,000.00	25,000.00
SD - Shyam Decorators	350,000.00	-
SD- Softtech Computers	15,000.00	-
SD Stationery	5,000.00	5,000.00
Secirity Deposit - Open Stage	20,000.00	20,000.00
Security Deposit Against Lawn/Hall/OPT/ Dormerty	307,948.00	202,428.00
Security Deposit Against Printing Contract- Innovat	25,000.00	25,000.00
Security Deposit Against Videography	2,000.00	2,000.00
Security Deposit Cafeteria Nagpur	300,000.00	300,000.00
SECURITY DEPOSIT - DOCUMENTATION	5,000.00	5,000.00
Security deposite - Universal services	50,000.00	-
Total - 4	**1,696,551.00**	1,656,031.00

Sub Schedule- '5' Duties & Taxes

Particulars	Amount (Rs) 31.3.16	Amount(Rs.) 31.03.2015
Service tax payable	281,182.00	117,665
TDS 92A (Salary Payable)	3,090.00	-
TDS 94C payable	240,360.00	601,660.00
TDS 94J (Prof) payable	262,250.00	-
TDS/Income tax payable	223,170.00	-
Total - 5	1,010,052.00	719,325.00

Sub Schedule- '6' Unspent Grants

Particulars	Amount (Rs) 31.3.16	Amount(Rs.) 31.03.2015
Un spent Grant - ZCC (NCEP)	41,638,375.00	10,580,439.00
Un spent Grant - North East Activity	14,013,289.00	12,131,788.00
Total 6	55,651,664.00	22,712,227.00
Total (3 to 6)	**79,957,995.00**	**41,500,134.00**

SOUTH CENTRAL CULTURAL ZONE, NAGPUR

Sub Schedules to Schedules of Balance Sheet as at 31.03.2016

Sub Schedule- '7' INVESTMENTS & DEPOSITS

Particulars	Amount (Rs.) 31.3.2016	Amount(Rs.) 31.03.2015
Fixed Deposit- Oriental Bank of Commerce	2,500,000.00	57,500,000.00
Fixed Deposit- Bank of Baroda	8,260,000.00	35,830,000.00
Fixed Deposit- State Bank of India	30,804,000.00	30,804,000.00
Fixed Deposit- Canara Bank	33,000,000.00	33,000,000.00
RBI Bonds - Corpus Fund	30,166,000.00	10,000,000.00
Long Term Fixed Deposit- State Bank Of India	2,200,000.00	2,200,000.00
State Bank Of Patiyala	182,570,000.00	100,000,000.00
State Bank Of Travancore	7,700,000.00	7,700,000.00
Short Term Deposit (Allahabad Bank)	-	1,040,000.00
Total	297,200,000.00	**278,074,000.00**

Sub Schedule '8' "Sundry Debtors & Other Debit Balances

Particulars	Amount(Rs.) 31.03.2016	Amount(Rs.) 31.03.2015
Sundry Debtors :		
Director NCZCC Allahabad	-	30,232.00
Receivable for SJCL - MOC	-	3,047,387.00
Contribution receivable for ZCC Painting Workshop	-	440,000.00
Grant Receivable- Gandhi Shilp Bazar	695,476.00	695,476.00
Grant Receivable- Pension Scheme	1,800,000.00	1,800,000.00
Total, Part of Shedule 11.2	**2,495,476.00**	**6,013,095.00**

Sub Schedule '9' Savings Bank Accounts

Particulars	Amount(Rs.) 31.03.2016	Amount(Rs.) 31.03.2015
Bank Balances : (Saving A/c)		
Bank of Baroda - FFD	12,865,777.00	5,178,676.00
Bank of Baroda - Savings	(1,764,474.29)	(542,377.29)
Bank of Maharashtra Savings	10,147,917.83	1,356,825.83
Canara Bank Nagpur	1,104,444.00	106,126.00
Oriental Bank of Commerce	575,188.90	(160,677.10)
State Bank of India- SB	2,204,034.91	160,650.91
Total	**25,132,888.35**	**6,099,224.35**

CHARTERED ACCOUNTANTS

Sub Schedule '10' Advances

Particulars	Amount(Rs.) 31.03.2016	Amount(Rs.) 31.03.2015
1.Advances to Staff :		
A- Festival Advance to staff	43,200.00	25,962.00
B. Temporary Loan to staff	111,526.00	119,522.00
C. Medical Advance to staff	20,000.00	20,000.00
D. Hosue Loan	12,500.00	12,500.00
Total	**187,226.00**	**177,984.00**
2. Advances to staff for expenses :		
A) Advances for Programme Expenses :		
Betawar- Programme Advance	1,404,651.00	1,287,101.00
Durugkar- Programme Advance	-	2,380.00
Ishwar Shriram Prog Adv	59,388.00	12,610.00
Mukulchand Adv- Program	20,000.00	20,000.00
Prajapati- Programme Advance	206,751.00	184,756.00
Thorat- Programme Advance	-	35,000.00
Wankhede - Programme Adv	10,731.00	10,731.00
Dande - Prog Advance	82,000.00	-
Dhabekar - Prog advacne	40,155.00	-
Koche - Programme Adv	5,000.00	-
Thakre - Programme Adv	9,608.00	-
Total -A	**1,838,284.00**	**1,552,578.00**
3. Travelling Advances :		
Deepak Patil - Travelling Advance	5,745.00	108.00
Rao - Travelling Advance	7,771.00	500.00
Jadhav- TRAVELLING ADV	1,454.00	198.00
DR PIUSH TRAVELING ADVANCE	31,269.00	5,525.00
Sonpipare -Travelling Advance	3,618.00	1,726.00
Kulkarni- Travelling Advance	15,319.00	3,403.00
Shende-Travelling Adv	3,768.00	3,960.00
SINGAL TAVELLING ADVANCE	55,473.00	55,473.00
Shelke Travelling Adv.	3,398.00	9,921.00
Dande - Travelling advance	15,000.00	-
Thakre - Travelling Advance	5,908.00	-
Tiwari - Travelling advance	19,216.00	-
Wankhede Madam - Travelling advacne	3,966.00	-
Total -B	**171,905.00**	**80,814.00**
C) Imprest Postage	**34,859.00**	20,069.00
Total -C	**34,859.00**	**20,069.00**
Total Advances to staff for expenses [A+B+C]	**2,045,048.00**	**1,653,461.00**
Part of Shedule 11 (a) 2 (b)		

NAGPUR
RED ACC

Sub Schedule '11' Advances to suppliers

Particulars	Amount(Rs.) 31.03.2016	Amount(Rs.) 31.03.2015
Advances to others for expenses :		
AMOL CATERERS	500,406.00	500,406.00
Advance to Dr Sengupta A/c	19,850.00	19,850.00
Advance to Kapurchand A/c	26,000.00	26,000.00
Advance to Shahen Carven A/c	21,000.00	21,000.00
Advance to Surendra Chedam A/c	5,000.00	5,000.00
Adv P L Deshpande Academy	3,371.00	3,371.00
Adv Shankar Bangaskar A/c	30,000.00	30,000.00
Adv. to CPWD NGP(Banglo Repairs)	-	742,589.00
Budhaa Mohotsav Adv A/c	30,000.00	30,000.00
Advance to Ex Engineer CPWD for works	2,045,531.00	2,045,531.00
Dheesaram Joshi	6,900.00	6,900.00
Vijay Chaurasiya	-	2,360.00
Jennefer Madera Adv A/c	30,000.00	30,000.00
Total - Part of Sedule 11.2 (B)	**2,718,058.00**	**3,463,007.00**

Sub Schedule '12' Security Deposits & Other debit Balances

Particulars	Amount(Rs.) 31.03.2016	Amount(Rs.) 31.03.2015
Others:		
a. Utility Deposits :		
Deposit With H.P Domestik Gas Servises	2,900.00	2,900.00
SD Against Securty Gaurd, House Keeoing (OCCM)	2,000.00	2,000.00
K S R T C - Hospet	15,848.00	15,848.00
M.P.Electricity Board	9,050.00	9,050.00
M.S.Electricity Deposit	40,160.00	40,160.00
Prepaid Group Gratuity Premium LIC	217,000.00	217,000.00
Prepaid Insurance	36,684.00	-
Security deposie - Spanco	16,550.00	6,500.00
Telephone Deposit	26,200.00	26,200.00
Water Deposit	10,000.00	10,000.00
S.D.Telephone (BSNL)	500.00	-
Total - Part of Schedule - A	**376,892.00**	**329,658.00**
b. Other Debit Balances :		
i) Telephone Charges Recivebal	51,111.00	51,111.00
ii) G.P.F Subcription A/c	4,998.00	4,998.00
iii) Amount due from sub judice cases:		
A.S. Padmanabh	21,868.00	21,868.00
Shilpagram sales Emporium	89,690.00	89,690.00
Yashwant Sirdeshpande	391,204.00	391,204.00
Lila Media Corp	6,750.00	-
NIFT Mumbai	350,000.00	-
Total - Part of Schedule - B	**915,621.00**	**558,871.00**
Total othe Debit Balance (A + B)	**1,292,513.00**	**944,638.00**

SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/ YEAR ENDED 31.03.2016

INCOME	Schedule	Current Year	Previous Year
Income from Sales/ Services (Sub Schedule - 15)	12	15,193,210.00	4,235,690.00
Grants/ subsidies (Annaxture Grant)	13	78,560,563.00	52,665,807.00
Fees/ Subscriptions (Sub Schedule - 16)	14	2,364,110.00	2,599,750.00
Income from Investments (income on Invest. From earmarked/ endow. funds tranferred to funds)	15		-
Income from Royalty, publication etc.	16		-
Interest Earned (Sub Schedule - 17)	17	28,261,406.00	23,399,328.00
Other Income (Sub Schedule - 18)	18	2,376,229.00	2,978,448.00
Increase / (decrease) in stock of finished goods and works -in- progress	19		-
TOTAL (A)		126,755,518.00	85,879,023.00
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	17,955,362.00	18,993,868.00
Other Administrative Expenses etc.	21	14,322,675.00	16,089,808.00
Expenditure on Grants, Subsidies etc	22		
Interest	23		-
Expenditure on Regular Programme	24	72,567,064.00	33,572,314.00
Expenditure on Special Programmes	25	5,993,499.00	16,313,293.00
Depriciation (Net Total at the year end- corresponding to Schedule 8)	26	2,522,422.43	2,147,071.33
TOTAL (B)		113,361,022.43	87,116,354.33
Balance being excess of the Income Over Expenditure (A-B)		13,394,495.57	(1,237,331.33)
Add : Opening Balance		14,150,138.74	15,387,470.07
Add: Adjusted as per JV passed			
Less: Transfer to Special Reserve (Specify Each)		3,750,000.00	
Less/ Add : Transfer to/ From General Reserve			
BALANCE BEING SURPLUS/ (DEFICIT) CARRIED TO CORPUR/CAPITAL FUND		23,794,634.31	14,150,138.74
Significant Accounting Policies			
Notes to Accounts			

Place : Nagpur
Date : December, 27, 2016

Sr. Accounts & Admn. Officer
South Central Zone Cultural Centre,
Nagpur.

Director
South Central Zone
Cultural Centre, Nagpur

FOR KEDAR GOKHALE & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 131980W
(KEDAR GOKHALE)
PARTNER
M.No. 039140

SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/ YEAR ENDED 31.03.2016

SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES/ SERVICES	Current Year	Previous Year
1. Income from Sales		
a) Sales of Finished Goods		3,65,190.00
b) Sales of Raw Material		-
c) Sales of Scraps		-
2. Income from Services :		
a) Labour and Processing Charges		-
b) Professional/ Consultancy Services		-
c) Agency Commission and Brokerage.		-
d) Maintenance Services (Equipment/ Property)		
e) Others (Specify) - Sub schedule - 15	151,93,210.00	38,70,500.00
TOTAL	151,93,210.00	42,35,690.00

SCHEDULE 13 - GRANTS/ SUBSIDIES	Current Year	Previous Year
(Irrevocable Grants & Subsidies Received)		
1. Central Government - Refer Annexure of Grants	785,60,563.00	498,72,607.00
2. State Government(s)		-
3. Government Agencies		-
4. Institutions/ Welfare Bodies - Grant for Pension Scheme		18,00,000.00
5. International Organisations		-
6. Others (Specify) (Sponsorship Grant) - Sub schedule - (Annexture - 6)	-	9,93,200.00
TOTAL	785,60,563.00	526,65,807.00

SCHEDULE 14 - FEES/ SUBSCRIPTIONS	Current Year	Previous Year
1. Entrance Fees - Sub schedule - 16	23,64,110.00	25,99,750.00
2. Annual Fees/ Subscriptions		-
3. Seminar/ Programs Fees		-
4. Consultancy Fees		-
5. Others (Specify)		
TOTAL	23,64,110.00	25,99,750.00

Note : Accounting Policies towards each item are to be disclosed

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

SCHEDULE 15 - INCOME FROM INVESTMENTS

Particulars	Current Year	Previous Year
1. Interest :		
a) On Govt. Securities		
b) Other Bonds/ Debentures		
2. Dividends :		
a) On Shares		
b) On Mutual Fund Securities		
3. Rents		
4. Others (Specify)		
TOTAL		
TRANSFERRED TO EARMARKD/ ENDOWNMENT FUNDS		

SCHEDULE 16 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.	Current Year	Previous Year
1. Income from Royalty		-
2. Income from Publications		-
3. Others (Specify)		-
TOTAL		-

SCHEDULE 17 - INTEREST EARNED	Current Year	Previous Year
1. On Term Deposits :		
a) With Schdule Banks - Sub schedule -17	274,96,413.00	233,14,979.00
b) With Non-Schdule Banks		-
c) With Institutions		-
d) Others		-
2. On Saving Accounts :		
a) With Schdule Banks	7,64,993.00	84,349.00
b) With Non-Schdule Banks		-
c) Post Office Savings Accounts		-
d) Others		-
3. On Loans :		
a) Employees/ Staff		-
b) Others		-
4. Interest on Debtors and Other Receivables		-
TOTAL	282,61,406.00	233,99,328.00

NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

SCHEDULE 18 - OTHER INCOME	Current Year	Previous Year
1. Profit on Sales/ disposal of assets:		
a) Owned assets		-
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		-
2. Export incentives realised		-
3. Other Income - Sub Schedule - 18	23,76,229.00	28,79,018.00
4. Misccellaneous Income Shilpgrram		99,430.00
TOTAL	23,76,229.00	29,78,448.00

SCHEDULE 19- INCREASE/ (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS	Current Year	Previous Year
a) Closing Stock		
- Finished Goods		-
- Work-in-progress		-
b) Less: Opening Stock		
- Finished Goods		-
- Work-in-progress		-
NET INCREASE / (DECREASE) (a-b)		-

SCHEDULE 20 - ESTABLISHMENT EXPENSES	Current Year	Previous Year
Salaries and Wages	142,12,621.00	152,31,396.00
DA Arrears Account	135729.00	-
Allowances and Bonus	84,335.00	86,350.00
Children Education Allowance	1,78,532.00	
Contribution to Provident Fund	10,81,157.00	12,07,078.00
Contribution to Other Fund (specify) (Leave salary & pension Cont.)		24,254.00
Leave Salary	7,77,973.00	-
Expenses on Employees Retirement and Terminal Benefits - Gratuity Premium		15,20,154.00
Pension Scheme Expenses	10,57,731.00	5,39,933.00
Others (specify) - Medicla Reimbursement	4,27,284.00	3,84,703.00
TOTAL	₹ 179,55,362.00	₹ 189,93,868.00

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

SCHEDULE 21 - OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.	Current Year	Previous Year
a) Purchases		-
b) Labour and processing expenses - Sub Schedule -19	21,36,398.00	6,16,146.00
c) Cartage and Carried Inwards	-	-
d) Electricity and Power	10,26,450.00	8,10,648.00
e) Water Charges	43,539.00	52,997.00
f) Insurance	16,154.00	61,781.00
g) Repairs and Maintenance - Sub Schedule - 20	41,96,792.00	29,82,812.00
h) Locker Rent	1,254.00	-
I) Rent , Rate and Taxes	7,79,728.00	77,20,272.00
j) Vehicles Running and Maintaince	1,45,387.00	2,12,312.00
k) Postage, Telephone and Communication charges - Sub Schedule - 21	2,87,971.00	3,53,716.00
l) Printing and Stationary	3,79,177.00	1,59,339.00
m) Traveling and Conveyance Expenses - Sub Schedule- 22	4,04,836.00	9,54,286.00
n) PF Interest recovery	2,80,312.00	
o) Prior period exp	17,88,464.00	-
p) Professional Tax	4,600.00	-
q) Auditors Remuneration	2,26,480.00	4,55,805.00
s) Professional Charges	1,07,720.00	1,77,503.00
t) Provision for Bad and doubtful Debts / Advances		-
u) Interest paid on TDS	9,74,240.00	-
v) Programm commite exp	39,300.00	-
x) Independence day exp	3,523.00	-
y) Advertisement and Publicity	28,143.00	2,76,735.00
z) Others (specify) - Sub schedule 23	14,52,207.00	12,55,456.00
TOTAL	143,22,675.00	160,89,808.00

SCHEDULE 22 - EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	Current Year	Previous Year
a) Expenditure on Regular Programmes (Sub Schedule 24)	695,60,890.00	-
b) Expenditure on Special Programmes (Sub Schedule 25)	79,24,251.00	173,60,104.00
c) Expenditure on theater Scheme (Sub schedule 26)	20,000.00	
d) Shilpagram Activities (Sub schedule 27)	10,55,422.00	
TOTAL	785,60,563.00	173,60,104.00

Note : Name of the Entity, their Activities along with he amount of Grants / Subsidies are to be disclosed.

SCHEDULE 23 - INTEREST	Current Year	Previous Year
a) On Fixed Loans		-
b) On Other Loans (including Bank Charges)		-
c) Other (specify)		-
TOTAL		-

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE, NAGPUR

Sub Schedules to the Income & Expenditure Account for the year ended on 31st March, 2016

Schedule- 24 : Expenditure on regular Programmes

A) NCEP Programmes

Particulars	Current Year	Previous Year
24 th Orange City Craft Mela, Nagpur	10,698,013.00	7,180,339.00
28th All India Contemprary Painting Exibition	1,325,961.00	3,257,612.00
29th National national exhibition of Contemporary art	7,299,282.00	-
Agni Mohotsav - Bidar Dist	-	613,846.00
Shataram Pant Khirwadkar Sangit samroh	164,525.00	-
All woman world folk art festival banglore	33,200.00	-
Ambedkari Jalsa Prog	228,000.00	-
Ashtapahlu Kalidas Samaroh	55,062.00	-
All India Police Aquestrian Meet- Jaipur	-	70,755.00
Amba Festiwal Amravati A/c	-	11,524.00
Anchoring Training Work Shop Programe,Nagpur	-	65,480.00
Avhan Prog Exp.A/c	-	163,000.00
Baisakhi Mahotsav jaipur/Nagpur	148,769.00	-
Basant Bahar	69,500.00	-
BILASA MAHOTSAVA-BILASPUR	-	111,486.00
BRAHMANAD PROGRAM	2,005,120.00	1,447,660.00
Chikhaldara Tourisum Festiwal	137,355.00	-
Classical dance prog- Nagpur	20,000.00	-
Contemparary art camp gurgaon	14,758.00	-
Cartoon Work Shop Expenses A/c	-	11,000.00
Cultural Evening At MECL Nagpur	-	40,000.00
Cultural Evening at NADT, Nagpur	40,000.00	40,000.00
Cultural programme at OFC	190,000.00	-
Cultural programme on 15th Aug	10,000.00	-
Cultural Event at Indian Army, Kamthi	-	45,770.00
Cultural Programme At Pune in Maharashtra A/c	-	30,000.00
Cultural Programme Women's Health A/c	-	6,349.00
Dance Jathare Banglore	35,000.00	-
Dakahavisha Art Exibition - Bangloru	-	100,000.00
Documentation Exp	**668,804.00**	-
Diwali Fort Work Shop A/c	-	14,953.00
DRUMS of India Bhimawaram	-	130,563.00
Dr. Vasantrao Deshpande Smruti Sangeet Samaroh-Nagp	2,193,346.00	1,882,956.00
Folk Fair Jaganathpuri A/c	106,250.00	75,748.00
Folk Fair Programe Exp- Odisha A/c	-	53,319.00
Folklore Program Exp A/c	103,640.00	54,118.00
Food festival dharwad	134,961.00	-
Foundation day celebration	40,000.00	-

Gandhi Shilp Bazar Nagpur A/c	49,290.00	1,758,104.00
Gram Mahotsav Gothangaon	192,633.00	-
Gurushishya Parampara exp	172,500.00	-
Gudia Painting/ Mask Mukhwate Work Shop A/c	-	20,291.00
Happy Street lazim dance a/c	5,000.00	-
Hindi Pakhwada	11,206.00	-
Hindu Yuvjana sangam	278,708.00	-
Hampi Festival	-	441,131.00
International Dhrpad samaroh	2,282,810.00	-
International Fleet review vishakhapattam	9,378,857.00	-
International Yoga day	87,125.00	-
Ibadat Cultural Prog A/c	-	880,575.00
Janani Music festival	15,000.00	-
Janbhari National theater festival	45,000.00	-
Kabir Mahotsav	1,283,194.00	-
Kala Ghoda festival Mumbai	134,900.00	-
Kala Mohotsav- Aurangabad Exp	677,068.00	411,968.00
Kaleidoscope A/c	8,000.00	-
Kalanuragi Exp A/c	-	10,500.00
Karva -E-Adab (Akhil Bhartiya Mushayara)	751,205.00	521,968.00
KARVALI Utsav A/c	-	259,530.00
Kathak Dance Programe - Nagpur	-	10,000.00
Legend for Legend A/c	-	19,900.00
Loha Shilf Work Shop A/c	4,708.00	12,560.00
Lok Kala Yatra in Andhra	727,363.00	-
Lok Kala Yatra Balaghat (M.P)	-	382,164.00
Lok Kala Yatra- Belgaon (KS)	20,000.00	595,135.00
Lok Kala Yatra in Chattisgarh	286,741.00	-
Lok Kala Yatra Dhamtori A/c	-	571,796.00
Lok Kala Yatra Gondia	-	410,608.00
Lok Kala Yatra in Karnataka	861,149.00	-
Lok Kala Yatra in Karwar	774,981.00	-
Lok Kala Yatra Karimnagar	-	484,961.00
Lok kala yatra multai	433,535.00	-
Lok Kala Yatra Ranjangaon (Chattisgarh)	-	360,551.00
LOk Kala Yatra - Sangali A/c	8,000.00	394,524.00
Lok Kala Yatra Ujain	-	305,860.00
Lok kala yatra umaria	7,547.00	-
Lok Kala Yatra Warangal	-	495,747.00
Lok kala yatra warud	429,162.00	-
Lok kala yatra vidarbha	526,900.00	-
Lok rang festival	390,831.00	-
Lok rang mahotsav bhopal	108,488.00	-
Lok sanskritik sandhya	30,232.00	-
Maa Nav Chandika Mela Utsav A/c	244,716.00	259,880.00
Mahamurkha Sammelan	583,320.00	-
Maharashtra darshan in MP	3,091,076.00	-
Mahashivratri Festival	60,000.00	-
Make in india -Mumbai	849,514.00	-
Malwa Utsav at Indore	120,000.00	117,240.00

MP Darshan in Maharashtra	14,478.00	-
Marathi Hasya Kavi Sammelan- Anjangaon	-	53,433.00
Mati Ke Rang - Dimapur	-	118,635.00
Muze Bhi KUch Kahana Hai	57,017.00	102,833.00
Mysore Dashara Festiwal- Mysore (K.S)	-	28,265.00
Nakkal Samaroh, Wani	-	85,296.00
National Book Fair A/c	-	126,500.00
National cultural exchange prog	278,693.00	-
National Festiwal Light Music- Khairagarh	-	159,435.00
National Mask Dance & Martial Art Festiwal A/c	21,596.00	789,468.00
NAtional Quawali Festiwal- Nimach A/c	-	275,000.00
New Talim Sewagrame Work Shop	-	38,888.00
Paramparik Shilp W.S A/c	-	29,704.00
PAWAS PRASANG	-	81,000.00
Pola festival	8,600.00	-
Police sports meet	236,000.00	-
Quawali Programme - Kamptee		50,000.00
Rajasthani folk song	80,000.00	-
Rasbhakti Sangit sham	2,000.00	-
Rashtriya sanskriti mahotsav	4,997,661.00	-
Ras rang (Kawwali) 2016 Raipur	1,313,879.00	-
RD Parade	6,141,586.00	-
RD Parade celebration 2015	30,000.00	-
Rajyotsava Raipur (C.G.)	18,383.00	251,951.00
Rajyotsav Bilaspur (C.G)	-	68,325.00
Rashtriya Bhakti Sanget Smaroh , Sevagram	80,650.00	727,504.00
Rashtriya Maha Mukh Samelan - Nagpur A/c	-	8,000.00
Sanskriti sandhya nagpur	165,000.00	-
Sanskar Bharti Rangoli W.S A/c	-	8,850.00
Shourya Parwa , Bangloru	274,280.00	250,164.00
Silver jubilee celebration	3,047,387.00	-
Simhasta Kumbha mela ujjain	**60,561.00**	-
Surajkund International Mela	-	120,285.00
Swaccha bharat abhiyan	300,000.00	-
Swanrna jayanti gramin rojgar cultural prog	77,880.00	-
Tapti mahotsav	134,670.00	-
Thematic exhibition	58,905.00	-
Tribal fashion show	7,071.00	-
The Social Aesthetic World of the Courtesan	-	71,186.00
Traditional Bambu Hut Work Shope - Nagpur A/c	-	68,182.00
Traditional Doll Making Work Shop A/c	-	282,934.00
Traditional Paint/ Folk W/S A/c	-	70,520.00
Training Painting Work Shop - Mumbai	-	48,950.00
Training Painting Workshop, Nagpur	-	147,687.00
Training Work Shop Exp A/c	-	215,990.00
Traditional Painting Work Shop Delhi	383,702.00	
Traditional Trible painting Work Shop Nagpur	1,088,667.00	
Umang Festiwal Aurangabad A/c	-	627,349.00
Varhadi hasya sammelan	50,000.00	-
Vaidarbhi Mohotsav Amravati	-	44,000.00

KEDIA ... & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

Wagh Utsav Exp A/c	-	775,963.00
Wardhani Mohotsav - Wardha A/c	-	343,734.00
Wardha Swachata Abhiyan A/c	-	61,533.00
Womens day festival Hyderabad	898,822.00	-
Yoga Classes Exp A/c	-	10,013.00
Yuva sangeet nritya prog Neemuch	60,000.00	-
Yuva Sangeet Pratiyogita A/c	511,849.00	552,793.00
Yuva Sangeet Mohotsav - Pune	-	182,829.00
ZCC Section Wall Painting Workshop Delhi	440,000.00	777,429.00
Total (A)	**71,491,642.00**	**31,786,099.00**

Part of Schedule- 24 : Expenditure on Theatre Scheme

Particulars	Current Year	Previous Year
Lok Kala Natya Pra Shibir Akola A/c	-	35,000.00
National MIne Festiwal Jabalpur A/c	-	590,253.00
National Natya Samaroh A/c	-	30,000.00
National School of Drama Festival- Nashik	-	84,151.00
Roti wali gali theatre show	20,000.00	-
Total (B)	**20,000.00**	**739,404.00**

Part of Schedule- 24 : Expenditure on Shilpgram Activities

Particulars	Current Year	Previous Year
Anandam, A/c	-	2,974.00
Anandam, A/c Aug 14	-	1,100.00
Anandam A/c Sep 2014	-	1,100.00
Archologist Sir Ki Class, A/c	-	9,612.00
Bhakti Sangeet Sandhya A/c	-	25,000.00
Bundeli Utsav	202,529.00	-
Childrens Summer Camp A/c	-	29,869.00
DM. Sir Ki Class, A/c	-	20,901.00
Dr.Sir Ki Class	-	10,823.00
Hindi Sangoshti, A/c	-	5,364.00
International Fleet Review , Vishakhapatanam	-	1,520.00
Kalakari Pratiyogita, A/c	15,926.00	78,509.00
Kalakari Lok Geet competition	17,923.00	-
Khajuraho Nritya Sama A/c	570,000.00	500,000.00
Lohashilp Workshop at Khajuraho		15,604.00
Lok Natya Utsav,Naach	26,667.00	82,015.00
Lok Natya Utsav,Maach	125,099.00	-
Musium At Shilpgrams Khajurah A/c	-	102,553.00
Nari Sanskrutik Sandhya,A/c	-	15,166.00
Nari Womeans Programe, Shilpgrame	-	7,146.00
Paramparik Yatra Rally, A/c	-	40,518.00
Rang Bundeli, Shilpgrame	77,278.00	48,213.00
Rangoli Pratiyogita, A/c	-	23,666.00
Sanskrutik Sandhya A/c	-	7,672.00
SDOP Sir Ki Class, A/c	-	8,470.00
Shivratri Mahotsav Khajuraho	20,000.00	-
S.P Sir Ki Class A/c	-	9,016.00
Total (C)	**1,055,422.00**	**1,046,811.00**
Total - (A + B + C)	**72,567,064.00**	**33,572,314.00**

CHARTERED ACCOUNTANTS

Schedule- 25 : Expenditure on Special Programmes

(A) NER Activities

Particulars	Current Year	Previous Year
3rd Handicraft & Cultural Village Prog. Benglor	-	355,086.00
24th OCCM (NEA PROG)	231,080.00	-
All india craft mela	435,027.00	-
Bharat lokrang mahotsav	474,832.00	-
Bastar Lokatsav Jagdalpur A/c	-	172,321.00
Dashera Mahotsav, Chattisgarh	526,658.00	-
Drums of India Ram nagar	654,622.00	-
Drums of India Bhimawaram 1	-	139,616.00
Lok kala yatra NEA	32,060.00	-
Lok kala yatra multai	108,024.00	-
Lok Kala yatra morshi	108,025.00	-
Mandai Mahotsav	96,776.00	-
North East Festiwal Khajurah A/c		1,254,448.00
North East Activity/ Handicraft villege banglore	141,800.00	-
Pachmari Mahotsav	126,161.00	-
Sanskrutik Cultural Prog	454,167.00	-
Shourya parva banglore	180,217.00	-
Utkal bangla utsav	174,050.00	-
Rajim Kumbha Mela (C.G.)	-	608,157.00
Rajyotsav Raipur, Chattisgarh	-	338,470.00
Documentation Expenses A/c	-	46,043.00
Gurushisha Parampara Exps	-	888,000.00
KRISHI VASANT EXP	-	6,560.00
R.D Parade Celebration 2015	-	5,394,432.00
23rd Arvind Deshpande Smruti Samaroh, Mumbai	-	100,000.00
Alakhnanadan Smruti 3rd Aniversary, Jabalpur	-	75,000.00
Celebrating The Modern Drama	-	75,000.00
Ceremic Pottery Workshop	-	50,000.00
Chattisgarh Ramayan Mela Exp, Bilaspur	-	80,000.00
Chhatisgarh Raut Nachha	-	60,000.00
Classical Music & Dance Festiwal , Banglor	-	50,000.00
Folk Festiwal & Seminar	-	75,000.00
Gramin Lok Kala Mohotsav, Nagpur	-	100,000.00
Gramin Lok Kala Mohotsav, Naekhed	-	90,000.00
H.S.I Charitable Trust Yashwantpur	-	50,000.00
Innovative Eeper	-	75,000.00
Janani Music Festival & Work Shop, Sirsi	-	75,000.00
Kalpashree Nrutya Vaibhav Cultural Dance Festiwal	-	55,000.00
Regional level Kavi Samelan on Telgu Literature	-	40,000.00
Kirtan Mohotsav - Nagpur	-	100,000.00
Late Prabhakarrao Deshkar	-	50,000.00
Leather Puttery Workshop	-	50,000.00
National Level Painting Work Shop	-	50,000.00
Nritya Sangeet Samaroh Jalgaon	-	75,000.00
Nritya Sanje, Sirsi	-	50,000.00
Paramparik Loksangeet	-	75,000.00
Popularisation and Propogation of Kannada Jan	-	50,000.00

CHARTERED ACCOUNTANTS

Promotion of Folk Cultural	-	50,000.00
Pt. Jeeyendra Abhisheki S.Samaro-Bhopal	-	50,000.00
Puppet Theater	-	50,000.00
Rang Aur Vimarsh	-	50,000.00
Rural Cultural Festiwal	-	75,000.00
Rural Folk Festiwal of Dappu Dance	-	50,000.00
Shatriya Sangeet Sabha	-	50,000.00
Shradhanjali Mohotsav- Aurangabad A/c	-	75,000.00
Social Play Festiwal	-	75,000.00
Sundari Samrat Sidramji Samgit Sama, Solapur	-	75,000.00
Three Day Fes of Company Drama	-	75,000.00
Tow Day Mythological Play	-	75,000.00
Tribal Folk Dance	-	50,000.00
Tribal Lambani Folk Festiwal	-	75,000.00
Udan Programme Nagpur	-	75,000.00
Workshop on Indian Folk Traditional Creat, Annantpu	-	50,000.00
Workshop on Vanishing	-	60,000.00
World Theater Day	-	75,000.00
Yakshagana Festiwal	-	70,000.00
Yuva Music and Dance Festiwal	-	50,000.00
Yuva Sangeet Nritya Samaroh	-	75,000.00
All India Police Aquestrian Meet - Jaipur (TSP)	-	108,940.00
Bastar Lokotsav Exp A/c	-	55,400.00
Total (A)	**3,743,499.00**	**12,247,473.00**

(B) Tribal sub Plan (TSP) Activities

Particulars	Current Year	Previous Year
Bilasa Mahotsav	126,017.00	-
Drums of India Bhimawaram (A.P)		271,300.00
Geeta Gayatri	253,356.00	-
Lok Kala Yatra, Chhatisgarh	248,279.00	48,125.00
Lok Kala Yatra, (AP)	780,771.00	-
Lokotsav At Bangloru	96,170.00	185,855.00
Lokrang Mahotsav Bhopal	-	348,265.00
Lopmudra Amravati	86,875.00	
Mysur Dashera Festiwal 1	-	140,602.00
National Tribal Dance Music Festiwal- Chitradurg	-	369,662.00
National Tribal Music / Dance - Amravati A/c	-	416,130.00
National Tribal Music Dance Festival At - Khandwa	-	535,326.00
National Tribal Music Dance Festiwal- Vijayanagaram	-	880,631.00
Rajyotsav Chattsgarh 1	-	70,970.00
Rajhim Kumbha Prog	365,027.00	
Surajkund International Mela (TSP)	-	122,050.00
World Tribal Conclave Amarkanthak	-	676,904.00
Traditional folk painting	49,980.00	-
Tribal festival of india	243,525.00	-
Total (B)	**2,250,000.00**	**4,065,820.00**

Total - (A + B)	5,993,499.00	16,313,293.00

NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE, NAGPUR

Sub Schedules to the Income & Expenditure Account for the year ended on 31st March, 2016

Sub Schedule 15 -Other Income from sales/ services

Particulars	Current Year	Previous Year
Stall Booking receipts	52,03,210.00	38,70,500.00
IFR Vishakhapattanam Programme Receipts	99,90,000.00	-
Total	151,93,210.00	38,70,500.00

Sub Schedule 16 - Entrance Fees

Particulars	Current Year	Previous Year
Entry Fees	5,52,350.00	9,81,200.00
Sale of Entry Passes & Tickets	18,11,760.00	16,18,550.00
Total	23,64,110.00	25,99,750.00

Sub Schedule 17 - Interest on Deposits

Particulars	Current Year	Previous Year
Interest on Long term deposite	225,83,975.00	
Interest on RBI Bonds - FDR	16,88,135.00	
Interest on short term deposite	32,24,303.00	
Total	274,96,413.00	233,14,979.00

Sub Schedule 18 - Other Income

Particulars	Current Year	Previous Year
Receipts from premises/ Lawns	13,34,755.00	19,65,550.00
Sale of Tender Forms	18,500.00	8,400.00
Other Miscellaneous Receipts	5,47,974.00	8,26,049.00
Income from Wall paintiing workshop	-	79,017.00
Swami Vivekanand Excess grant	-	2.00
Sponsership of Programme	4,75,000.00	-
Total	23,76,229.00	28,79,018.00

Sub Schedule 19 - Labour & Processing Expenses

Particulars	Current Year	Previous Year
Payment to outsource agency	13,72,049.00	2,99,968.00
Wages to Security Guards	7,64,349.00	3,16,178.00
Total	21,36,398.00	6,16,146.00

NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE, NAGPUR

Sub Schedules to the Income & Expenditure Account for the year ended on 31st March, 2016

Sub Schedule - 20 - Repairs & Maintenance Expenses

Particulars	Current Year	Previous Year
Art Gallery Maintenance	6,740.00	2,850.00
Beatification of campus	7,42,589.00	5,03,441.00
Garden Maintenance	83,890.00	2,88,729.00
Land development & Site Development - Shilpagram	-	55,200.00
Maintenance of premises	9,80,659.00	7,16,684.00
Repairs & Maintenance to office Building/ Premises	17,33,985.00	3,59,782.00
Repairs & Maintenance to office Equipments	97,792.00	45,719.00
Shilpgram Maintenance Expenses	5,30,932.00	3,70,499.00
Site Development & Land Beautification	-	6,39,908.00
maintenance of Art Gallary	5,870.00	-
Repairs & maint of office Computer	8,925.00	-
Repairs & Maint of office vehicle	5,410.00	-
Total	41,96,792.00	29,82,812.00

Sub Schedule- 21 : Postage, Telephone and Communication charges

Particulars	Current Year	Previous Year
Postage	43,671.00	88,034.00
SMS Expenses	-	22,000.00
Telephone Expenses	2,33,161.00	1,69,420.00
Website Expenses	11,139.00	19,469.00
WiFi Expenses	-	54,793.00
Total	2,87,971.00	3,53,716.00

Sub Schedule- 22 : Travelling & Conveyance Expenses

Particulars	Current Year	Previous Year
Local Transport	-	6,778.00
Travelling Expenses	4,04,836.00	9,47,508.00
Total	4,04,836.00	9,54,286.00

Sub Schedule- 23: Other Expenses

Particulars	Current Year	Previous Year
Leavaries	18,924.00	4,050.00
Bank Charges	48,255.00	18,769.00
Meetiing Expenses	11,23,245.00	9,00,090.00
News paper & Periodicals	29,170.00	22,240.00
Office & Miscellaneous Expenses	1,02,033.00	1,85,848.00
Sumptuary Expenses	1,30,580.00	1,24,459.00
Total	14,52,207.00	12,55,456.00

NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

Sub Schedule- Income from Stall booking

Particulars	2015-16
24th OCCM craft stall booking	27,56,000.00
24th OCCM food stall booking	16,56,532.00
IFR Vishakhapatanam Stall booking	7,90,678.00
Total	52,03,210.00

Sub Schedule - Receipts from Entry Fees

Particulars	2015-16
Entry fee receipts from Workshop	54,600.00
Entry fees 29th NECA	4,61,500.00
Entry from MBKKH	12,750.00
Entry fees	23,500.00
Total	5,52,350.00

Sub Schedule - Receipts from Entry passes & Tickets

Particulars	2015-16
Sale from Entry ticket	5,69,950.00
Sale of 24th OCCM entry ticket	12,41,810.00
Total	18,11,760.00

Sub Schedule - Receipts from premises & Lawn

Particulars	2015-16
Receipts from Prmises & Lawn booking	12,54,755.00
Receipts from Khajurao lawn booking	80,000.00
Total	13,34,755.00

Sub Schedule - Other misc receipts

Particulars	2015-16
Other misc receipts	4,89,549.00
Return of painting 28th all india contest	32,000.00
Shilpgram Misc Receipts	26,425.00
Total	5,47,974.00

Sub Schedule - Other receipts (Interest)

Particulars	2015-16
Interest on Long term deposite	225,83,975.00
Interest on RBI Bonds - FDR	16,88,135.00
Interest on short term deposite	32,24,303.00
Total	274,96,413.00

KEDAR GOKHLE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE, NAGPUR

ANNEXURES TO INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31/03/2016

Annexure of GRANTS RECEIVED And Expenditure incurred

Particulars	Unutilised Grants of 2014-2015 Brought Forward	Grants Received/ Receivable During The Year 2015-2016	Excess Grants Transferred to other Schemes/ Returned	Sub Total	Unspent Grants Carried Forward	Grants Credited During the Year 2015-2016
	1	2	3	4	5	6
				[1+2+3]		[4-5]
Grant For Tribal Sub Plan	-	22,50,000.00	-	22,50,000.00	-	22,50,000.00
Grant For North East Activities	121,31,788.00	56,25,000.00	-	177,56,788.00	140,13,289.00	37,43,499.00
Grant For Gandhi Shilp Bazar			-	-	-	-
Grant for Thetre Scheme			-	-		-
				-		-
Sub Total A	121,31,788.00	78,75,000.00	-	200,06,788.00	140,13,289.00	59,93,499.00
GRANTS FOR ZCC HEADS (General)						
NCEP Programmes, Theatre Scheme	105,80,439.00	686,25,000.00	-	792,05,439.00	66,98,936.00	725,06,503.00
Other Grants						
Grant for Simhast Kumbh Mela		350,00,000.00		350,00,000.00	349,39,439.00	60,561.00
Sub Total B	105,80,439.00	1036,25,000.00	-	1142,05,439.00	416,38,375.00	725,67,064.00
Total Rs. (A+B)	227,12,227.00	1115,00,000.00	-	1342,12,227.00	556,51,664.00	785,60,563.00

Place : Nagpur
Date : December 27, 2016

K... & CO. ★ NAGPUR ★ CHARTERED ACCOUNTANTS

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार

वार्षिक प्रतिवेदन

२०१५–१६

मध्यदक्षिणी

SCZCC

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर

५६/१, सिविल लाईन, नागपुर–४४०००१

फोन: ०७१२–२५६ २९७४; फैक्स: ०७१२–२५६ ०९६६;

ई–मेल: sczccnagpur1986@gmail.com; वेबसाईट: www.sczcc.gov.in

अनुक्रमणिका

कार्यकारी बोर्ड और नियामक मंडल समिति

क्र.सं.	नाम और पदनाम	सरकारी/गैर अधिकारिक
1.	**श्री विद्यासागर राव** माननीय राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई	**अध्यक्ष**
2.	**डॉ. महेश शर्मा** माननीय संस्कृति मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली	**पदेन सदस्य**
3.	**श्री विनोद तावडे** माननीय संस्कृति मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई	**पदेन सदस्य**
4.	**श्रीमती उमाश्री** माननीय मंत्री, कन्नड और संस्कृति, कर्नाटक सरकार, बेंगलुरू	**पदेन सदस्य**
5.	**श्री पल्ले आर. रेड्डी** माननीय मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति, आंध्र प्रदेश सरकार, हैद्राबाद	**पदेन सदस्य**
6.	**श्री सुरेन्द्र पटवा** माननीय मंत्री, संस्कृति, मध्य प्रदेश सरकार, वल्लभ भवन, भोपाल	**पदेन सदस्य**
7.	**श्री दयालदास बघेल** माननीय संस्कृति मंत्री, छत्तीसगढ सरकार, रायपुर	**पदेन सदस्य**
8.	**श्रीमति वलसा नायर सिंह,** आय.ए.एस., सचिव, पर्यटन और संस्कृति विभाग, महाराष्ट्र शासन, मैडम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई	**पदेन सदस्य**
9.	**श्री एन. के. सिन्हा,** आय.ए.एस., सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	**पदेन सदस्य**
10.	**श्री कुमार एस. कृष्णा,** आय.ए.एस., वित्तीय सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	**पदेन सदस्य**

क्र.सं.	नाम और पदनाम	सरकारी/गैर अधिकारिक
11.	**श्री मनोज श्रीवास्तव,** आय.ए.एस., सचिव, संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, भोपाल	**पदेन सदस्य**
12.	**श्री एन. कुमार प्रसाद,** आय.ए.एस., प्रमुख सचिव, वाय.ए.टी. विभाग, आंध्रप्रदेश सरकार, हैद्राबाद	**पदेन सदस्य**
13.	**श्री एस. आर. उमाशंकर,** आय.ए.एस., कर्नाटक सरकार के सचिव, कन्नड एवं संस्कृति विभाग, बेंगलुरू	**पदेन सदस्य**
14.	**श्री संतोष कुमार मिश्र,** आय.ए.एस., प्रधान सचिव, संस्कृति विभाग, नया मंत्रालय, नया रायपुर	**पदेन सदस्य**
15.	**डॉ. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी** अध्यक्ष, ललीत कला अकादमी, नई दिल्ली	**पदेन सदस्य**
16.	**अध्यक्ष** अध्यक्ष, ललीत कला अकादमी, नई दिल्ली	**पदेन सदस्य**
17.	**श्री शेखर सेन** अध्यक्ष, संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली	**पदेन सदस्य**
18.	**श्री शैलेश जाधव** निदेशक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई	**सदस्य**
19.	**डॉ. डी. विजया भास्कर** निदेशक, संस्कृति विभाग, आंध्र प्रदेश शासन, हैद्राबाद	**सदस्य**
20.	**श्री के. एस. दयानंदा,** आय.ए.एस., कन्नड संस्कृति विभाग, कर्नाटक शासन, बेंगलुरू	**सदस्य**
21.	**श्री राजेश कुमार मिश्रा,** आय.ए.एस., निदेशक, अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी, भोपाल	**सदस्य**
22.	**श्री राकेश चतुर्वेदी** निदेशक, संस्कृति और पुरातत्व विभाग, रायपुर	**सदस्य**
23.	**श्री लाल साब शेख मास्तर** आयुक्त, कर्नाटक नाटक अकादमी, बेंगलुरू	**सदस्य**

क्र.सं.	नाम और पदनाम	सरकारी/गैर अधिकारिक
24.	**श्री प्रसाद महाजन** प्रकल्प अधिकारी, पु.ल- देशपांडे अकादमी, मुंबई	**सदस्य**
25.	**श्री बाबा भांड** अध्यक्ष, संस्कृति मंडल, महाराष्ट्र शासन, प्रभादेवी, मुबई	**सदस्य**
26.	**प्रो. मालती पट्टनशेट्टी** अध्यक्ष, कर्नाटक साहित्य अकादमी, बेंगलुरू	**सदस्य**
27.	**श्री उमेश कुमार सिंह** निदेशक, साहित्य अकादमी, भोपाल	**सदस्य**
28.	**पं. रविशंकर व्यास** हनुमान मंदीर के पास, भुधापुरा, रायपुर	**सदस्य**
29.	**श्री श्याम सुंदर अय्यगरी** हैद्राबाद	**सदस्य**
30.	**श्री नागेश ठाकुर** 877/3/बी. बालको नगर, कोरबा	**सदस्य**
31.	**डॉ. मांडवी सिंह** कुलपति, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़	**सदस्य**
32.	**प्रो. ओ. अलनागभूषण स्वामी** #201, 2 क्रॉस, रूद्राक्ष रेजीडेंसी कलोनी, अग्रहारा, बनेरघट्टा रोड, बेंगलुरू	**सदस्य**
33.	**श्री सुभाष कम्मर** नं.38, विनायक, सेकंड कॉस, 2, मुख्य कत्रीगुप्पे पूर्व, बी.एस.के. 3 चरण, बेंगलुरू	**सदस्य**
34.	**डॉ. मृत्युन्जय अगादी** तिवे क्वांटर, निसर्ग नगर के पीछे, नाडा लहरी, प्लॉट नं.288-ए, धारवाड	**सदस्य**
35.	**पद्मश्री आर. नागेश्वर राव** हैद्राबाद	**सदस्य**
36.	**डॉ. अल्लेख्खा पुंजाला** हैद्राबाद	**सदस्य**
37.	**डॉ. पियुष कुमार** निदेशक, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर	**सदस्य सचिव**

कार्यक्रम समिति के सदस्यों की सूची

क्र.सं.	नाम और पता	
1.	**श्री विनोद तावडे** माननीय संस्कृति मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई	**अध्यक्ष**
2.	**श्री राकेश चतुर्वेदी** निदेशक, संस्कृति और पुरातत्व विभाग, एम.जी.एमण संग्रहालय, रायपुर	**सदस्य**
3.	**श्रीमती रेणु तिवारी** निदेशक, सांस्कृतिक मामलों के निदेशालय, शिवाजी नगर, भोपाल	**सदस्य**
4.	**श्री कं.आर.बी.एच.एन. चक्रवर्ती,** भा.प्र.स., विशेष आयुक्त, सांस्कृतिक विभाग, कला भवन, सैफाबाद, हैद्राबाद	**सदस्य**
5.	**श्री अजय आंबेकर** निदेशक, सांस्कृतिक मामलों के निदेशालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई	**सदस्य**
6.	**श्री के. पी. दयानंद कास** निदेशक, सांस्कृतिक मामलों के निदेशालय, कर्नाटक शासन, बेंगलुरू	**सदस्य**
7.	**अध्यक्ष** संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली	**सदस्य**
8.	**श्री कृष्ण किम्बहुने** क्षत्रीय सचिव, साहित्य अकादमी, 172, मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय मार्ग, मुंबई	**सदस्य**
9.	**श्री आर. एम. पलिनीयप्पन** क्षत्रीय सचिव, ललित कला अकादमी, क्षेत्रीय केंद्र, चेन्नई	**सदस्य**
10.	**शाहिर दादा पालसलकर** 9-बी/1, गुरूवार पेठ, पुणे	**सदस्य**
11.	**श्रीमती वाणी देवी** प्रधान, ललित कलाए व्यंकटेश्वरा कॉलज, हैद्राबाद	**सदस्य**
12.	**मिस ललिता** फ्लॅट नं.301, भास्कर टावर्स, हैद्राबाद	**सदस्य**

क्र.सं.	नाम और पता	
13.	**श्रीमती कृष्णा वर्मा** मालवा कला केंद्र, उज्जैन	**सदस्य**
14.	**श्री अरूण मोरोनी** ईंदौर	**सदस्य**
15.	**श्री अनिल कुमार** दक्षिण टी. टी. नगर, भोपाल	**सदस्य**
16.	**डॉ. गिरीश पांडे** खामला, नागपुर	**सदस्य**
17.	**डॉ. मधुकर वाकोडे** दरियापुर रोड, अंजनगांव सुर्जी, जिला - अमरावती	**सदस्य**
18.	**श्री योगेन्द्र चौबे** लालपुर के पास, रायपुर	**सदस्य**
19.	**श्री अशोक चंद्राकार** ग्राम मुजगहन, बाद सेजबहार, रायपुर	**सदस्य**
20.	**सुश्री यास्मीन सिंह** देवेन्द्र नगर, रायपुर	**सदस्य**
21.	**डॉ. पियुष कुमार** निदेशक, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर	**सदस्य**

वित्त समिति के सदस्यों की सूची

क्र.सं.	नाम और पता	
1.	**श्रीमति वलसा नायर सिंह,** भा.प्र.स., प्रधान सचिव, पर्यटन और संस्कृति विभाग, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई	**अध्यक्षा**
2.	**श्री कुमार संजय कृष्णा,** भा.प्र.स., वित्तीय सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, दई दिल्ली	**पूर्व पदेन सदस्य**
3.	**श्री मनोज श्रीवास्तव,** भा.प्र.स., सचिव, संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल	**पूर्व पदेन सदस्य**
4.	**श्री निरज कुमार प्रसाद,** भा.प्र.स., प्रमुख सचिव, युथ एवं संस्कृति विभाग, आंध्र प्रदेश शासन, हैद्राबाद	**पूर्व पदेन सदस्य**
5.	**श्री एस. आर. उमाशंकर,** भा.प्र.स., सचिव, कन्नड एवं संस्कृति विभाग, कर्नाटक शासन, सचिवालय, विकास सौधा, बेंगलुरू	**पूर्व पदेन सदस्य**
6.	**श्री संतोष कुमार मिश्र,** भा.प्र.स., प्रधान सचिव, संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़, नया रायपुर	**पूर्व पदेन सदस्य**
7.	**श्री शैलेश जाधव** निदेशक, सांस्कृतिक मामलों के निदेशालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई	**पूर्व पदेन सदस्य**
8.	**श्री आर. पी. मिश्रा,** भा.प्र.स., निदेशक, आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी, भोपाल	**पूर्व पदेन सदस्य**
9.	**डॉ. पियुष कुमार** निदेशक, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर	**सदस्य सचिव**

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर

01.04.2015 से 31.03.2016 के लिए गतिविधि रिपोर्ट

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	स्थान/राज्य/संघ क्षेत्र	अवधि	प्रस्तुत कला	भाग लेने वाले कलाकारों की सं.		कार्यक्रमों की सं		किया गया व्यय (रु.)	लक्षित लाभार्थियों की सं.	अति विशिष्ट व्यक्तियों की भागीदारी का विवरण
					पुरुष	महिलाएं	ग्रामीण व मुफस्सिल क्षेत्र	शहरी क्षेत्र			
1.	आनंदम – योग शिविर	केंद्र परिसर , नागपुर	01.4.2015 से 30.03.2015	योग	-	15		शहरी	--	75	नियमित कार्यक्रम
2	राष्ट्रीय महामूर्ख सम्मेलन	केंद्र परिसर , नागपुर	01.04.2015	श्री अशोक चक्रधर श्री मधु पाण्डेय श्री अरुण जैमिनी श्री विष्णु सक्सेना डॉ. सर्वेश अस्थाना श्रीमति ममता शर्मा श्री प्रताप फौजदार	06	01		शहरी	5,83,320/-	2000	श्री अनूप कुमार, भा.प्र.से., संभागीय आयुक्त, नागपुर. श्री के. के. पाठक, पुलिस आयुक्त, नागपुर
3	कंटेम्परारी आर्ट की 28 वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी	केंद्र की कला दीर्घा	01.04.2015 से 08.04.2015	214 – चित्रकला, मूर्ति कला और फोटोग्राफी	130	84		शहरी	12,08,830/-	200 प्रति दिन	श्री रघु राय,श्री जतिन दास, श्री लक्स्मा गौड़ तथा श्री अनूप कुमार, भा.प्र.से., संभागीय आयुक्त, नागपुर.
4	मुझे भी कुछ कहना है	नागपुर	05.04.2015	गायन और वाद्य यंत्र	06	10		शहरी	3,000/-	200	
5	बैसाखी पर्व	होम साइंस महाविद्यालय हॉल, जबलपुर	11.04.2015 से 12.04.2015	भांगड़ा नृत्य, गिद्दा, जिंदवा और मालवीय नृत्य	15	10	--	शहरी	1,48,769/-	300	पंजाबी हिंदू एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम। केंद्र ने दल को प्रायोजित किया.
6.	ब्रह्मनाद	द.म.क्षे.सां.के., परिसर, नागपुर	12.04.2015	सरोद वादन श्री नरेन्द्र नाथ धर एवं भारती बंधू	02	--	--	शहरी	90,000/-	400	श्री किसन शर्मा प्रसिद्द उद्घोषक, श्री विष्णु मनोहर शीफ

7	बैसाखी	द.म.क्षे.सां.के. प्रांगण, नागपुर	13.04.2015	भांगड़ा नृत्य, गिद्दा, जिंदवा और मालवीय नृत्य	15	10	--	शहरी	कर्म सं.5 में किया गया व्यय	300	डॉ. पियूष
8	कंटेम्परारी आर्ट की 28 वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी	भारत भवन, भोपाल	17.04.2015 से 26.04.2015	214 – चित्रकला, मूर्ति कला और फोटोग्राफ कनिष्ठ पुरस्कार- 4 सं- रु. 4.00 लाख वरिष्ठ पुरस्कार- 4 सं- रु. 8,00 लाख प्रायोजन-10 अवार्ड प्रत्येक रुपये 50,000 / -	130	84	--	शहरी	25,00,000/-	400	श्री सुंदरलाल पटवा, माननीय सांस्कृतिक मंत्री, मध्य प्रदेश,भारत सरकार ,श्री मनोज श्रीवास्तव, भा.प्र.से.प्रमुख सचिव, संस्कृति, सांसद विभाग, श्रीमति भूरी बाई, प्रसिद्ध लोक कलाकार, श्रीमती, वृंदा मिलान, श्रीमति अलका पांडे
9	कला फिल्मों का प्रदर्शन	भारत भवन, भोपाल	18.04.2015	वृंदा मिलर द्वारा ऑडियो विजुअल प्रस्तुति ,सार कलाकार, मुंबई डॉ. अलका पांडे, दिल्ली कला इतिहासकार	--	02	--	शहरी	50,000/-	100	
10	तीन दिन का कंपनी नाटक महोत्सव	वी राममूर्ति रंगा मंदिरा तुमकुर	18.04.2015 से 20.04.2015	कंपनी ड्रामा उडुपी मानी पंचाबूथागालू बदुकू बनगरवयित्तू				शहरी	75,000/-		द.म.क्षे.सां.के.- एनजीओ भागीदारी के तहत अमरेश्वर विजया नाटक मंडली, तुमकुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम।
11	कला फिल्मों का प्रदर्शन	भारत भवन, भोपाल	19.04.2015	श्रीमति नमिता गोखले, जयपुर द्वारा ऑडियो विजुअल प्रस्तुति	--	01	--	शहरी	25,000/-	80	
12	कला फिल्मों का प्रदर्शन	भारत भवन, भोपाल	20..04.2015	श्री सुरेश जयराम बैंगलोर द्वारा ऑडियो विजुअल प्रस्तुति	01	--	--	शहरी	30,000/-	90	

13	कला फिल्मों का प्रदर्शन	भारत भवन, भोपाल	21.04.2015	सुश्री कविता जायसवाल, दिल्ली द्वारा ऑडियो विजुअल प्रस्तुति	--	01	--	शहरी	25,000/-	85	
14	कला फिल्मों का प्रदर्शन	भारत भवन, भोपाल	22.04.2015	भावना कक्कड़, नई दिल्ली द्वारा ऑडियो विजुअल प्रस्तुति	--	01	--	शहरी	25,000/-	65	
15	चीनी मिट्टी के बर्तनों कार्यशाला	जुनी मंगलवारी, नागपुर	23.04.2015 से 27.04.2015	श्रीमति रेखा बोरकर, कार्यशाला निदेशक प्रतिभागी	--	15		शहरी	50,000/-	--	नागपुर द.म.क्षे.सां.के.- एनजीओ भागीदारी के तहत रूचि बहूददेशिया महिला मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम
16	कला फिल्मों का प्रदर्शन	भारत भवन, भोपाल	23.04.2015	दीवान मन्ना, चंडीगढ़ द्वारा ऑडियो विजुअल प्रस्तुति	01		--	शहरी	35,000/-	75	
17	कला फिल्मों का प्रदर्शन	भारत भवन, भोपाल	24.04.2015	श्री गुंजन अहलावत दिल्ली द्वारा ऑडियो विजुअल प्रस्तुति	01		--	शहरी	25,000/-	80	
18	वाल पेंटिंग कार्यशाला	शिल्पग्राम खजुराहो	24.04.2015 से 27.04.2015	श्रीमति कृष्णा वर्मा और सहयोगी	02	02	ग्रामीण	--	45,000/-	2000	श्रीमति कृष्णा वर्मा और सहयोगी
19	कला फिल्मों का प्रदर्शन	भारत भवन, भोपाल	25.04.2015	प्रो शोर्मिष्ठा पांजा, दिल्ली द्वारा ऑडियो विजुअल प्रस्तुति	--	01	--	शहरी	25,000/-	70	
20	खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित)	शिल्पग्राम खजुराहो	25.04.2015 से 28.04.2015	400 कलाकार			ग्रामीण	--	80,000/-	1000	श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश, फिल्मी हस्तियां - ओम पुरी, रमेश सिप्पी, मनमोहन शेट्टी, गोविंद निहलानी, डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी, दीप्ति नवल
21	कला फिल्मों का प्रदर्शन	भारत भवन, भोपाल	26.04.2015	पूनम गोयल द्वारा ऑडियो विजुअल प्रस्तुति	--	01	--	शहरी	25,000/-	75	

22	शास्त्रीय नृत्य कार्यक्रम	द.म.क्षे.सां.के., परिसर, नागपुर	25.04.2015	भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम	20	43		शहरी	20,000/-	900	
23	आनंदम	नागपुर महाराष्ट्र	01.05.2015 से 31.05.2015	योग	25	40	--	शहरी		65	नियमित गतिविधि
24	मुझे भी कुछ कहना है.	नागपुर महाराष्ट्र	03.05.2015		05	03	--	शहरी	3,000/-	250	
25	मालवा उत्सव	इंदौर मध्य प्रदेश	09.05.2015 से 11.05.2015	महाराष्ट्र की झलकियाँ	12	08		शहरी	1,20,000/-	--	लोक संस्कृति मंच, इंदौर द्वारा आयोजित कार्यक्रम। केंद्र द्वारा कलाकारों को प्रायोजित किया गया.
26	ब्रह्मनाद	नागपुर महाराष्ट्र	10.05.2015	उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद जयपुर (राज) द्वारा गजल गायन.	06	-	-	शहरी	1,45,800/-	300	श्री अनूप कुमार, भा.प्र.से., संभागीय आयुक्त, नागपुर
27	13 वां लोक मेला	पुरी ओडिशा	25.05.2015 से 29.05.2015	काठी नृत्य -मध्य प्रदेश ककसर छत्तीसगढ़	15 09	-- 06	--	शहरी	2,40,000/-	--	कोलकाता द्वारा आयोजित कार्यक्रम
28	सामाजिक नाट्य महोत्सव (पूर्ण दिवसीय)	डॉ. गुब्बी वीरन्ना कलाक्षेत्र, तुमकुर(कर्नाटक)	30.05.2015	1) पञ्च भुथागालू 2) विस्की - रिस्कु 3) लोक आउट ऑल नॉकआउट 4) आ कराला रथ्रियाली 5)सेवंथी प्रसंगा	07 03 03 04 04	01 02 01 02 02	--	शहरी	75,000/-		द.म.क्षे.सां.के.- एनजीओ भागीदारी के तहत आयोजित कार्यक्रम

29	कल्पश्री नृत्य वैभव	रामनगर तालुका बंगलौर	31.05.2015	श्रीमति हेमा गोविन्द राजू, बैंगलोर कु. अनन्या हरीश,चन्नापटना, श्रीमति मधुलिथा महापात्र, बैंगलोर, श्रीमति पूर्णा आचार्य, बैंगलोर, शास्त्रीय भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी प्रदर्शन	04 03 03 03	02 01] 01 01	--		55,000/-	--	श्री बी.टी. नागेश, अध्यक्ष कन्नड़ साहित्य परिषद, रामनगर जिला, श्री सु.था.रामेगौडा वरिष्ठ पत्रकार, चेन्नापतना,डॉ. सरस्वती राजतेश, कुचिपुड़ी जनपद परिषद, बैंगलोर, डॉ. कुरुवा बासवराज,(द.म.क्षे.सां.के.-एनजीओ भागीदारी कार्यक्रम)
30	आनंदम	नागपुर महाराष्ट्र	01.06.2015 से 30.06.2015	योग	25	40	--	शहरी		65	नियमित गतिविधि
31	मुझे भी कुछ कहना है.	नागपुर महाराष्ट्र	07.06.2015	एकल गायन, वाद्य यंत्र, कविता, नृत्य आदि	09	06		शहरी	3,000/-	250	
32	ब्रह्मनाद	द.म.क्षे.सां.के. परिसर नागपुर	14.06.2015	श्रीमति अनुराधा पाल(एकल तबला वादन)	01	01	--	शहरी	1,13,067/-	400	सुश्री गब्रिलो, अमरीका, डॉ. पीयूष कुमार, निदेशक, द.म.क्षे.सां.के., नागपुर
33	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस	यशवंत स्टेडियम , नागपुर	21.06.2015	योग	12000	9000	-	शहरी	87,125/-	21,000	श्री नितिन गडकरी, परिवहन मंत्री, भारत सरकार, श्री देवेंद्र फडणवीस,माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र सरकार और अन्य गणमान्य व्यक्ति
34	पारंपरिक लोक चित्रकारी और पारंपरिक कार्यशाला	द.म.क्षे.सां.के परिसर नागपुर	30.6.2015 से 06.07.2015	ग्राउंड चित्रकारी(श्री अजय उर्वेती) मधुबनी(श्री भवेंद्र झा) फाड़ / पट(सीनियर भास्कर महापात्र) मैसूर चित्रकला शैली	03	65	1	शहरी	87,453/-	100	विशेषज्ञों द्वारा उद्घाटन
35	आनंदम	नागपुर महाराष्ट्र	01.07.2015 से 31.07.2015	योग	25	40	--	शहरी		65	नियमित गतिविधि
36	मुझे भी कुछ कहना है.	नागपुर महाराष्ट्र	05.07.2015	गायन, कथा कथन	06	07		शहरी	5000/-	150	नियमित गतिविधि

37	दो दिवसीय पौराणिक नाट्य महोत्सव(द.म.क्षे. सां.के.- एनजीओ भागीदारी)	मुद्दैअनाप्ल्या (कर्नाटक)	11.07.2015 से 12.07.2015	रंगमंच नाटक नारद विनोद कोमल गांधार धूथ घतोत्च्कच कनीना	03 02 05 05	01 01 02 -		शहरी	75,000/-	400	द.म.क्षे.सां.के.- एनजीओ भागीदारी के तहत आयोजित कार्यक्रम
38	ब्रह्मनाद	द.म.क्षे.सां.के. परिसर नागपुर	12.07.2015	श्रीमति मञ्जूषा पाटिल हिन्दुस्तानी गायन	02	03	--	शहरी	1,07,631/-	400	श्री अनूप कुमार, भा.प्र.से., संभागीय आयुक्त, नागपुर श्री राजीव रानाडे, आईआरएस आयकर आयुक्त, नागपुर श्री महेश एलकुंचवार, वरिष्ठ नाटक लेखक, नागपुर
39	पारंपरिक आदिवासी लोक चित्रकारी और भारत के मास्टर शिल्प व्यक्ति द्वारा शिल्प प्रशिक्षण कार्यशाला	द.म.क्षे.सां.के. परिसर नागपुर	15.07.2015 से 21.07.2015	वारली चित्रकारी श्रीमति मीनाक्षी वायदे महाराष्ट्र नाथद्वारा चित्रकारी श्री प्रमोद शर्मा (राज।) किन्नल कार्य (शिल्पकला) श्री किशोर चित्रगर (कर्नाटक) सोलावुड (शिल्पकार) श्यामल घोष(प.ब.)	02	55	--	शहरी	45,000/-	100	विशेषज्ञों द्वारा उद्घाटन
40	डॉ. वसंतराव देशपांडे युवा संगीत प्रतियोगिता	द.म.क्षे.सां.के.' परिसर नागपुर	25.07.2015	हिंदुस्तानी गायन हिंदुस्तानी वाद्य यंत्र (स्क्रीनिंग राउंड)	06 07	06 --	--	शहरी	क्रम सं 54 के व्यय सहित	100	जूरी सदस्य पं. भोला नाथ मिश्रा नई दिल्ली उस्ताद अत्तार हुसैन नई दिल्ली
41	डॉ. वसंतराव देशपांडे युवा संगीत प्रतियोगिता	द.म.क्षे.सां.के. परिसर नागपुर	26.07.2015	कर्नाटक गायन कर्नाटक वाद्ययंत्र(स्क्रीनिंग राउंड)	02 04	01 --	--	शहरी		100	जूरी सदस्यों विद्वान कोवई बालासुब्रमण्यमकोयम्बटूर (तमिलनाडु) विद्वान जी एस मणिचेन्नई (तमिलनाडु)

42	डॉ. वसंतराव देशपांडे युवा संगीत प्रतियोगिता	द.म.क्षे.सां.के. परिसर नागपुर	27.07.2015	हिंदुस्तानी गायन हिंदुस्तानी वाद्य यंत्र कर्नाटक गायन कर्नाटक वाद्य। (पुरस्कार के लिए अंतिम दौर)	09	02	--	शहरी			जूरी सदस्यों पं. बृज नारायण, मुंबई, पं. प्रभाकर कारेकर मुंबई, पद्मभूषण विद्वान श्री वी रामचंद्र तथा विद्वान शशांक सुब्रमण्य(चेन्नई)
43	आनंदम	नागपुर महाराष्ट्र	01.08.2015 से 31.08.2015	योग	25	40	--	शहरी		65	नियमित गतिविधि
44	लोक कला यात्रा	वरुद महाराष्ट्र	9.08.2015	सौंगी मुखौटे महाराष्ट्र बहुरूपी महाराष्ट्र रन्नापा (उड़ीसा) पंडवानी गायन(छ.ग.) वीरनाट्यम (आ.प्र.) पुंग चोलम (मणिपुर)	15 05 15 05 14 10	-- -- -- 01 01 05	ग्रामीण	--	9,56,062/-	3000	डॉ. ए. पांडे, विधायक
45	लोक कला यात्रा	श्रीखेड़ महाराष्ट्र	10.08.2015	सौंगी मुखौटे महाराष्ट्र बहुरूपी महाराष्ट्र रन्नापा (उड़ीसा) पंडवानी गायन(छ.ग.) वीरनाट्यम (आ.प्र.) पुंग चोलम (मणिपुर)	15 05 15 05 14 10	-- -- -- 01 01 05	ग्रामीण	--	क्रम सं 44 के व्यय सहित	4000	श्री साहेबराव ताते, पूर्व विधायक
46	लोक कला यात्रा	अम्बादा महाराष्ट्र	11.08.2015	सौंगी मुखौटे महाराष्ट्र बहुरूपी महाराष्ट्र रन्नापा (उड़ीसा) पंडवानी गायन(छ.ग.) वीरनाट्यम (आ.प्र.) पुंग चोलम (मणिपुर)	15 05 15 05 14 10	-- -- -- 01 01 05	ग्रामीण	-	क्रम सं 44 के व्यय सहित	4000	श्रीमति डॉ. वी. बांदे

47	लोक कला यात्रा	हिवार्खेड महाराष्ट्र	12.08.2015	सौंगी मुखौटे महाराष्ट्र बहुरूपी महाराष्ट्र रन्नापा (उड़ीसा) पंडवानी गायन(छ.ग.) वीरनाट्यम (आ.प्र.) पुंग चोलम (मणिपुर)	15 05 15 05 14 10	-- -- -- 01 01 05	ग्रामीण	--	क्रम सं 44 के व्यय सहित	2000	श्री आर. वासनकर, प्राचार्य, एम. एफ.एच. एस.
48	एडवोकेट शांताराम पंत किरवाडकर स्मृति संगीत समारोह	साइंटिफिक सभागृह, नागपुर	12.08.2015	श्री शिरीष भालेराव(वायलिन वादन) श्रीमति गौरी पठारे(हिन्दुस्तानी गायन)	02 03	01	--	शहरी	1,75,000/	800	श्री अभय कोल्हापुरकर, डॉ. चित्रा मोदक, डॉ. पीयूष कुमार, निदेशक, द.म.क्षे.सां.के. और श्रीमति कंचन गडकरी, श्री मनोज श्रोती
49	एडवोकेट शांताराम पंत किरवाडकर स्मृति संगीत समारोह	साइंटिफिक सभागृह, नागपुर	13.08.2015	श्रीमति इंद्राणी मुखर्जी (हिन्दुस्तानी गायन) पं. विश्व मोहन भट्ट(मोहन वीणा)	02 02	02	--			700	
50	लोक कला यात्रा	प्रभात पत्तन मध्य प्रदेश	13.08.2015	सौंगी मुखौटे महाराष्ट्र बहुरूपी महाराष्ट्र रन्नापा (उड़ीसा) पंडवानी गायन(छ.ग.) वीरनाट्यम (आ.प्र.) पुंग चोलम (मणिपुर)	15 05 15 05 14 10	-- -- -- 01 01 05	ग्रामीण	--	4,33,535/-	1000	श्री सयाराम सी.ई.ओ. पत्तम
51	लोक कला यात्रा	मुलताईं मध्य प्रदेश	14.08.2015	सौंगी मुखौटे महाराष्ट्र बहुरूपी महाराष्ट्र रन्नापा (उड़ीसा) पंडवानी गायन(छ.ग.) वीरनाट्यम (आ.प्र.) पुंग चोलम (मणिपुर)	15 05 15 05 14 10	-- -- -- 01 01 05	ग्रामीण	--	क्रम सं 50 के व्यय सहित	3000	श्री पंकज जैन, भा.प्र.से. और श्री एम शर्मा, अध्यक्ष, मुलताई पंचायत परिषद
52	फेट-दी- पांडिचेरी,	पुडुचेरी में कराईकल तथा यनम	14.08.2015 से 19.08.2015	बधाई/नोरता नृत्य	07	08	1	--	--	--	कार्यक्रम दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर द्वारा आयोजित

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर

01.04.2015 से 31.03.2016 के लिए गतिविधि रिपोर्ट

53	सांस्कृतिक कार्यक्रम (देशभक्ति के गीत)	केंद्र परिसर	15.08.2015	श्री सचिन धोमे तथा अन्य	04	01	-	शहरी	5,000/-	100	श्री राम खंडवे गुरु श्री जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी
54	डॉ. वसंतराव देशपांडे संगीत समारोह	नागपुर महाराष्ट्र	17.08.2015	आदित्य मोदक (हिन्दुस्तानी गायन) राकेश चौरसिया (बांसुरी) श्रीमति गिरिजा देवी (गायन)	04 02 02	04	-	शहरी	22,83,497/-	800	श्री कृपाल तुमाने, संसद सदस्य, श्री अनूप कुमार भा.प्र.से., संभागीय आयुक्त, नागपुर। श्री बसंत लाल दिखाओ,श्री प्रसन्ना वराले, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश,श्री नवीन सोना, भा.प्र.से., निदेशक, वनमती,श्री रंजीत देशमुख
55	डॉ. वसंतराव देशपांडे संगीत समारोह	नागपुर महाराष्ट्र	18.08.2015	मयूर शर्मा (तबला) उदय भवालकर (ध्रुपद) नीलाद्रि कुमार (सितार)	02 03 02			शहरी	क्रम सं 54 के व्यय सहित	900	श्री प्रसन्ना वारले , उच्च न्यायालय न्यायाधीश, श्री आर. आर. मिश्रा, एम.डी. डब्ल्यू. सी.एल.
56	डॉ. वसंतराव देशपांडे संगीत समारोह	नागपुर महाराष्ट्र	19.08.2015	मैहर बैंड मध्य प्रदेश वडाली ब्रदर्स (सूफी लोक गायक)	12 09			शहरी	क्रम सं 54 के व्यय सहित	1000	श्री प्रसन्ना वराले, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश,श्री भूषण गवई, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश,
57	लोक कला यात्रा	अटारी(छ.ग.)	22.08.2015	छाऊ नृत्य बहुरूपी भरथरी गायन हलगी कुनिथा लिंगो नृत्य	14 05 05 14 14	- - 01 - -	ग्रामीण		5,50,000	2000	श्री संजीत साहू अध्यक्ष अटारी
58	लोक कला यात्रा	मोहलाई(छ.ग.)	23.08.2015	छाऊ नृत्य बहुरूपी भरथरी गायन हलगी कुनिथा लिंगो नृत्य	14 05 05 14 14	- - 01 - -	ग्रामीण		क्रम सं 57 के व्यय सहित	2000	श्रीमति रामशिला साहू,माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं डॉ. ए. शू पूर्व विधायक
59	लोक कला यात्रा	अभनपुर (छ.ग.)	24.08.2015	छाऊ नृत्य बहुरूपी भरथरी गायन हलगी कुनिथा लिंगो नृत्य	14 05 05 14 14	- - 01 - -	ग्रामीण		क्रम सं 57 के व्यय सहित	2000	श्री ए बजाज, अध्यक्ष, बृज उतापदम और श्री एस बघेल, अध्यक्ष, पंचायत परिषद

60	चित्रकारी प्रशिक्षण कार्यशाला	धुपद संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश	25.08.2015 से 31.08.2015	स्क्रॉल चित्रकारी वारंगल शैली (ए.पी.)श्री एन गणेशपता और फाड़ चित्रकला (उड़ीसा) श्री भवेंद्र झा	01 01		-	शहरी	44,000/-	700	श्री रमाकांत गुंडेचा, धुपद गायक
61	आनंदम	नागपुर महाराष्ट्र	01.09.2015 से 31.09.2015	योग	25	40	--	शहरी		65	नियमित गतिविधि कार्यक्रम
62	मुझे भी कुछ कहना है.	नागपुर महाराष्ट्र	06.09.2015	गायन, कथाकथन	06	07		शहरी	5000/-	150	नियमित गतिविधि कार्यक्रम
63	लोक कला यात्रा	पिड्डुगुराला जिला गुंटूर (आंध्र प्रदेश)	10.09.2015	पंथी नृत्य(छत्तीसगढ़) गर्गालू नृत्य(आंध्र प्रदेश)सौंगी मुखौटे(महाराष्ट्र) ढोलू कुनिथा(कर्नाटक) गुडुम बाजा (मध्य प्रदेश) कनाकतापू (स्थानीय समूह)	12 11 15 15 12 15	-- 04 -- -- -- --	ग्रामीण	--	7,56,237/-	800	श्री अमराली, वार्ड सदस्य व श्री अद्दिय्नै, श्रीनिवासन, समिति अध्यक्ष
64	लोक कला यात्रा	दाचेपल्ली मंडल जिला-गुंटूर(आंध्र प्रदेश)	11.09.2015	पंथी नृत्य(छत्तीसगढ़) गर्गालू नृत्य(आंध्र प्रदेश)सौंगी मुखौटे(महाराष्ट्र) ढोलू कुनिथा(कर्नाटक) गुडुम बाजा (मध्य प्रदेश) थिन्मारा (स्थानीय समूह)	12 11 15 15 12 15	-- 04 -- -- -- --	ग्रामीण	--	क्रम सं 63 के व्यय सहित	800	श्री सुब्बा राव एस.आई., दाचेपल्ली
65	लोक कला यात्रा	करेमपुडी जिला-गुंटूर(आंध्र प्रदेश)	12.09.2015	पंथी नृत्य(छत्तीसगढ़) गर्गालू नृत्य(आंध्र प्रदेश)सौंगी मुखौटे(महाराष्ट्र) ढोलू कुनिथा(कर्नाटक) गुडुम बाजा (मध्य प्रदेश) बुर्रा कथा (स्थानीय समूह)	12 11 15 15 12 02	-- 04 -- -- -- --	ग्रामीण	--	क्रम सं 63 के व्यय सहित	800	

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर

01.04.2015 से 31.03.2016 के लिए गतिविधि रिपोर्ट

66	सांस्कृतिक कार्यक्रम	सरायपाली महासमुंद (छत्तीसगढ़)	18.09.2015 से 20.09.2015	मणिपुर लोक नृत्य बांस नृत्य मिजोरम	15 09	05 09	ग्रामीण	--	4,54,167/-	1500 प्रति दिन	कार्यक्रम नगर पालिका परिषद, सरायपाली द्वारा आयोजित (छत्तीसगढ़)
67	लोक कला यात्रा	रामटेक महाराष्ट्र	23.09.2015	भांगड़ा / गिद्दा(पंजाब) गुडुम बाजा(मध्य प्रदेश) कालबेलिया / भवाई(राज)सिद्धी धमाल (गुजरात) छाऊ नृत्य	10 15 9 12 14	07 -- 5 -- --	ग्रामीण	-	5,90,000/-	2000	श्री तुमाने, सांसद, रामटेक, श्री आशीष जायसवाल पूर्व विधायक, रामटेक
68	वर्हादी हास्य कवि सम्मेलन(लोक कला यात्रा)	कटोल महाराष्ट्र	23.09.2015	वर्हाडी काव्य	04	01	ग्रामीण	-	क्रम सं 68 के व्यय सहित	3000	श्री रंजीत देशमुख, पूर्व मंत्री और श्री आशीष देशमुख, विधायक
69	लोक कला यात्रा	गोधनी महाराष्ट्र	24.09.2015	भांगड़ा / गिद्धा(पंजाब) गुडुम बाजा (मध्य प्रदेश) कालबेलिया / भवाई(राज)सिद्धी धमाल (गुजरात) छाऊ नृत्य	10 15 9 12 14	07 -- 5 -- --	ग्रामीण	-	क्रम सं 68 के व्यय सहित	800	श्री दीपक राउत, उप सरपंच, ग्राम पंचायत, गोधनी
70	वर्हादी हास्य कवि सम्मेलन(लोक कला यात्रा)	नरखेड महाराष्ट्र	24.09.2015	वर्हादी हास्य कवि सम्मेलन	04	01	ग्रामीण	-	क्रम सं 68 के व्यय सहित	3500	श्री रंजीत देशमुख, पूर्व मंत्री और श्री आशीष देशमुख, विधायक
71	लोक कला यात्रा	काटोल महाराष्ट्र	25.09.2015	भांगड़ा / गिद्धा(पंजाब) गुडुम बाजा (मध्य प्रदेश) कालबेलिया / भवाई(राज)सिद्धी धमाल (गुजरात) छाऊ नृत्य	10 15 9 12 14	07 -- 5 -- --	ग्रामीण	-	क्रम सं 68 के व्यय सहित	2000	श्री आशीष देशमुख, विधायक

72	लोक कला यात्रा	नरखेड महाराष्ट्र	26.09.2015	भांगड़ा / गिद्धा(पंजाब) गुडुम बाजा (मध्य प्रदेश) कालबेलिया / भवाई(राज)सिद्धी धमाल (गुजरात) छाऊ नृत्य	10 15 9 12 14	07 -- 5 -- --	ग्रामीण	-	क्रम सं 68 के व्यय सहित	2000	श्री तुमाने, सांसद, रामटेक , श्री आशीष जायसवाल पूर्व विधायक, रामटेक
73	आनंदम	नागपुर महाराष्ट्र	01.10.2015 से 31.10.2015	योग	25	40	--	शहरी		65	नियमित गतिविधि
74	लोक कला यात्रा	हुबली , (कर्नाटक)	02.10.2016	लावणी नृत्य (महाराष्ट्र) गुडुम बाजा मध्य प्रदेश दोद्दाता (कर्नाटक) गोतीपुआ ओडिशा चेरव (मिजोरम)	08 15 15 15 08	07 - - - 07	--	शहरी	8,61,149/-	3000	श्री अरविंद बेलेड, विधायक, धारवाड़
75	लोक कला यात्रा	शालवादी (कर्नाटक)	03.10.2016	लावणी नृत्य (महाराष्ट्र) गुडुम बाजा मध्य प्रदेश दोद्दाता (कर्नाटक) गोतीपुआ ओडिशा चेरव (मिजोरम)	08 15 15 15 08	07 - - - 07	--	शहरी	क्रम सं 75 के व्यय सहित	2000	श्री एस मुद्दकरी, जनपद अकादमी कर्नाटक के सदस्य और श्री वी.सी. पाटिल, अध्यक्ष, ग्राम पंचायत, शालवादी
76	लोक कला यात्रा	शेगाव	04.10.2016	लावणी नृत्य (महाराष्ट्र) गुडुम बाजा मध्य प्रदेश दोद्दाता (कर्नाटक) गोतीपुआ ओडिशा चेरव (मिजोरम)	08 15 15 15 08	07 - - - 07	--	शहरी	क्रम सं 75 के व्यय सहित	1000	डॉ श्रीशैल होद्दार, अध्यक्ष कर्नाटक जनपद परिषद्
77	मुझे भी कुछ कहना है.	नागपुर महाराष्ट्र	04.10.2015	गायन,मिमिक्री, इंस्ट्रूमेंटल	09	03		शहरी	5,000/-	100	नियमित गतिविधि
78	चौथा हस्तशिल्प और सांस्कृतिक ग्राम	इनोवेटिव फिल्म सिटी, बैंगलोर	16.10.2015 से 19.10.2015	सौंगी मुखौटेमहाराष्ट्रबैगा कर्मा मध्य प्रदेश घुसदी (आंध्र प्रदेश)पंथी (छत्तीसगढ़)	16 07 07 15	-- 08 08 -	--	शहरी	4,20,493/-	--	कार्यक्रम इनोवेटिव फिल्म सिटी, बैंगलोर द्वारा आयोजित। केंद्र द्वारा चार दल प्रायोजित किए गए।

79	वाको नाम कबीर(संत कबीर के रहस्यवादी आभा में एक राजसी यात्रा)	साई सभागृह शंकर नगर	16.10.2015	उस्ताद बलजीत सिंह नामधारी मुख्तियार अली	04 07	--	--	शहरी	12,83,200/-	400	श्री अनूप कुमार, संभागीय आयुक्त, नागपुर, श्री बसंत लाल शॉ, अध्यक्ष, निको समूह।
80	वाको नाम कबीर(संत कबीर के रहस्यवादी आभा में एक राजसी यात्रा)	साई सभागृह शंकर नगर	17.10.2015	कलपिनी कोमकली पद्म श्री प्रहलाद सिंह, तिपन्या	02 07	03	--	शहरी	क्रम सं 75 के व्यय सहित	450	श्री अनूप कुमार, संभागीय आयुक्त, नागपुर, और श्री देवेन्द्र पारेख,अध्यक्ष, वेद
81	वाको नाम कबीर(संत कबीर के रहस्यवादी आभा में एक राजसी यात्रा)	साई सभागृह शंकर नगर	18.10.2015	शेखर सेन	07	--	--	शहरी	क्रम सं 75 के व्यय सहित	450	श्री अनूप कुमार, संभागीय आयुक्त, नागपुर, श्री अनूप जलोटा, भजन गायक, श्री किसान शर्मा, श्री मधुप पांडे, कवि।
82	दशहरा महोत्सव	बसना (छत्तीसगढ़)	19.10.2015 से 22.10.2015	रास लीला (मणिपुर) बांस नृत्य	13 11	05 07	ग्रामीण	--	5,26,658/-	--	कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण, सरायपाली द्वारा आयोजित (छत्तीसगढ़) केंद्र द्वारा डॉदल प्रायोजित किए गए।
83	एमईसीएल के स्थापना दिवस समारोह	एमईसीएल, नागपुर	21.10.2015	कला संगम ग्रुप , नागपुर द्वारा सांस्कृतिक संध्या	08	04	-	शहरी	--	--	कार्यक्रम एमईसीएल , नागपुर द्वारा आयोजित

84	मैसूर दशहरा उत्सव	मैसूर (कर्नाटक)	22.10.2015 से 23.10.2015	गणगौर नृत्य	7	8	--	शहरी	--	--	कार्यक्रम एस.ज़ेड.सी.सी., थंजावुर द्वारा आयोजित
85	अंतर्राष्ट्रीय शिल्प और संस्कृति मेला 2015	बंगलुरु (कर्नाटक)	24.10.2015 से 25.10.2015	गणगौर नृत्य	7	8	--	शहरी	--	--	कार्यक्रम एस.ज़ेड.सी.सी., थंजावुर द्वारा आयोजित
86	लोक कला यात्रा	कोवुर (आंध्र प्रदेश)	26.10.2015	दप्पू (तेलंगाना) गरेलू (आंध्र प्रदेश) धंगरी गज (महाराष्ट्र) बधाई (मध्य प्रदेश) पंथी (छत्तीसगढ़)	15 15 15 10 15	- - - 05 -	ग्रामीण	--	7,26,237/-	1000	श्री सूर्या भास्कर राम मोहन, कोवुर, पंचायत अध्यक्ष, और श्री पी श्रीनिवास राव वार्ड परिषद।
87	लोक कला यात्रा	कदियम (आंध्र प्रदेश)	27.10.2015	दप्पू (तेलंगाना) गरेलू (आंध्र प्रदेश) धंगरी गज (महाराष्ट्र) बधाई (मध्य प्रदेश) पंथी (छत्तीसगढ़)	15 15 15 10 15	- - - 05 -	ग्रामीण	--	क्रम सं 87 के व्यय सहित	2000	श्री मुरगनी सत्यनारायण मंडल अध्यक्ष
88	लोक कला यात्रा	दुल्ला (आंध्र प्रदेश)	28.10.2015	दप्पू (तेलंगाना) गरेलू (आंध्र प्रदेश) धंगरी गज (महाराष्ट्र) बधाई (मध्य प्रदेश) पंथी (छत्तीसगढ़)	15 15 15 10 15	- - - 05 -		--	क्रम सं 87 के व्यय सहित	2000	श्री सत्य नारायण जी और श्री एन वी.वी. मूर्ति, एम पी डी ओ, दुल्ला, कदियम
89	लोकरंग महोत्सव	जयपुर (राजस्थान)	28.10.2015 से 31.10.2015	बधाई/नोरता (मध्य प्रदेश) ढोलू कुनिथा(कर्नाटक) पंथी नृत्य (छत्तीसगढ़)	08 15 15	07 -- --	--	1	3,90,831/-	--	कार्यक्रम जवाहर कला केंद्र द्वारा आयोजित केन्द्र तीन मंडलियों को प्रायोजित किया।
90	आनंदम	नागपुर महाराष्ट्र	01.11.2015 से 30.11.2015	योग	25	40	--	शहरी		65	नियमित गतिविधि
91	मुझे भी कुछ कहना है.	नागपुर महाराष्ट्र	01.11.2015	गायन, सुगम संगीत	09	03		शहरी	5,000/-	100	नियमित गतिविधि

92	राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव	आई जी एन ए सीनई दिल्ली	01.11.2015 से 08.11.2015	सौंगी मुखौटे गुडुम बाजा गौर मारिया पंथी बधाई लेज़िम राय शिव मुद्रा ढोलकबीर गायनताल वाद्य कचेरी सांस्कृतिकप्रश्नोत्तरी रंगोलीपारंपरिक पेंटर(आँगन)	16 16 10 16 10 09 11 45 07 03 03 07 20	-- - 06 -- 06 06 04 10 -- -- - 03 05	-	शहरी	49,63,311/-	4000 प्रति दिन	डॉ. वेंकैया नायडू, माननीय शहरी विकास आवास मंत्री, श्रीमति सुषमा स्वराज, विदेशमंत्री प्रवासी भारतीय मामलों मंत्री, डॉ. महेश शर्मा, माननीय संस्कृति मंत्री और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति
93	उत्कल बंगा उत्सव -2015	चंदेश्वर महाविद्यालय, परिसर, साहबजी पुर ओडिशा	18.11.2015 से 20.11.2015	गेदी नृत्य (छत्तीसगढ़) भगोरिया मध्य प्रदेश	15 07	-- 08	-	शहरी	1,74,050/-	2500	कार्यक्रम उत्कल बंगा उत्सव समिति द्वारा आयोजित,
94	जनभेरी राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव	थ्रिस्सुर केरल	20.11.2015	एक नाटक द ट्रांसपेरेंट ट्रैप पुणे महाराष्ट्र			--	शहरी	45,000/-	1500	जनभेरी राष्ट्रीय रंगमंच, केरल की ओर से आयोजित कार्यक्रम
95	पचमढ़ी उत्सव	पचमढ़ी मध्य प्रदेश	20.11.2015 से 22.11.2015	बीहू(असम)	07	08	ग्रामीण	--	1,26,171/-	3,000	जिला प्रशासन, होशंगाबाद द्वारा आयोजित कार्यक्रम
96	नृत्य - जठरे (नृत्य राष्ट्रीय महोत्सव)	चित्रा कला परिषद बैंगलोर	21.11.2015 से 22.11.2015	श्रीमति शमा भाटे पुणे और समूह स्थानीय समूह	- 15	06 20	--	शहरी	50,000/-	2500	कार्यक्रम शाम्भवी नृत्य स्कूल, बैंगलोर द्वारा आयोजित
97	राष्ट्रीय संस्कृत परिषद(अष्टपैलू कालिदास)	नागपुर	22.11.2015	सेमीनार	03	01	--	शहरी	55,062/-	400	कार्यक्रम कवि कुल गुरु कालिदास संस्कृत महाविद्यालय ,रामटेक द्वारा आयोजित

98	पारम्परिक भित्ति चित्र कार्यशाला	नागपुर	23.11.2015 से 29.11.2015	वार्ली महाराष्ट्र राजवाड़(छत्तीसगढ़)भील मध्य प्रदेशगोंड मध्य प्रदेशपारंपरिक भित्ति(कर्नाटक)मधुबनी (बिहार)	04 05 04 04 04 1	02 01 02 02 - 5	--	शहरी	4,40,000/-	1000	श्रीमती मानकी बाई वायदा, राज्य पुरस्कार विजेता वारली चित्रकारी
99	गणतंत्र दिवस परेड बाल समूह रिहर्सल	नागपुर	24.11.2015 से 15.12.2015	सौंगी मुखौटेमहाराष्ट्रगुसादी (आंध्र प्रदेश)प्रतिभागीलड़के(विभिन्न स्कूलों से)	08 08 80	-- -- 70	--		क्रम सं 139 के व्यय सहित	200 प्रति दिन	
100	मण्डाई मेला उत्सव	मोहलामानपुर (जिला-राजनांदगांव(छत्तीसगढ़)	29.11.2015 से 01.12.2015	बिहू नृत्य (असम)	07	08	ग्रामीण	--	97,666/-	--	जिला प्रशासन राजनांदगांव(छत्तीसगढ़) द्वारा आयोजित कार्यक्रम
101	आनंदम	नागपुर महाराष्ट्र	01.12.2015 से 31.12.2015	योग	25	40	--	शहरी		65	नियमित गतिविधि
102	मुझे भी कुछ कहना है.	नागपुर महाराष्ट्र	06.12.2015	गायन, सुगम संगीत	09	03		शहरी	5,000/-	100	नियमित गतिविधि

103	चित्रकला कार्यशाला	नागपुर	06.12.2015 से 15.12.2015	वार्ली पेंटिंग महाराष्ट्र मधुबनी शैली (बिहार)राजस्थानी (पिछवाई, गणगौर)ओडिशा पट चित्रा(सुरपुर शैली)कर्नाटक	7	28	-	शहरी	10,88,667/-	-	
104	राष्ट्रीय शिल्प मेला	एन सी जेड सी सी, इलाहाबाद	7.12.2015 से 09.12.2015	ढोलू कुनिता	15	--	--	शहरी	--	--	उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, इलाहाबाद द्वारा आयोजित कार्यक्रम
105	चित्रकारों का शिविर कुरुक्षेत्र उत्सव	कुरुक्षेत्र	11.12.2016 से 20.12.2015	चित्रकार	01	-	-	शहरी	-	-	उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पटियाला की ओर से आयोजित कार्यक्रम
106	ब्रह्मनाद	नागपुर	12.12.2015	शुजात खान (सितार)डॉ. कल्याणी देशमुख(गायन)	05	03	-	शहरी	3,50,000/-	450	नियमित गतिविधि
107	गीता जयंती महोत्सव	कुरुक्षेत्र	17.12.2015 से 21.12.2015	राइ नृत्य ढोलू कुनिता	09 15	06 --	--	शहरी	2,53,356/-	--	कार्यक्रम सूचना, जनसम्पर्क एवं सांस्कृतिक मामले, विभाग, हरियाणा द्वारा आयोजित
108	लोक कला यात्रा (जिला - कारवार)	सदशिवगद (कर्नाटक)	20.12.2015	सौंगी मुखौटे महाराष्ट्र सुगी कुनिथा कर्नाटक मिमिक्री (कर्नाटक) थात्य – मध्य प्रदेश लावनी- महाराष्ट्र घुमर – हरियाणा	15 15 03 09 09	-- -- -- 06 06	ग्रामीण	--	7,74,981/-	800	श्री विजय कुमार घोष का उद्घाटन, भा.प्र.से., उप आयुक्त कारवार (कर्नाटक)
109	लोक कला यात्रा	अवेसा (कर्नाटक)	21.12.2015	सौंगी मुखौटे महाराष्ट्र सुगी कुनिथा कर्नाटक मिमिक्री (कर्नाटक) थात्य – मध्य प्रदेश लावनी- महाराष्ट्र घुमर – हरियाणा	15 15 03 09 09	-- -- -- 06 06	ग्रामीण	--	क्रम सं 109 के व्यय सहित	600	श्री माधव नाइक ,समाज सेवक द्वारा उद्घाटन

110	लोक कला यात्रा	अमदाली (कर्नाटक)	20.12.2015	सौंगी मुखौटे महाराष्ट्र सुगी कुनिथा कर्नाटक मिमिक्री (कर्नाटक) थात्य – मध्य प्रदेश लावनी- महाराष्ट्र घुमर – हरियाणा	15 15 03 09 09	-- -- -- 06 06	ग्रामीण	--	क्रम सं 109 के व्यय सहित	1000	डॉ. आर जमादद्नी, पी ओ. कर्नाटक लोक विश्वविद्यालय, दंदेली द्वारा उद्घाटन
111	वसंत बहार	रविंद्र नाट्य मंदिर, प्रभादेवी मुंबई	22.12.2015	युवा कला मंच, मुंबई महेश शेडगे अनिल कार्लेकर जगदीश मायेकर प्रशांत ललितदीपक बोरकरप्रफुल्ल पावसकरसंजय ठाकुरसलाका ठाकुरप्रीतम पूरव डी.डी. पूरव संतोष पांचाल	7 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1	8 - - - - - - 1 - 1 -	--	शहरी	69,700/-	1500	कार्यक्रम द.म.क्षे.सां.के. के सहयोग से सांस्कृतिक मामले, मुंबई विभाग द्वारा आयोजित, नागपुर
112	कारवार एक आदाब (अखिल भारतीय मुशायरा)	नागपुर	23.12.2015	अनवर जल पुरीगोपालदास नीरजआलोक श्रीवास्तव सुनील कुमार तांगसोनिया फादलीसमीर कबीरशीन काफ निजाम	1 1 1 1 1 1 1	--	--	शहरी	7,51,205/-	2000	नियमित गतिविधि
113	महाराष्ट्र दर्शन	विश्विद्यालय सांस्कृतिक केंद्र	26.12.2015	वारसा संस्कृतीचा महाराष्ट्र	12	08	--	शहरी	30,37,659/-	800	श्री देशपांडे, अध्यक्ष, साणंद द्वारा उद्घाटन, इंदौर

114	महाराष्ट्र दर्शन	नवनास कोल्हे समुदाय भवन, राम नगर इंदौर	26.12.2015	धन्गारी गज सोंगी मुखौटे कोली नृत्य कोरकू नृत्य लिंगो नृत्य पोवाडा खंजरी वादन भरुद	20 20 12 08 15 09 04 02	-- -- 08 11 05 01 04 05	--	शहरी	क्रम सं 114 के व्यय सहित	1000	
115	महाराष्ट्र दर्शन (वारली चित्रकारी कार्यशाला)	श्री माधव विश्विद्यालय	26.12.2015 से 29.12.2015	वार्ली चित्रकारी कलाकार ठाणे महाराष्ट्र से	04	01	--	शहरी	क्रम सं 114 के व्यय सहित	1000	
116	महाराष्ट्र दर्शन (संस्कार भारती रंगोली कार्यशाला)	विश्विद्यालय सांस्कृतिक केंद्र, इंदौर	26.12.2015 से 29.12.2015	रंगोली कलाकार महाराष्ट्र - नागपुर और वार्ली चित्रकार	3 5	4	--	शहरी	क्रम सं 114 के व्यय सहित	1000	
117	महाराष्ट्र दर्शन	विश्विद्यालय सांस्कृतिक केंद्र, इंदौर	27.12.2015	संतवानी - पुणे	04	01	--	शहरी	क्रम सं 114 के व्यय सहित	1000	
118	महाराष्ट्र दर्शन	विश्विद्यालय सांस्कृतिक केंद्र, इंदौर	27.12.2015	जय जय गौरी शंकर (संगीतमय नाटक)	17	03	--	शहरी	क्रम सं 114 के व्यय सहित	800	
119	महाराष्ट्र दर्शन	समर्थ पथ पंत वैद्य कॉलोनी, इंदौर	27.12.2015	धन्गारी गज सोंगी मुखौटे कोली नृत्य कोरकू नृत्य लिंगो नृत्य पोवाडा खंजरी वादन भरुद	20 20 12 08 15 09 04 02	-- -- 08 11 05 01 04 05	--	शहरी	क्रम सं 114 के व्यय सहित	750	

120	अखिल भारतीय क्राफ्ट मेला	शिल्प ग्राम, हैदराबाद	27.12.2015 से 30.12.2015	रास लीला / मोब्जोय नृत्य पंथी नृत्य लावनी नृत्य कथई नृत्य	11 15 09 15	07 -- 06 --	--	शहरी	4,35,027/-	--	कार्यक्रम शिल्प ग्राम, शिल्प कला और सांस्कृतिक सोसायटी द्वारा आयोजित
121	महाराष्ट्र दर्शन	विश्विद्यालय सांस्कृतिक केंद्र, इंदौर	28.12.2015	धन्गारी गज सोंगी मुखौटे कोली नृत्य कोरकू नृत्य लिंगो नृत्य पोवाडा खंजरी वादन भरुद	20 20 12 08 15 09 04 02	-- -- 08 11 05 01 04 05	--	शहरी	क्रम सं 114 के व्यय सहित	1000	
122	महाराष्ट्र दर्शन	आनंद मोहन माथुर सभागृह, इंदौर	29.12.2015	धन्गारी गज सोंगी मुखौटे कोली नृत्य कोरकू नृत्य लिंगो नृत्य पोवाडा खंजरी वादन भरुद	20 20 12 08 15 09 04 02	-- -- 08 11 05 01 04 05	--	शहरी	क्रम सं 114 के व्यय सहित	1000	
123	महाराष्ट्र दर्शन	विश्विद्यालय सांस्कृतिक केंद्र, इंदौर	29.12.2015	लावनी नृत्य	06	04	--	शहरी	क्रम सं 114 के व्यय सहित	800	
124	सांस्कृतिक कार्यक्रम	हिंदी विश्विद्यालय , वर्धा	30.12.2015	पद्मश्री प्रहलाद तिपनिया	05	--	--	शहरी	1,00,000/-	850	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, वर्धा द्वारा आयोजित कार्यक्रम

125	अखिल भारतीय मेगा लोक मार्शल आर्ट्स महोत्सव शौर्य पर्व	रामनगर (कर्नाटक)	31.12.2015 से 03.01.2016	कर्रासमु कला (आंध्र प्रदेश) अखाड़े करतब(छत्तीसगढ़) अखाड़े मध्य प्रदेश थांग टा (मणिपुर)	15 15 15 15	-- -- -- --	--	शहरी	4,54,500/-	---	कार्यक्रम कर्नाटक सहसा कला अकादमी, रामनगर, बैंगलोर द्वारा आयोजित
126	आनंदम	नागपुर महाराष्ट्र	01.1.2016 से 31.1.2016	योग	25	40	--	शहरी		65	नियमित गतिविधि
127	मुझे भी कुछ कहना है.	नागपुर महाराष्ट्र	03.1.2016	गायन एवं सुगम संगीत	09	03		शहरी	5,000/-	100	नियमित गतिविधि
128	24 वां ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला	नागपुर महाराष्ट्र	8.01.2016 से 12.01.2016	घुमर नृत्य(हरियाणा) रंन्नापा तेरालाली / भवाई छऊ नृत्य थापता गुल्लू पोवाडा,पद्वानी थपेता गायन भरुद,मांग नियार बाजीगर बायोस्कोप तोतावाले बहुरुपिया शिल्पकार भोजन स्टाल	07 16 08 16 15 07 07 06 08 08 -- 02 08 178 28	08 -- 07 - - - 01 -- -- -- 2 -- --	--	शहरी	1,09,81,083/-	3000 प्रति दिन	श्री चंद्रशेखर बावनकुले, संरक्षक, मंत्री महाराष्ट्र सरकार द्वारा उद्घाटन तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति
129	सलानगाई नादाम और अखिल भारतीय क्राफ्ट मेला	थंजावुर	09.01.2016 से 17.01.2016	गुडुम बाजा मध्य प्रदेश लावनी नृत्य महाराष्ट्र	15 07	-- 08	--	शहरी	--	--	कार्यक्रम दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक कैंद्र, तंजावुर द्वारा आयोजित
130	ब्रह्मनाद	नागपुर महाराष्ट्र	01.01.2016	राम शंकर भिम्मना जाधव	03 01	--	-	शहरी	2,60,000/-	900	नियमित गतिविधि

131	24 वां ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला	नागपुर महाराष्ट्र	13.01.2016 से 16.01.2016	मेवासी नृत्य रासलीला और पुंग चोलम कालबेलिया नृत्य और चारीकुद नृत्य भांगड़ा और गिद्दा नृत्य कजरी गायन बाजीगर बायोस्कोप तोतावाले बहरूपिया शिल्पकार भोजन स्टाल	11 07 06 15 08 06 08 -- 02 08 178 28	10 06 07 - 08 01 -- 2 -- --	--	शहरी	क्रम सं 129 के व्यय सहित	2500 प्रति दिन	
132	खाद्य महोत्सव	धारवाड़ (कर्नाटक)	14.01.2016 से 16.01.2016	बधाई नृत्य मध्य प्रदेश धंगरी गज महाराष्ट्र	08 15	07 --	--	शहरी	1,34,961/-	600 प्रति दिन	श्री महेश शेट्टी, अध्यक्ष, खाद्य महोत्सव 2016 द्वारा उद्घाटन
133	24 वां ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला	नागपुर महाराष्ट्र	17.01.2016	नौरंगी नटनी (लोक नाटक) लावणी नृत्य बाजीगर बायोस्कोप तोतावाले बहरूपिया शिल्पकार भोजन स्टाल	04 12 08 -- 02 08 178 28	01 08 -- 2 -- --		शहरी	क्रम सं 129 के व्यय सहित	2000	

134	सांस्कृतिक संध्या	सी.पी. क्लब, नागपुर	21.01.2016	पंथी नृत्य छ.ग .लावणी नृत्य महाराष्ट्र बधाई/नोरता मध्य प्रदेश	15 07 07	-- 08 08	--	शहरी	1,65,000/-	800	मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार द्वारा कार्यक्रम उद्घाटन
135	महिला "विश्व लोक कला"	रविंद्र कलाक्षेत्र बैंगलोर	22.01.2016 से 24.01.2016	ढोलू कुनिथा	--	09	-	शहरी	33,200/-	--	कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक फाउंडेशन, बैंगलोर द्वारा आयोजित
136	ग्राम महोत्सव	गोधन गांव	23.01.2016 से 25.01.2016	पंथी नृत्य लावणी नृत्य बधाई नृत्य	15 08 07	-- 07 08	ग्रामीण	-	1,92,633/-	--	सावंतवाडी संस्थान, गोधन गांव द्वारा आयोजित कार्यक्रम
137	भारत चीन संगीत पर कार्यशाला	नागपुर महाराष्ट्र	23.01.2016	चीनी भारतीय	08 08	-- --	-	शहरी	--		
138	आर.डी. परेड बच्चों की टुकडी पूर्वाभ्यास - 1 और पूर्वाभ्यास - द्वितीय	राज पथ नई दिल्ली नागपुर नई दिल्ली	26.01.2016 10.12.2015 से 25.12.2015 04.01.2016 से आगे	नृत्य विशेषज्ञ सौंगी मुखौटे कोरियोग्राफर सहायक शिक्षक समन्वयक लड़कों लड़कियाँ	08 1 8 76	1 3 67	--	शहरी	61,41,586/-		श्री फ्रेंकोइस होल्लांदे फ्रांस के माननीय राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के माननीय राष्ट्रपति, श्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री, और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में
139	लोक रंग	भोपाल मध्य प्रदेश	27.01.2016 से 28.01.2016	लावणी नृत्य महाराष्ट्र मथुरी नृत्य आ.प्र.	07 07	08 08	--	शहरी	1,08,488/-	1500 प्रति दिन	कार्यक्रम आदिवासी लोक कला और बोली विकास अकादमी , मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित
140	रंग बुन्देली	खजुराहो मध्य प्रदेश	28.01.2016	श्री मुन्ना लाल सैनी बाबूलाल राजपूत श्रीमति शकुंतला राजपूत और अन्य	01 01 03	-- -- 01	ग्रामीण	--	77,278/-	500	

141	कलाकारी (बुंदेली पारंपरिक कला के लिए प्रतियोगिता)	खजुराहो मध्य प्रदेश	29.01.2016	विभिन्न स्कूलो से 160 छात्र	120	40	ग्रामीण	-	18,000/-	500	विशेषज्ञ निर्णायक श्री बहादुर सिंह परमार, प्रधानाचार्य सरकारी कॉलेज राजनगर श्रीमति पवन सिंह, बुंदेली चित्रकला कलाकार
142	राजस्थानी लोक गीत और सूफी गायन	चंद्रपुर महाराष्ट्र	29.01.2016	श्री पवार मुंबई से और उनका समूह	12	08	ग्रामीण	-	80,000/-	800	
143	ड्रम्स ऑफ इंडिया	सरकारी जूनियर कॉलेज मैदान, रामनगर(कर्नाटक)	29.01.2016	बनचारी नगाड़ा ढोल ढोलक चोलोम - मणिपुर गुड्डुम बाजा धप्पू नृत्य	10 15 15 15	-- -- -- --	--	शहरी	5,94,462	800	निदेशक, एन एस.डी.बैंगलोर द्वारा कार्यक्रम उद्घाटन
144	अभिनंदन समारोह (आर.डी. परेड बच्चों की टुकडी - 1 पुरस्कार विजेता	केंद्र परिसर, नागपुर	29.01.2016	सौंगी मुखौटे बच्चों द्वारा नृत्य प्रस्तुति लड़के लड़कियाँ	76	67	-	शहरी			श्री बनवारी लाल पुरोहित, मध्य प्रदेश द्वारा उद्घाटन
145	ड्रम्स ऑफ इंडिया	बिदादी (कर्नाटक)	30.01.2016	बनचारी नगाड़ा ढोल ढोलक चोलोम - मणिपुर गुड्डुम बाजा धप्पू नृत्य	10 15 15 15	-- -- -- --	--	शहरी	क्रम सं 144 के व्यय सहित	500	
146	ड्रम्स ऑफ इंडिया	इनोवेटिव फिल्म सिटी (कर्नाटक)	31.01.2016	बनचारी नगाड़ा ढोल ढोलक चोलोम - मणिपुर गुड्डुम बाजा धप्पू नृत्य	10 15 15 15	-- -- -- --	--	शहरी	क्रम सं 144 के व्यय सहित	300	
147	लोक रंगमंच महोत्सव	शिल्पग्राम खजुराहो	31.01.2016	श्री राकेश तिवारी द्वारा छत्तीसगढ़ी लोक रंगमंच रायपुर	18	--	ग्रामीण	-	95,000/-	500	श्री राकेश तिवारी द्वारा उद्घाटन,
148	आनंदम	नागपुर महाराष्ट्र	01.2.2016 से 29.2.2016	योग	25	40	--	शहरी		65	नियमित गतिविधि

149	इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू	विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)	02.02.2016 से 06.02.2016 04.02.2016 05.02.2016 06.02.2016	बिहू सिद्धि धमाल भांगड़ा/गिद्दा थापेत्ता गुल्लू घूमर , फाग पुंग चोलम पद्मभूषण राजा राधा रेड्डी- कुचिपुड़ी पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति अदिति भागवत और समूह बहरूपि कठपुतली बाजीगर काछी घोड़ी रंगोली शिल्पकार भोजन स्टॉल	08 16 10 16 15 08 12 08 12 07 10 08 08 06 110 34	07 -- 10 -- 08 12 -- -- 02	--	शहरी	99,00,000	25000 प्रति दिन	04 मार्च 2016 को श्री चन्द्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री तथा 06 मार्च 2016 को श्री नरेंद्र मोदी, भारत माननीय प्रधान मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति .
150	चलो मन गंगा जमुना तीर(माघ मेला)	इलाहाबाद	04.02.2016 से 06.02.2016	तपेत्ता गुल्लू आ.प्र. डोल्लू कुनिथा कर्नाटक	15 --	-- 15	--	शहरी	--	--	उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, इलाहाबाद द्वारा आयोजित कार्यक्रम
151	चिकलधारा पर्यटन महोत्सव	चिकलधारा महाराष्ट्र	6.02.2016 से 07.2016	लावणी महाराष्ट्र भांगड़ा (पंजाब)	07 15	08 --	ग्रामीण	--	1,39,955/-	600 प्रति दिन	चिकलधारा

152	काला घोडा उत्सव	काला घोडा मार्ग, मुम्बई	6.02.2016 से 14.02.2016	कटपुतली का कार्यक्रम बहरूपि कच्ची घोड़ी कालबेलिया नृत्य आदिवासी नृत्य	05 5 4 03 02	 03 04	--	शहरी	1,34,900/-	2500 प्रति दिन	कार्यक्रम सांस्कृतिक मामलों के विभाग, मुंबई द्वारा आयोजित। केंद्र ने कलाकारों को प्रायोजित किया
153	मुझे भी कुछ कहना है.	नागपुर महाराष्ट्र	07.2.2016	गायन एवं सुगम संगीत	09	03		शहरी	5,000/-	100	नियमित गतिविधि
154	इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू	विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)	07.02.2016 से 10.02.2016 08.02.2016 09.02.2016	द्नागी नृत्य छाऊ मयूर होली / चाकुला रऊफ नृत्य तेरा ताली पंथी जोगी हो गया कालबेलिया / भावा मंगियर मार्शल आर्ट पंच वाद्य मलखम्ब पं. राकेश चौरसिया और समूह पद्मश्री विजय घाटे और समूह शमा भाटे और समूह शिल्पकार भोजन स्टॉल	11 15 08 07 07 16 13 07 11 30 10 21 06 14 110 34	10 - 10 08 08 - - 08 - - - - - -	--	शहरी	क्रम सं 150 के व्यय सहित	25000 प्रति दिन	
155	लोकोत्सव	बंगलोर (कर्नाटक)	13.02.2016 से 14.02.2016	बैगा कर्म भील नृत्य	07 15	08	--	शहरी	2,00,000/-		कर्नाटक जनपद, बैंगलोर की ओर से आयोजित कार्यक्रम

156	मेक इन इंडिया	मुम्बई	13.02.2016 से 18.02.2016	डोल्लू कुनिथा बधाई नृत्य पंडवानी गायन मलखम्ब क्रिएटिव रंगोली मुंबई से 4 कलाकारों पारंपरिक मास्क 2 कलाकारों बनाना - वारंगल (आंध्र प्रदेश)	15 08 07 12 04 02	-- 07 01 08	--	शहरी	8,49,514/-	5000 प्रति दिन	श्री नरेंद्र मोदी भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया।
157	डिस्कवर नॉर्थ ईस्ट - 2016	त्रिपुरा	13.02.2016 से 15.02.2016	गौर मारिया (छत्तीसगढ़)	07	08	--	शहरी	--	--	कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, दीमापुर द्वारा आयोजित। एन सी ई पी के नियमों के अंतर्गत केंद्र ने कलाकारों को प्रायोजित किया ।
158	बुंदेली पारंपरिक कला रूपों के लिए प्रतियोगिता	खजुराहो मध्य प्रदेश	13.02.2016	स्कूली बच्चे	25	11	ग्रामीण	-	18,000/-	500	पारंपरिक लोक गायन प्रतियोगिता
159	ब्रह्मनाद	नागपुर	14.02.2016	श्री अशोक चक्रधर(नई दिल्ली) पं. उल्हास कशालकर कोलकाता	1 5	1	--	शहरी	5,71,263/-	500	नियमित गतिविधि
160	अम्बेडकरी जलसा	मुंबई	17.02.2016 से 18.02.2016	पद्मश्री भारती बंधु अभिजीत कोसाम्बी	04 9	-- 4	--	शहरी	2,32,000/-		कार्यक्रम सांस्कृतिक मामलों के विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित।
161	लोपमुद्रा	अमरावती	17.02.2016 से 21.02.2016	पंथी नृत्य	15	--	--	शहरी	86,875/-	--	कार्यक्रम कैनवास फाउंडेशन, अमरावती द्वारा आयोजित
162	बिलास महोत्सव	बिलासपुर (छत्तीसगढ़)	19.02.2016 से 21.02.2016	सिला कर्मा मध्य प्रदेश सौंगी मुखौटे	08 15	07	--	शहरी	1,26,017/-	--	बिलास महोत्सव द्वारा आयोजित कार्यक्रम

163	अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह	ग्वालियर मध्य प्रदेश	19.02.2016 से 21.02.2016	अमिता सिन्हा महापात्रा सुखंड मुंडे और रुशिशंकर उपाध्याय इवान तुन्ज़लकर पद्म श्री वसिफुद्दीन डागर डॉ, ऋत्विक सान्याल श्री साव इनोवे विशाल भत्रेइ पं. डालचंद शर्मा नैन्शी लेश पं. उमाकांत रमाकांत गुंडेचा बन्धु अफज़ल हुसेन / राजेश सेंध (जुगलबंदी) पुष्कराज कश्ती i उदय भवालकर प्रेमकुमार मलिक उस्ताद सयीदुद्दीन	03 02 04 03 02 02 03 03 04 05 04 05 06 03	03 -- 02 01 02 -- -- -- 01 -- -- 01 02 01	--	शहरी	22,82,810/-	--	दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर द्वारा ध्रुपद संस्थान भोपाल, सांस्कृतिक मामले , मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग के साथ कार्यक्रम आयोजित 01/04/2015 से 31/03/2016 की गतिविधि रिपोर्ट में शामिल
164	कला ग्राम महोत्सव	औरंगाबाद	20.02.2016 से 22.02.2016	ढोलू किनिथा लावणी सौंगी मुखौटे पंथी ककसर सैल कर्मा गुसादी भगोरिया गर्गालू	15 08 15 15 08 08 08 08 08	-- 07 - -- 07 07 07 07 07	--	शहरी	6,77,068	-	कार्यक्रम सांस्कृतिक मामलों के विभाग, महाराष्ट्र सरकार और द.म.क्षे.सां.के., नागपुर द्वारा आयोजित।

165	बुंदेली उत्सव (पारंपरिक मेलों और महोत्सव)	बसरी जिला-छतरपुर	20.02.2016 से 22.02.2016	ककसर सौंगी मुखौटे	08 15	07 --	ग्रामीण	--	1,50,000/-		बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रतिष्ठित कार्यक्रम
166	डिस्कवर नॉर्थ ईस्ट - 2016	मणिपुर	22.02.2016 से 24.02.2016	पंथी नृत्य छ.ग.	15	-	--	शहरी	--	--	कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, दीमापुर द्वारा आयोजित। एन सी ई पी के नियमों के अंतर्गत केंद्र ने कलाकारों को प्रायोजित किया ।
167	खजुराहो नृत्य महोत्सव	खजुराहो मध्य प्रदेश	20.02.2016 से 26.02.2016	पुरवा धनाश्री मधु नटराज प्रतीक्षा काशी अल्पना वाजपेयी दीपिका रेड्डी	03 02 03 04 06	02 03 03 04 06	ग्रामीण	--	7,50,000--		उस्ताद अलाउद्दीन कला अकादमी कार्यक्रम, भोपाल. सांस्कृतिक मामलों का विभाग. मध्य प्रदेश सरकार और दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम 01/04/2015 से 31/03/2016 के लिए गतिविधि रिपोर्ट
168	डिस्कवर नॉर्थ ईस्ट - 2016	नागालैंड	22.02.2016 से 24.02.2016	बधाई नृत्य मध्य प्रदेश	07	08	--	शहरी	--	--	कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, दीमापुर द्वारा आयोजित। एन सी ई पी के नियमों के अंतर्गत केंद्र ने कलाकारों को प्रायोजित किया ।
169	मां नवचंडी मेला उत्सव	खंडवा मध्य प्रदेश	25.02.2016 से 27.02.2016	बोनालू (आंध्र प्रदेश) राउत नाच (छत्तीसगढ़) छाव नृत्य	06 15 15	09 -- --	ग्रामीण	--	2,44,716/-	--	मां नव चंडी देवी धाम शक्ति पीठ, खण्डवा द्वारा आयोजित कार्यक्रम
170	पारंपरिक बुंदेली कला का रूप (कवि सम्मेलन)	खजुराहो मध्य प्रदेश	28.02.2016	डॉ. अवध किशोर जरिया डी.पी. पारदर्शी , महेश कटारे और अन्य	10	-	ग्रामीण	-	45,000/-	500	श्रीमति कविता सिंह, अध्यक्ष नगर परिषद खजुराहो द्वारा उद्घाटन,

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर

01.04.2015 से 31.03.2016 के लिए गतिविधि रिपोर्ट

171	आनंदम	नागपुर महाराष्ट्र	01.3.2016 से 31.03.2016	योग	25	40	--	शहरी		65	नियमित गतिविधि
172	राजिम कुम्भ	राजिम (छतीसगढ़)	01.03.2016 से 05.03.2016	गोतीपुआ ओडिशा चाव (प.ब.) बोनालू(आंध्र प्रदेश) बैगा करमा मध्य प्रदेश	16 15 15 08	-- -- -- 07	--	शहरी	3,83,410	--	संस्कृति विभाग, छ.ग. सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम
173	मुझे भी कुछ कहना है.	खजुराहो मध्य प्रदेश	04.3.2016	गायन एवं सुगम संगीत, चुटकुले	13	08	ग्रामीण	--	10,000/-	500	नियमित गतिविधि
174	मुझे भी कुछ कहना है.	नागपुर महाराष्ट्र	06.3.2016	गायन एवं सुगम संगीत	08	03		शहरी	5,000/-	100	नियमित गतिविधि
175	पारंपरिक मेले और महोत्सव में भागीदारी	खजुराहो मध्य प्रदेश	09.03.2016	सुगम संगीत	08	02	ग्रामीण	-	20,000/-	2000	श्रीमति कविता सिंह अध्यक्ष नगर परिषद, खजुराहो श्री अरुण पटेरिया मुख्य नगरपालिका अधिकारी, खजुराहो की उपस्थिति में कार्यक्रम का उद्घाटन
176	खुफिया जानकारी जुटाने और जांच की आधुनिक तकनीके	एन ए डी टी नागपुर	10.03.2016	सुगम संगीत कार्यक्रम				शहरी	40,000/-		कार्यक्रम एन ए डी टी, नागपुर द्वारा आयोजित
177	रसरंग (सूफी, गजल और कव्वाली)	रायपुर (छतीसगढ़)	11.03.2016 से 13.03.2016	पेनाज़ मसानी (गजल) असलम साबरी (कव्वाली) हंसराज हंस (सूफी गायन)	16	01	--	शहरी	13,13,880/-	2500 प्रति दिन	श्री मिश्रा पूर्व प्रमुख सचिव छतीसगढ़ सरकार द्वारा श्री अग्रवाल वित्त सचिव छतीसगढ़ सरकार की उपस्थिति में कार्यक्रम का उद्घाटन

178	ब्रह्मनाद	नागपुर	13.03.2016	पद्म श्री उमाकांत रमाकांत गुंडेचा ब्रदर्स (ध्रुपद गायन) साथ जुगलबंदी इजिनो ब्युनोरी(सेक्सोफोन) कर्नामृत्य दासी द्वारा श्रीमतिविजिनिया निकोली (रजत बांसुरी) (इटली) और भक्ति गीत (यूएसए)	05	02	--	शहरी	3,15,467/-	400	नियमित गतिविधि। श्री अनूप कुमार, संभागीय आयुक्त , नागपुर द्वारा उद्घाटन
179	महाशिवरात्रि महोत्सव	तंजावुर	13.03.2016	सुश्री रमिंदर खुराना - ओडिसी नृत्यांगना	03	02	-	शहरी	60,000/-	--	कार्यक्रम ब्रहण नाट्यान्जली फाउंडेशन, तंजावुर द्वारा आयोजित
180	राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव	गुब्बी (कर्नाटक)	16.03.2016	नचा (छत्तीसगढ़ी शैली) दशावतार महाराष्ट्र	18 15	-- --	ग्रामीण	--	2,78,693/-	-	कार्यक्रम डॉ गुब्बी वीरन्ना ट्रस्ट, गुब्बी(कर्नाटक) द्वारा आयोजित.
181	स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना	केंद्र परिसर	17.03.2016 से 21.03.2016	बहरूपिया तोतेवाले (राज.)	08 02	--	--	शहरी	77,880/-	--	जिला ग्रामीण विकास यन्त्रणा द्वारा आयोजित कार्यक्रम
182	सांस्कृतिक कार्यक्रम	आयुध निर्माणी, चंदा	18.03.2016	लावणी नृत्य बधाई नृत्य कालबेलिया, मंगनियार	08 08 05	08 07 07	ग्रामीण		1,90,000/-		कार्यक्रम आयुध निर्माणी चंदा द्वारा आयोजित

183	29 वीं राष्ट्रीय समकालीन कला प्रदर्शनी	राज्य आर्ट गैलरी, मधापुर हैदराबाद	18.03.2016 से 27.03.2016	270 प्रदर्शनी के लिए प्रदर्शित पुरस्कार 5 वरिष्ठ श्रेणी- 2 लाख प्रत्येक 5 जूनियर वर्ग - 1 लाख रुपये जूनियर वर्ग के लिए 10 प्रायोजन पुरस्कार - 50,000 / - प्रत्येक पंचायत सुश्री अंजलि इला मेनन सुश्री रिनी धूमल और श्री एन. एन. रिम्जेन			--	शहरी	72,86,454/-	--	माननीय संस्कृति मंत्री, तेलंगाना सरकार द्वारा उद्घाटन किया।
184	कला और संस्कृति की पुस्तक प्रदर्शनी	राज्य आर्ट गैलरी, मधापुर हैदराबाद	18.03.2016 से 27.03.2016	5- पुस्तकों के स्टाल ललित कला अकादमी, दिल्ली संगीत नाटक अकादमी,दिल्ली साहित्य अकादमी,दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय योग सोसायटी, गाजियाबाद मेपिन प्रकाशनबंगलुरु	9	1	--	शहरी	क्रम सं 184 के व्यय सहित		माननीय संस्कृति मंत्री, तेलंगाना सरकार द्वारा उद्घाटन किया।
185	महाराष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ रंगोली का लाइव प्रदर्शन	राज्य आर्ट गैलरी, मधापुर हैदराबाद	18.03.2016 से 27.03.2016	समीर पेद्नेकर उदय, कल्पेश शुभदा	03	01	--	शहरी	1,15,000/-		

186	भारत की प्रसिद्द महिला कलाकारों द्वारा दृश्य और प्रदर्शन कला महोत्स्व	राज्य आर्ट गैलरी, मधापुर हैदराबाद	19.03.2016	जमीला निशांत उर्दू काव्य (तेलंगाना) ऋतु वर्मा पंडवानी गायन मंगला भट्ट कथक नृत्य (तेलंगाना)	07	04	--	शहरी	30,00,000/-	--	
187	ताप्ती महोत्सव	मुलताई मध्य प्रदेश	19.03.2016 से 20.03.2016	दंदर मध्य प्रदेश लावणी महाराष्ट्र पंडवानी (छत्तीसगढ़)	16 10 06	-- 06 01	ग्रामीण	--	98,030/-	--	सांस्कृतिक मामलों के विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम
188	भारत की प्रसिद्द महिला कलाकारों द्वारा दृश्य और प्रदर्शन कला महोत्स्व	राज्य आर्ट गैलरी, मधापुर हैदराबाद	20.03.2016	ऋतु वर्मा पंडवानी गायन यामिनी रेड्डी कुचिपुडी नृत्य (तेलंगाना)	10	02	--	ग्रामीण	क्रम सं 184 के व्यय सहित		
189	गणपतराव कावेठेकर संगीत समारोह	मिराज	20.03.2016	पं. हरविंदर शर्मा (सितार) पं. मिलिंद तुलनकर (जलतरंग) पं. रामदास पलसू (तबला)	04	--	--	शहरी	1,00,000/-		श्री गणपतराव कवठेकर संगीत समारोह समिति, मिराज द्वारा आयोजित कार्यक्रम
190	भारत की प्रसिद्द महिला कलाकारों द्वारा दृश्य और प्रदर्शन कला महोत्स्व	राज्य आर्ट गैलरी, मधापुर हैदराबाद	21.03.2016	चित्रनागना अगले - रेशवाल पखवाज मध्य प्रदेश सुचिस्मिता और देबोप्रिया - बांसुरी	02	03	--	शहरी	क्रम सं 184 के व्यय सहित		
191	भारत की प्रसिद्द महिला कलाकारों द्वारा दृश्य और प्रदर्शन कला महोत्स्व	राज्य आर्ट गैलरी, मधापुर हैदराबाद	22.03.2016	पद्म श्री मालिनी अवस्थी लोक संगीत (यूपी)	04	01	--	शहरी	क्रम सं 184 के व्यय सहित		

192	भारत की प्रसिद्द महिला कलाकारों द्वारा दृश्य और प्रदर्शन कला महोत्स्व	राज्य आर्ट गैलरी, मधापुर हैदराबाद	23.03.2016	पूजा कामद तेराताली , (राजस्थान)रिम्पा शिवा -तबला	06 01	06 01	--	शहरी	क्रम सं 184 के व्यय सहित		
193	भारत की विरासत (भारतीय अर्ध शास्त्रीय, लोक और वाद्य संगीत की झलक)	वासुकी सभागार नई दिल्ली	23.03.2016	डॉ. श्रीमती तनुजा नाफ्डे, और अन्यअर्ध शास्त्रीय गायन मोहंती - हारमोनियम जितेंद्र स्वेन तबला किरण कुमार शर्मा - बांसुरी मृदुल नाथ-सिंथेटिक्स आर्को गांगुली - काजोंन श्रीकांत बिस्वकर्मा - गिटार	06	01	--	शहरी	1,00,000/-	--	स्वरांजलि द्वारा द.म.क्षे.सां.के., नागपुर के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित
194	हिंदू युवा जन संगम की 111 वीं वर्षगांठ	एलुरु (आंध्र प्रदेश)	23.03.2016 से 25.03.2016	काकासर(छ.ग.) सोंगी मुखौटे महाराष्ट्र गणगौर मध्य प्रदेश कुचिपुडी	07 16 08 06	08 -- 10	ग्रामीण	--	2,85,208/-	--	कार्यक्रम हिन्दू युवा जन संगम द्वारा आयोजित.
195	भारत की प्रसिद्द महिला कलाकारों द्वारा दृश्य और प्रदर्शन कला महोत्स्व	राज्य आर्ट गैलरी, मधापुर हैदराबाद	24.03.2016	पूजा कामद तेराताली (राजस्थान) कलापनी कोमकली कबीर भजन	06 02	06 01	--	शहरी	क्रम सं 184 के व्यय सहित		
196	भारत की प्रसिद्द महिला कलाकारों द्वारा दृश्य और प्रदर्शन कला महोत्स्व	राज्य आर्ट गैलरी, मधापुर हैदराबाद	25.03.2016	वोल्गा-तेलुगु काव्य (आंध्र प्रदेश) पद्मश्री पेनाज़ मसानी - गज़ल महाराष्ट्र	02 04	01 01	--	शहरी	क्रम सं 184 के व्यय सहित		

197	लोक नाट्य उत्सव	शिल्पग्राम खजुराहो	26.03.2016	माच लोक रंगमंच	08	10	ग्रामीण	-	1,25,090/-	1000	कार्यक्रम का उद्घाटन श्री आर द्विवेदी, प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक , खजुराहो द्वारा किया गया
198	भारत की प्रसिद्द महिला कलाकारों द्वारा दृश्य और प्रदर्शन कला महोत्स्व	राज्य आर्ट गैलरी, मधापुर हैदराबाद	26.03.2016	ज्योति हेगड़े - रूद्र वीणा (कर्नाटक) गोपिका वर्मा मोहिनीअट्टम नृत्य	-- --	02 01	--	शहरी	क्रम सं 184 के व्यय सहित		
199	राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव -2015	विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)	29.03.2016 से 31.03.2016	गुडुम बाजा मध्य प्रदेश	15	--	--	शहरी	--	--	कार्यक्रम दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, तंजावुर द्वारा आयोजित
200	खार धूसर प्रतियोगिता	नागपुर महाराष्ट्र	31.03.2016	प्रतियोगिता कलाकार हास्य व्यंग कार्टून	21 02	02	--	शहरी	82,667/-	3500	श्री अनूप कुमार, आयुक्त, नागपुर डिवीजन श्री रविंद्र कदम, एसीपी, नागपुर श्री मिश्रा, प्रबंध निदेशक, डब्ल्यूसीएल, नागपुर द्वारा उद्घाटन किया गया

आंतरिक अनुबंध लेखा पध्दति पर्याप्त

1. वर्ष 2015–16 का आंतरिक लेखा परिक्षा किया गया। वार्षीक लेखा में काफी कमियां पायी गयी। केन्द्र के पास आंतरिक लेखा परिक्षण कक्ष नहीं है। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2011 के बाद आंतरिक लेखा परिक्षा नहीं किया गया।

2. **आंतरिक नियंत्रण पध्दति प्र्याप्त**

   आंतरिक नियंत्रण पध्दति काफी कमजोर है और केन्द्र की गतिविधीयों को देखते हुये वह परिणाम स्वरूप स्तुतीय नहीं है।

   (i) सांस्कृति मंत्रालय से प्राप्त निदेर्शानुसार C.B.I. के रिपोर्टनुसार दोषी कर्मचारीयों पर द.म.क्षे.सां.केन्द्र कोई कार्यवाही नही की गयी.

   (ii) केन्द्रीय स्वायत्त संस्था को लागु युनिफार्म लेखा फारमेट का केन्द्र अवलंब नहीं कर रहा है।

3. **परिसम्पत्तियाँ का वस्तुतः प्रामाणिकरण**

   परिसम्पत्त्यिों का वस्तुतः प्रमाणिकरण किया गया किंतु गुम हुयी कलाकृतियों पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुयी जिसे C.B.I. ने प्राथमिक जॉच में जानकारी दि थी। के दरम्यान निश्चित किया गया था।


4. चल संम्पतियों की वस्तुतः प्रामाणिकरण पध्दती

   केन्द्र ने चल सम्पत्तियों की वस्तुतः प्रामाणिकरण किया है।

5. **वैधानिक देयक भुगतान में नियमितता**

   द.म.क्षे.सां.केन्द्र ने समयानुसार वैधानिक देयक भुगतान नहीं किया है। सेवा शुल्क वापसी/आय शुल्क वापसी समय रहते नहीं फाईल की है। ऐजंसी से व्यावसायिक शुल्क और टी.डी.एस. वसुली उपरांत सरकार के खाते में समय पर नही जमा किया गया। इस केन्द्र द्वारा रू.9.74 लाख का भुगतान ब्याज/जुर्माना के तौर पर भरा गया ।

वर्ष 2015-16 में आयोजित कार्यक्रमों के छायाचित्र



वाको नाम कबीर महोत्सव, नागपुर: 16 से 18-10-2015



लोक कला यात्रा, आंध्र प्रदेश: 26 से 28-10-2015



ब्रह्मनाद, नागपुर: 13-12-2015




लोक कला यात्रा, महाराष्ट्र: 23 से 26-9-2015



इंदौर में मध्यदक्षिणी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम: 16 से 19-10-2015



भिंती चित्र कार्यशाला, नागपुर: 23 से 29-11-2015




आरेंज सिटी क्राफ्ट मेला, नागपुर: 08 से 17-01-2016



डॉ. वसंतराव देशपांडे संगीत समारोह, नागपुर: 17 से 19-08-2015

वर्ष 2015-16 में आयोजित कार्यक्रमों के छायाचित्र



मलवा उत्सव, इंदौर: 09 से 11-06-2015


पारंपारिक लोक चित्रकला कार्यशाला, नागपुर: 30-06 से 06-07-2015


लोक कला यात्रा, कर्णाटक: 20 से 22-12-2015


लोक कला दर्शन, रामटेक: 23 से 26-9-2015


लोक कला कार्यशाला, नागपुर : 07 से 12-12-2015



मुझे भी कुछ कहना है, नागपुर: 05-07-2015


लोक कला यात्रा, मध्य प्रदेश : 09 से 14-08-2015


लोक कला दर्शन, म.प्र.: 09-08-2015

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, वार्षिक लेखे (सुधारित) २०१५–१६

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र (SCZCC), नागपुर के लेखों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(I) तथा केंद्र के खंड 30(i) केअंतर्गत उपनियम को पढते हुए 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र(SCZCC), नागपुर (केंद्र) का संलग्न स्थिति का विवरण, आय व व्यय लेखा/प्राप्ति व भुगतान लेखा का लेखापरीक्षण सौपा गया है.लेखापरीक्षण का कार्य 2019-20 तक होना है इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी स्वायत्त निकाय प्रबंधन की है. हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत प्रगट करना है.

2. इस पृथक लेखापरीक्षा में वर्गीकरण को सिर्फ लेखाकर्म व्यवहार व उत्कृष्ठ लेखाकर्म अभ्यास,लेखाकर्म मानक और प्रकटीकरण के सिद्धांत इत्यादि सहित अनुपालन पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणीयां समाहित है . निरिक्षण रिपोर्ट/ भारत के नियंत्रक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के माध्यम से कानून,नियम व विनियम (उपयुक्तता व नियमितता) और दक्षता-सह निष्पादन पक्ष इत्यादि, यदि कोई हो तो,निरीक्षण प्रतिवेदन / भारत के नि.तथा लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से अलग से सूचित किया जाएगा.

3. हमने सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसरण में हमारे लेखापरीक्षा को निष्पादन किया है| इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम योजना बनाएं और लेखापरीक्षा निष्पादन करे और यह सुनिश्चित करें की वित्तीय विवरण किसी भी गलत विवरण सामग्री से मुक्त है| लेखापरीक्षण में जॉच के

आधार पर राशियों के समर्थन और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के साक्ष्यों का परीक्षण सम्मिलित है| लेखापरीक्षण में उपयोग मे लाये लेखाकर्म सिद्धांतों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा निर्मित अनुमानों की सार्थकता, साथ ही साथ वित्तीय विवरणों के सम्पूर्ण प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है| हमारा विश्वास है कि हमारा लेखापरीक्षण हमारे अभिमत के लिए समुचित आधार उपलब्ध कराता है.

4. हमारे लेखापरीक्षण के आधार हमारी रिपोर्ट है कि :-

I हमने सभी सूचना व स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारे श्रेष्ठ ज्ञान के विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षण के उद्देशके लिए आवश्यक थे.

IIइस रिपोर्ट में जांचे गए तुलन-पत्र, आय और व्ययलेखा तथा प्राप्ति और भुगतान लेखा भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) द्वारा अनुमोदित फोर्मेट के अनुसार प्रस्तुत किये गए.

III हमारे मतानुसार केंद्र के उप नियम 29(II) के अनुरुप केंद्र द्वारा उचित लेखा. पुस्तकों व अन्य संब6धित अभिलेखों का रखरखाव किया गया है. इन पुस्तकों के हमारे परीक्षण से अब तक यही प्रकट हुआ है.

IV हमारी रिपोर्ट है कि :

(A) **तुलनपत्रक**

A.1 देनदारीयां

A.1.1 समग्र निधि (शेड्युल 10) रु.2562.50 लाख

एक समान लेखों के संरुप(फॉर्मेट), आय एवं व्यय लेखों में आधिक्य यदि कोई होतोतुलन पत्रक के समग्र निधी (शेड्युल 10) में अंतरण किया जाना है . केंद्र ने समग्र आधिक्य की संपूर्ण राशी रु. 133.94 लाख को आरक्षित तथा आधिक्य शिर्ष के एवज मे समग्र निधि के अंतर्गत अंतरण कर दिया है . इस कारण समग्र निधि की राशि रु.133.94 से कम दिखाई है जिसे तदनुसार आरक्षित तथा समग्र निधि मे अधिक दर्शाई है.

A. 1.2. वर्तमान देयताएं (शेड्युल 7) रु. 823.79 लाख

वर्तमान देयताएं (शेड्युल 7) के अंतर्गत रु.85.00 लाख दर्शाए गए है, मई 1991 से मार्च 2016 तक के अवधि के लिए भाडा, पानी प्रभार, नगरपालिका कर तथा विद्युत प्रभार के लिए है. यद्यपि,हमारे रिकार्ड अनुसार इनमदों पर 31.03.2016 तक वास्तविक प्रलंबित राशि रु.82.45 लाख है . वर्तमान देयताएं र.2.55 लाख से अधिक दिखाई है जिसे तदनुसार आरक्षित तथा समग्र निधि में कम दिखाई गई है

A.2 सम्पत्ती

A.2.1 चल संपत्ती, कर्ज तथा अग्रिम

(शेड्युल 11) रु.700.16 लाख

वर्ष 2015-16 के लिए द.म.क्षे.सं केंद्र द्वारा बनाए गए बैंक लेखासमाधान विवरण के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है की 52 धनादेश जिनका मूल्य रु.9.40 लाख है जो दिसंबर 2015 तक जारी किए गए थे चेक की समयावधी समाप्ती (time barred)हो गए है जिस की राशि लेखों में पुन: लेनी है (written back in theaccounts). यद्यपि, केंद्र ने पुराने चेकों के एवज में विरुद्ध प्रविष्टी (reverse entry) जिसके परिणामस्वरुप बैंक का शेष रु.9.40 लाख से कम दर्शाता है. जिसके परिणामस्वरुप वर्तमान सम्पत्ती, कर्जे तथा अग्रिम (बैंक शेषों) में रु.9.40 लाख से विविध लेनदार खातों (सैंड्री क्रेडीटर्स)में कम दर्शाया गया है.

A.2.2 चल संपत्ती, कर्ज तथा अग्रिम

(शेड्युल 11) रु.700.16 लाख.

बैंक ऑफ बडौदा (बचत खाता सं.04650100005138) के लेखासमाधान विवरण के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है दो डिमांड ड्राफ्ट की राशि रु.14863/- तथा चार

फ़्लेक्सी डिपॉजिट की राशि र.29002/- के क्रेडीट का प्रभाव बैंक द्वारा खाते में नही किया है. तदनुसार,चल संपत्ती, कर्ज तथा अग्रिम खाते में (बैंक शेष) जो रु.43865 से आरक्षिती तथा अधिशेष में अधिक दर्शाया (overstated) है.

A.2.3 निवेश - अन्य (शेड्युल 10) रु.2972.00 लाख

द.म.क्षे.सं केंद्र ने र.86.17 लाख का निवेश दर्शाया है (टर्म डिपॉजिट अॅड्वाईससं. 6727654528 जिसकी राशिहै रु.86.17 लाख जिसका निवेश 17.08.2017 किया था जिसका परिपक्वता मूल्य है 95.15 लाख है तथा परिपक्वता तिथि है 17.11.2016), जिसे वार्षिक लेखों मे (शेड्युल 10, सब-शेड्युल 7) में रु.77.00 लाख दर्शाया गया है. तदनुसार निवेश रु.9.17 लाख से कम दर्शाया गया जिसको तदनुसारआरक्षिती तथा अधिशेष मदों में कम दर्शाया गया.

A.2.4 वर्तमान संपत्तीयां, कर्जे तथा अग्रिम

(शेड्युल -11) रु.700.16 लाख

केंद्र ने रु.5.68 के राशि के व्यपगत धनादेशों (चैक्स) को खाते में से कम नही किया (written back) तथा बैंक समाशोधन विवरणी (Bank Reconciliation Statement) में जो राशि तीन माह से अधिक समय से प्रलंबित है ऐसे रु.0.44 लाख के क्रेडिट राशी की पहचानकेंद्र द्वारा नही की गई अत: वर्तमान संपत्ती(बैंक शेष) रु.5.24से कम दर्शाती है तदनुसार विविध लेनदारों (सैंड्री क्रेडीटर्स) मद में कम दर्शाती है.

B. आय तथा व्यय लेखा

B.1 खर्चे

B. 1.1. रु.1133.61 लाख का खर्चा

द.म.क्षे.सा.के ने वर्तमान वर्ष के लिए रु.25.22 लाख मूल्यह्रास वास्तविक व्यय के रुप में आय तथा व्यय लेखों मे नामे डाला गया है. इसके परिणामस्वरुप रु.25.22 लाख की आय कम दिखाई है तदनुसार आरक्षित और अधिशेष मद में कमी दिखाई गई है. केंद्र द्वारा इस आय को खाते के एकसमान स्वरुप के रुप में स्थगित आय के अंतर्गत में माना जाएगा.

B.2 आय

B.2.1 अर्जित ब्याज (शेड्युल -17) रु. 282.61 लाख

केंद्र को विभिन्न बैंको से निवेश/बचत खाता रु.299.36 लाख ब्याज के रुप में प्राप्त है जिसके लिए लेखों में रु.282.61 लाख आय एवं व्यय लेखों में लेखाबद्ध है, जिसके परिणाम स्वरुप 16.74लाख की आय कम दर्शाई गई तदनुसार आरक्षित और अधिशेष मद में कम दर्शाई गई है.

C. सामान्य टिप्पणीयां

1. द.म.क्षे.सा.के ने केंद्र के कुछ कर्मचारी के विरुद्ध दुर्व्यवहार की सी बी आई दर्ज में शिकायत के लिए मंत्रालय से अगस्त 2016में प्राप्त सूचना नुसार कोई कार्रवाई नही की. निधि के दुर्विनियोजन की रिपोर्ट पर संबंधित कर्मचारीयों से अभी तक वसूली नही की गई.

2. द.म.क्षे.सा.के. ने सेवा कर रिटर्न/आयकर रिटर्न समयपर दर्ज नही की . सरकारी लेखों में व्यवसाय कर कटौती के भुगतान तथा सेवार्थी इत्यादी के मूल स्त्रोत पर कटौती के लिए अत्याधिक समय का विलंब हुआ है । सेवाकर/ व्यवसाय कर/ मूल स्त्रोत पर कटौती के भुगतान के लिए दो माह से उन्नीस माह तक का विलंब हुआ है. केंद्र ने रु.9.74 लाख ब्याज/मूल स्त्रोत पर कटौती के लिए दंड के रुप में

भुगतान किया (शेड्युल 21 (U) परंतु ब्याज/ दंड के लिए लेखे मे कोई प्रावधान नही है .

3. द.म.क्षे.सा.के ने स्वायत्त केंद्र निकाय के लिए खाते के रखरखाव के लिए निर्धारीत एकसमान स्वरुप का पुर्णत: पालन नही किया :

(i) तुलनपत्र (स्थायी संपत्तीयां) को शेड्युल 8 के निर्धारीत प्रपत्र में नही दर्शाई गई.

(ii)केंद्र ने लेखों के साथ वांछित शेड्युल 24- महत्वपूर्ण लेखा नितियां तथा शेड्युल 25- आकस्मिक देयताएं तथा वार्षिक लेखों पर टिप्पणी नही दिए. यद्यपि, आंतरिक लेखापरीक्षक ने महत्वपूर्ण लेखा नितियों तथा लेखों पर टिप्पणी आंतरीक लेखापरीक्षक की टिप्पणी के रुप में प्रस्तुत की है जो की नियमानुसार नही है. केंद्र को जरुरी है उचित शेड्युल वार्षिक लेखों के साथ जोडना चाहिए जिससे एकरुपता, पारदर्शिता तथा स्पष्टता बनी रहे.

(iii)शेड्युल 22 के अनुसार अनुदानों पर व्यय, सब्सिडी इत्यादी के लिए रु. 785.61 है परंतु आय तथा व्यय लेखों में इसे खाली छोडा गया है. केंद्र ने पुन: नियमित कार्यक्रम तथा विशेष कार्यक्रम हेतु शेड्युल 24 तथा 25 के अंतर्गतबनाया है. अत: शेड्युल को ठिक तथा सही नही बनाया जिसके कारण लेखों के आकडों में स्पष्टता नही प्रतीत होती . सब-शेडयुल के क्रम को वार्षिक लेखों में गलत दर्शाया गया है जिसके कारण आकडों को लेखों से जोडने में असहजता हो रही है.

4. कलाकृतियां / कला का कार्य जो विभिन्न कलाकारों द्वारा बनाएं गए है जिसका मूल्य 81.73 लाख है जिसका लेखों में दर्शाया नही गया है तथा लेखों के टिप्पणी में भी इसे दर्शाया नही गया है.

5. केंद्र ने बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के सेक्शन 31 A के अनुसार अनुमोदित बजट धर्मदाय आयुक्त को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से एक माह पहले प्रस्तुत नही किया तथा ना ही अधिनियम के अनुसार (2%) वार्षिक शुल्क इस

अदा किया. मामला महाराष्ट्र सरकार तथा केंद्र के अंतर्गत विवादित है तथ केंद्र ने इस संदर्भ में कोई प्रावधान नही किया तथा ना ही इस तथ्य को लेखों की टिप्पणी में दर्शाया नही.

6. पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्टों में लगातार दी गई टिप्पणीयों के बाद भीद.म.क्षे.सा.केने खाते के स्वरुप की मांग के अनुसार प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार नही किया.

7. केंद्र ने छुट्टी नकदीकरण केवास्तविक मूल्यन के अनुसार प्रावधान नही बनाया तथा छुट्टी नकदीकरण का भुगतान नकद में किया जाता है । केंद्र द्वारा छुट्टी नकदीकरण हेतु वास्तविक(accrual) आधार पर लेखाकरण मानक-15 के अनुसार प्रावधान बनाए जाना अपेक्षित है.

8. केंद्र के पास दिनांक 31.03.2016 को 556.52 लाख रुपए अव्ययित अनुदान शेष है . अव्ययित अनुदान पर अर्जित ब्याज जो संबंधित अनुदान शेष में (क्रेडीट)जोडा जाना चाहिए. साथ ही केंद्र ने इस मद को आय के रुप में आय तथा व्यय लेखें में दर्शाया है, जो उचित नही है.

9. डॉर्मेटरी तथा प्रशासनिक ब्लॉक का कार्य नवंबर 2013 में पुर्ण कर लिया गया था, किंतु, सी पी.डब्ल्यू विभाग ने मुकदमे के चलते रु.20.45 लाख वापिस नही किए. इस तथ्य को शेड्युल 25- में लेखों पर टिप्पणी में खुलासा नही किया गया.

C. सहायता अनुदान

वर्ष 2015-16 के अंतर्गत रु.13.42 करोड (पूर्व वर्ष की रु.2.27 करोड की अव्ययित शेष सहित)द.म.क्षे.सा.कें ने रु.7.86 करोड का उपयोग किय. जिसके बाद 31.03.2016 तक रु.5.56 करोड शेष है.

D. प्रबंधन पत्र

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जो भी कमीयां रह गई है उनके प्रति उपचारी/सुधारात्मक कार्रवाई हेतु संस्थान को अलग से पत्र जारी कर सूचित किया गया है.

V पूर्व अनुच्छेदों में हमारी टिप्पणीयों के आधार पर यह , आय तथा व्यय का लेखा तथा प्राप्ती तथा खर्चों का लेखा, लेखा पुस्तिका के आधार पर तैयार किये गए है तथा लेखों से मेल खाते है.

VI. हमारी मान्यता तथा जानकारी और जो स्प्ष्टीकरण हमे प्राप्त हुआ है, के अनुसार, कथित वित्तिय विवरण को लेखा नितियों तथा लेखा टिप्पणीयों का मिलान करने पर तथा उपर्यूक्त महत्वपूर्ण विषय एव6 लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में दिए गए अन्य विषय, भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतानुसार सही एवं निष्पक्ष रुप में स्वीकार्य है.

(A) जहां तक द.म.क्षे. सा.कें के 31.03.2016 तक के तुलनपत्रक तथा कार्यों की स्थिती से संबंधित है.

(B) जहॉ तक यह उस तारीख को समप्त वर्ष के अधिशेष आय-व्यय लेखों से संबंधित है.

भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के लिए तथा की ओर से

हस्ता./-

महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्र)

स्थान: मुंबई,दिनांक 07/03/2018

लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सुधारीत)

सेवामें,

मानानीय अध्यक्ष,

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र,

56/1 एम.एल.ए. होस्टेल के सामने,

सिविल लाईंस, नागपुर- 440 001 (म.रा.)

1. हमने दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र , नागपुर के इस के साथ संलग्न 31 मार्च 2016 को समाप्त स्थिति का विवरण तथा संलग्न आय व व्यय लेखा का लेखापरीक्षण किया | इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी स्वायत्त निकाय प्रबंधन की है | हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत प्रगट करना है|
2. हमने सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसरण में हमारे लेखापरीक्षा को निष्पादन किया है| इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम योजना बनाएं और लेखापरीक्षा निष्पादन करे और यह सुनिश्चित करें की वित्तीय विवरण किसी भी गलत विवरण सामग्री से मुक्त है | लेखापरीक्षण में जॉच के आधार पर राशियों के समर्थन और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के साक्ष्यों का परीक्षण सम्मिलित है | लेखापरीक्षण में उपयोग मे लाये लेखाकर्म सिद्धांतों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा निर्मित अनुमानों की सार्थकता, साथ ही साथ वित्तीय विवरणों के सम्पूर्ण प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है| हमारा विश्वास है कि हमारा लेखापरीक्षण हमारे अभिमत के लिए समुचित आधार उपलब्ध कराता है |
3. हमने संलग्नक “क” मे मुंबई लोक न्यास अधिनियम 1950 के धारा 33 तथा 34 तथा नियम19 उपबंधित नियमानुसार अलग से प्रतिवेदन संलग्न

किया है | हमारे रिपोर्ट के प्रश्नके बिना,संवैधानिक अनुपालन में त्रुटीयों के संबंध में अनुलग्नक “क” मे दर्ज किए गए मामलों पर ध्यान देने के लिए आमंत्रित करते है |

4. “लेखों की टिप्पणीयों” के परिच्छेद 9 जो केंद्रिय जॉच ब्यूरो के भ्रष्टाचार निर्मूलन स्कंध नागपुर के तलाशी के संदर्भ में की जून 2015 मे की गई थी | इन पर केंद्रिय जॉच ब्यूरो द्वारा कोई विशिष्ट आरोप अधिरोपित नही किए गए है जिसके वित्तिय परीणामों की जानकारी का आकलन किया जा सकें तथा इनके वित्तीय परीणामों का प्रावधान नही किया गया |

5. आगे उपरोक्त के संदर्भ में, यह प्रतिवेदित किया जाता है कि :-

   i. आय-व्यय का लेखा तथा तुलना विवरण लेखा पुस्तिका के आधार पर तैयार किये गए है |

   ii. हमारी राय के अनुसार तथा जो जानकारी हमें दी गई है तथा जो स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुआ है तदनुसार, इन लेखों को अनुलग्नक “अ” के शेड्युल 28 में दि गई टिप्पणी के साथ पढते हुए यह जानकारी मुंबई लोक प्रन्यास अधिनियम 1950 के अनुसार दि जा रही है तथा इससे भारत में भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखों का सही और स्पष्ट स्थिती प्रकट हो रही है |

अ.) तुलनपत्रक से निकाय के कार्य की 31 मार्च 2016 की स्थिती ; तथा

आ.)जहा तक आय तथा व्यय के लेखे तथा व्यय से अधिक आय की इस तिथी की स्थिती दी जा रही है |

नागपुर

दिनांक 27 दिसंबर, 2016 हस्ता./-

केदार गोखले अँड कंपनी के लिए (सी.ए. केदार गोखले)

भागीदार मो. सं 039140

31/03/2016 को बॅलेंस शीट के भाग की अनुसूची |

अनुसूची 'एम' :- महत्वपूर्ण लेखाकर्म नीतियॉ तथा लेखों पर टिप्पणियां

(क) महत्वपूर्ण लेखाकर्म नीतियों :-

1. संस्था के लेखों का रखरखाव व्यापारिक पध्द्ति पर किया जाता है |
2. अचल संपत्तियों को आकस्मिक व्यय सहित अधिग्रहण लागत पर लेखों में लिखा गया हैं और बॅलेंश शीट में घटते हुए मूल्य को भी दर्शाया गया है |
3. बिना अवक्षय्ण वाली संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए अनुदान बॅलेंस शीट में " सुरक्षितपूंजी" लेखाशीर्ष में दर्शाया गया है |
4. भूमि पर कोई अवक्षयन नहीं लगाया गया है | न्यास के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दर के अनुसार अन्य संपत्तियों पर अवक्षयन लगाया जाता है | घटते मूल्य का लेखांकन पध्द्ति से अवक्षयन लगाया जाता है |
5. अधिग्रहित संपत्तियों पर लागत से घटते हुए रुप में अवक्षयन योग्य संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्राप्त अनुदानों को दर्शाया गया है |
6. बहु-वर्षिय लेखांकन अवधि में संपन्न किये जाने वाले विशेष कार्यक्रम के लिए प्राप्त अनुदान आय-व्यय के लेखा में तब तक दर्शाए जाते है, जब तक कि वे उस वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च कर लिए जाएं |शेष भाग को बैलेंस शीट में " विशेष अनुदान" शीर्ष दर्शाया गया है | विशेष कार्यक्रम संपन्न होने पर शेष भाग संबंधित प्राधिकारियों को वापिस किये जाने तक बैलेंस शीट में 'चालू देयता' में दर्शाया गया है |
7. विभिन्न कार्यक्रमों पर किया गया व्यय 'विशिष्ट शीर्ष' में दर्शाया गया है | सामान्य तथा प्रशासनिक व्यय अलग से केंद्र के समग्र व्यय में दर्शाए गए हैं |

(ख) लेखों पर टिप्पणीयां

- समग्र निधि में आंध्र प्रदेश की ओर से आने वाला राशी का योगदान काफी समय से लम्बित हैं |
- तुलन पत्र की अनुसूची "जी" के अनुसार कॉर्पस निधि और सामान्य जमा निधि के रु.2972 लाख रु. (प्रती वर्ष रु.2781 लाख) को सावधी जमा राशी/राष्ट्रीयकृत बैंक के बॉडस /भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करवी है |
- निम्नलिखित मदें कर्मचारियों / पूर्व कर्मचारियों की ओर से पिछले एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित है | श्री ए.एस. पद्मनाभ के विरुद्ध कानूनी याचिका संस्ख्या एस सी एच 497/03 तथा श्री वाई एस सरदेशपांडे के विरुद्ध कानूनी याचिका 496/03 से सम्बन्धित है तथा इन मामलों पर कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है |

क्रमांक	विवरण	राशी वित्तीय वर्ष 31.03.2016	राशी वित्तीय वर्ष 31.03.2015
1	श्री ए.एस. पद्मनाभ	89,690/-	89,690/-
2	श्री वाय.एस.सरदेशपांडे	3,91,204/-	3,91,204/-
3	श्री ए.एस. पद्मनाभ	21,868/-	21,868/-

- **अमोल कॅटरर्स जो केंद्र के परीसर में घोटूल उपहारगृह चलाता है उसे रु.500,406 (प्रति वर्ष 500,406) अग्रिम दिया गया जो** एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित है |
- **सांविधिक अनुपालन : केंद्र समयानुसार अधिकतर राशी संविधियों के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक अनुवृत्ति का पालन नही कर रहा है, निम्नलिखित अधिनियमों /कानूनों के अंतर्गत कर भुगतान और रिर्टन फाईल देर से की गई |**

  I) आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत वार्षिक आय कर विवरण 2009-10, 201-16 वर्ष के लिए प्रस्तुत नही किया गया |

  ii) तिमाही आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत निर्धारित वेतन तथा अवैतनिक भुगतानों से आयकर कटौती का विवरण देरी से प्रस्तुत किया गया | कई मामलों के केंद्र सरकार के खाते में क्रेडिट किये गय स्त्रोत से कटौती किए गए आयकर का भुगतान लंबित हुआ |

iii) वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 से संबंधित सेवा कर का विवरण लंबित है |

iv)जुलाई 2011 से केंद्र ने व्यवसाय, व्यापार, कालिंग, रोजगार अधिनियम 1975 पर महाराष्ट्र राज्य कर के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक रिटर्न नहीं भरी है, कई मामलों में कर्मचारियों के वेतन से कटौती किये गए व्यवसाय कर का राज्य सरकार को भुगतान करने में विलम्ब हुआ |

v) केंद्र द्वारा मुंबई लोक न्यास अधिनियम 1950 (मुंबई पब्लिक ट्रस्ट) के अनुच्छेद 58 के अनुसार निर्धारीत वार्षिक बजट् प्रस्तुत नही किया गया |

vi) कुछ मामलों में वेतन से कटौती किये गए भविष्य निधी, जीवन बीमा आदि अंशदान के भुगतान में विलम्ब हुआ |

- **शयनागार (Dormitory) तथा प्रशासनिक खंड का निर्माण तथा साज सज्जा का कार्य लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान पूर्ण हुआ. यह कार्य केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वित (सम्पन्न) हुआ | नवंबर 2013 में यह कार्य संपन्न हो गया था जिसके कारण 20.50 लाख रुपए इस मद में अप्रयुक्त फसें पडें है.**
- **केंद्र ने कुछ कलाकृतियों का मूल्य लगाया जिन्हे लेखापुस्तकों में शामिल नही किया गया क्योंकि उनमें से कुछ में सुधार योग्य न थी, कुछ टूटी और उन्हे सुधारने में अधिक खर्च अपेक्षित था और ऐसी कला कृतियों को राष्ट्रीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत कई कार्यशालाओं में प्रस्तुत किया गया था |**
- **कुछ सांविधिक मामलों जैसे करों की स्त्रोत से कटौती,सेवा कर, व्यवसाय कर, बीमा प्रिमीयम,प्राप्त होने वाली जीएसएलआई दावा के भुगतान में विलंब हुआ |**
- **सांविधिक देय तथा सांविधिक विवरणी देरी से प्रस्तुत करने पर ब्याज तथा शास्ती देने का कोई प्रावधान नही है |**
- **केंद्र के कर्मचारी के ना-उपयोग में लाए गए छुट्टी के नकदीकरण का प्रावधान नही है, मुंबई लोक न्यास के अनुच्छेद 58 अनुसार अंशदान दिया जाता है |**

- **केंद्र द्वारा वसंतराव देशपांडे सभागृह मे स्थित कला दिर्घा के भाडे (रेंट) 85.00 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 77.20 लाख) का भुगतान राज्य के लोकनिर्माण विभाग से विवाद होने की वजह से नही किया गया | इस मांग का केंद्र ने विरोध किया है . यद्यपि, इस निधी का लेखों में प्रावधान खाते में किया है |**
- **माह जून 2015 मे सी.बी.आय के भ्रष्टाचार निर्मूलन स्कंध, नागपुर ने केंद्र के परीसर की तलाशी ली तथा कुछ दस्तावेज जब्त किए है . उनके द्वारा जांच प्रगति पर है | यद्यपि, सी.बी.आई द्वारा कोई विशिष्ट आरोप अधिरोपित नही किए गए अत: उनके जांच के वितीय तथा अन्य परिणाम पहलू के बारे में कुछ कहा नही जा सकता |**
- **श्री गोपाल बेतावर को कार्यक्रम हेतु दिया गया आग्रिम 14.04 लाख रुपए (गत वर्ष 12.87 लाख रुपए) प्रलंबित है | उनके द्वारा समायोजनार्थ दिए गए वाउचर सी.बी.आई के हिरासत में है. अत: लेखों में समायोजनार्थ प्रविष्टी पारित नही की गई |**
- **कुछ कार्यक्रमों के अग्रिम के लेखे, यात्रा अग्रिम, अन्य अग्रिम का लेखा समाधान के अधिन है |**
- **गत वर्ष के आंकडे आवश्यकतानुसार पुर्नस्वीकृत या पुर्नवयस्थित किये गए है |**

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र केंद्र के लिए

हस्ता./-
(डॉ. पियुष कुमार)
निदेशक

केदार गोखले अँड कंपनी के लिए

हस्ता./-
(केदार गोखले)
भागीदार

31/03/2016 के तुलन पत्रक की स्थिती विवरण (पुनरीक्षित)

<u>समग्र / पूंजीगत निधी और देंनदारियां</u>	<u>शेड्यूल</u>	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
समग्र / पूंजीगत निधी	1	25,62,50,000-00	25,62,50,000-00
आरक्षित तथा अधिशेष	2	7,13,05,634.31	5,79,11,138.74
नियुक्त / एंडोमेंट् निधी	3	-	-
सुरक्षित ऋण और उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण और उधार	5	-	-
डेफर्ड क्रेडिट देयताएं	6	-	
वर्तमान देनदारियों और प्रावधान	7	8,23,78,934	4,57,39,167
कुल		40,99,34,568.31	35,99,00,305-74
<u>परिसंपत्ती</u>			
स्थिर परिसंपत्तीयां	8	4,27,19,000.96	4,24,61,857.39
निवेश - निर्धारित/ एंडोमेंट् निधी से	9	-	-
निवेश अन्य	10	29,72,00,000.00	29,82,40,000.00
वर्तमान संपत्ति, ,ऋण अग्रिम इ.	11	7,00,15,567.35	1,91,98,448.35
विविध व्यय			
(जहां तक नही लिखा गया या सामायोजित)			
कुल		40,99,34,568.31	35,99,00,305.74

स्थान: नागपुर

दिनांक दिसंबर 27, 2016 हस्ता./- हस्ता./-

वरिष्ठ लेखा तथा प्रशा. अधि. — निदेशक

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर — दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर

हस्ता./-

हमारे रिपोर्ट के दिनांक अनुसार

केदार गोखले चार्टर्ड अकाउंटंट

31.03.2016 के तुलन पत्रक के लिए शेड्युल

शेड्युल 1 कॉर्प्स/पूंजीगत निधी (Corpus /Capital Fund)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
वर्ष के शुरुवात में शेष राशि जोडे : कॉरपस /पूंजीगत फंड के प्रति योगदान	25,62,50,000.00	**15,62,50,000.00**
वर्ष के अंत के रुप में शेष राशि		

शेड्युल : 2 आरक्षित और अधिशेष

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1. संपत्ति कोष /पूंजी संचय		
गत वर्ष के लेखे अनुसार	87,61,000.00	87.61,000.00
(+)वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
(-)घटाए: वर्ष के दौरान कटौती	-	
2.आय तथा व्यय खाते में शेष		
गत वर्ष के लेखे अनुसार	1,41,50,138.74	1,53,87,470.07
(+)वर्ष के दौरान परिवर्धन	133,94,495.57	(12,37,331.33)
(-)घटाए: वर्ष के दौरान कटौती	37,50,000.00	-
अंत शेष	237,94,634.31	141,50,138.74
3.विशेष रिजर्व		
गत वर्ष के लेखे अनुसार		
(+)वर्ष के दौरान परिवर्धन		-
(-)घटाए: वर्ष के दौरान कटौती		-
4.सामान्य रिजर्व		-
गत वर्ष के लेखे अनुसार		
(+)वर्ष के दौरान परिवर्धन	350,00,000.00	350,00,000.00
(-)घटाए: वर्ष के दौरान कटौती	37,50,000.00	-
अंत शेष	387,50,000.00	
कुल	713,05,634.31	579,11,138

अनुसूची (शेड्युल):3 निर्धारित /एंडोवमेंट निधी

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
कुल		

अनुसूची : 4- सुरक्षित ऋण तथा उधार: (Secured Loans and Borrowings)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1.केंद्र सरकार 2.राज्य सरकार (उल्लेख करें) 3. वित्तीय संस्थाए क)सावधि ऋण ख) प्रोद्युत(accrued) व्याज तथा प्राप्य(due) बैंक : क)सावधि ऋण - प्रोद्युत(accrued) व्याज तथा प्राप्य(due) ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें) प्रोद्युत(accrued) व्याज तथा प्राप्य(due) 5. अन्य संस्थाएं तथा अभिकरण 6. डिबेंचर्स और बॉण्ड्स 7. अन्य (उल्लेख करें)		
कुल		
नोट :एक वर्ष के प्राप्य (due) होनेवाली राशि		

अनुसूची : 5- असुरक्षित ऋण तथा उधार:

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1.केंद्र सरकार 2.राज्य सरकार (उल्लेख करें) 3. वित्तीय संस्थाए 4 बैंक : क)सावधि ऋण ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें) 5. अन्य संस्थाएं तथा अभिकरण 6. डिबेंचर्स और बॉण्ड्स 7. सावधि जमा 8.ऋण (उल्लेख करें)		
कुल		
नोट : एक वर्ष के प्राप्य (due) होनेवाली राशि		

अनुसूची : 6 डिफर्ड क्रेडिट देयताएं (Deferred Credit Liabilities)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
क) पूंजीगत उपकरण और अन्य परिसंपत्तियां के ढांचे द्वारा सुरक्षित स्वीकृति **ख) अन्य**		
कुल		
नोट : एक वर्ष के प्राप्य (due) होनेवाली राशि		

अनुसूची : 7 वर्तमान देनदारियां और प्रावधान

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
क. वर्तमान देनदारियां		
1. स्वीकृतियां		
2. विविध (सैंड्री) लेनदार (क्रेडीटर्स)		
अ) सामान के लिए		
आ) अन्य (उप अनुसूची 1)	13,57,256.00	37,05,809.00
3. स्वीकृतियां प्राप्त		
4. प्रोद्युत(accrued) व्याज लेकिन प्राप्य(due) नही		
अ) सुरक्षित ऋण/ उधार		
आ) असुरक्षित ऋण/ उधार		
5. वैधानिक देयताएं		
अ) अतिदेय		
आ) अन्य (उप अनुसूचि 2)	10,63,683.00	5,33,224.00
6. अन्य वर्तमान देनदारियां (उप अनुसूची 3 से 6)	799,57,995.00	415,00,134.00
कुल (क)	823,78,934.00	457,39,167.00
ख. प्रावधान		
1. करों के लिए		
2. ग्राच्युएटी		
3. सेवानिवृत्ति / पेंशन		
4. संचित छुट्टी का नकदीकरण		
5. व्यापार वारंटी/दावा		
6. अन्य (उल्लेख करें)		
कुल (ख)		
कुल (क+ख)	823,78,934.00	457,39,167.00

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर

31.03.2016 के तुलन पत्रक के लिए A से L की अनुसूची
अनुसूची 8 स्थिर परिसंम्पत्तीयां
उप-अनुसूची F-1 चल संपत्तीया

विवरण	घिसावट की दर	01/04/2015 को शेष	अन्य शीर्षों में स्थानांतरण	संवर्धन		अतिरिक्त घिसावट का समायोजन	कुल	मुल्यह्रास का बकाया	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	31/03/2016 को शेष
				01/04/2015-30/09/2015	1/10/2015-31/03/2016					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	H-J
ए.सी एकक	15%	52,772.25			36,513.00		89,285.25		10,654.31	78,630.94
दृश्य श्रव्य उपस्कर	20%	57,652.77					57,653.77		11,530.55	46,122.21
केसेट	20%	282.92					282.92		56.58	226.34
कम्प्यूटर पैंटंट स्किम	15%	90,919.18					90,919.18		13,637.88	77,281.30
डेड स्टॉक विद्युट लाईट	15%	1,85,798.22			37,640.00		2,23,438.22		31.169.78	1,92,268.44
डेड स्टॉक ध्वनी प्रणाली	20%	2,27,720.00					2,27,720.00		45,544.00	1,82,176.00
विद्युत उपस्कर	15%	3,43,006.45					3,43,006.45		51,450.97	2,91,555.49
विद्युत यंत्र	15%	50,860.65					50,860.65		7.629.10	43,231.55
प्रदर्शन एवं कार्यक्रम संपत्तीयां	20%	1,098.39					1,098.39		219.68	878.71
फर्निचर पैंटंट स्किम	10%	2,28,380.00					2,28,380.00		22,838.00	2,05,542.00
फर्निचर और फिक्श्चर शिल्पग्राम	10%	8,980.20					8,980.20		898.02	8,082.18
फर्निचर और फिक्श्चर	10%	7,91,566.88		13,000.00	50,681.00		8,55,247.88		82,990.74	7,72,257.14
एल.सी.डी.	15%	10,961.00					10,961.00		1,644.24	9,317.36

घास कटाई मशिन	15%				36,550.00		36,550.00		5,482.49	31,067.51
लाईब्रेरी की पुस्तके	10%	1,45,280.34		600.00	28,748.00		1,74,628.34		16,025.43	1,58,602.91
मोबाईल फोन	15%	11,097.23					11,097.23		1,664.58	9,423.64
संगित उपकरण	10%	708.63					708.63		70.86	637.77
कार्यालय उपकरण /डेड स्टॉक	15%	2,82,986.00			48,081.00		3,31,067.00		45,053.98	2,85,013.03
कार्यालय उपकरण कॅमेरा	15%	36,923.15					36,923.15		5,538.47	31,384.68
कार्यालय उपकरण कम्प्यूटर नोट बुक					1,10,250.00		1,10,250.00			1,10,250.00
कार्यालय उपकरण कम्प्यूटर	15%	3,39,446.77			1,44,163.00		4,83,609.77		50,917.02	4,32,692.75
कार्यालय उपकरण एच.पी. प्रिंटर					4,990.00		4,990.00			4,990.00
कार्यालय उपकरण एच.पी. स्कॅनर					14,396.00		14,396.00			14,396.00
कार्यालय उपकरण सुट केस				14,800.00			14,800.00		2,220.00	12,580.00
कार्यालय उपकरण टेलिफोन				6,780.00			6,780.00		1,017.00	5,763.00
कार्यालय उपकरण टिन बॉक्सेस				9,500.00			9,500.00		712.50	8,787.00
कार्यालय उपकरण झेरॉक्स मशिन					1,71,293.00		1,71,293.00			1,71,293.00
फोटोग्राफिक उपकरण	15%	2,545.55					2,545.55		381.83	2,163.72
उपहार वसुएं	5%	96,174.24		1,80,876.00			2,77,050.24		9,330.61	2,67,719.63
प्रिंटर पेंटंट स्किम	15%	12,487.50					12,487.50		1,873.13	10,614.38
सोलर लाईट खाता	15%	3,91534.65					3,91,534.65		58,730.20	3,32,804.45
सोलर वाटर हीटर सिस्टीम	15%	36,937.60					36,937.60		5,540.64	31,396.96
चाय और कॉफी विक्रय मशीन	15%	14,876.70					14,876.70		2,231`.51	12,645.20
वाहन	20%	7,12,895.68		17,22,335	1,48,370.00		25,83,600.68		5,16,720.14	20,66,880.54

कुल		41,33,893.55		19,47,891.00	8,31,675.00		69,13,459.55		10,04,774.24	59,08,685.31
विवरण	घिसावट की दर	01/04/2015 को शेष	अन्य शीर्षों में स्थानांतरण	संवर्धन		अतिरिक्त घिसावट का समायोजन	कुल	मुल्यह्रास का बकाया	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	31/03/2016 को शेष
				01/04/2015-30/09/2015	1/10/2015-31/03/2016					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	H-J
कला दीर्घा	5%	1,91,670.34					1,91,670.34		9,583.52	1,82,086.82
सरकारी बिल्डींग,महाराष्ट सरकार	5%	1,77,585.40					1,77,585.40		8,879.27	1,68,706.13
भवब एवं सडक	%%	49,98,242.32					49,98,242.32		2,49,912.12	47,48,330.20
कैफेटेरिया का निर्माण	5%	79,793.35					79,793.35		3,989.67	75,803.68
क्राफ्ट स्टॅालो का निर्माण	5%	1,62,414.85					1,62,414.85		8,120.74	1,54,294.11
हरित कक्षों का निर्माण	5%	18,99,609.55					18,99,609.55		94,980.48	18,04,629.07
डॉर्मेटरी बिल्डींग	5%	130,86,494.15					130,86,494.15		6,54,324.71	124,32,169.44
भूमि और भवन महाराष्ट्र सरकार	0%	75,30,000.00					75,30,000.00		-	75,30,000.00
मध्यप्रदेश सरकार की भूमि	0%	4,45,000.00					4,45,000.00		-	4,45,000.00
नाला निर्माण	5%	9,22,594.57					9,22,594.57		46,129.73	8,76,464.84
शिल्पग्राम खजुराहो	5%	85,67,611.91					85,67,611.91		4,28,380.60	81,39,231.31
कुआ और ड्रेनेज	5%	2,66,947.41					2,66,947.41		13,347.37	2,53,600.04
कुल		383,27,963.84					383,27,963.84		15,17,648.19	3,68,10,315.65
कुल चल/अचल परिसंपत्तीयां		424,61,857.39		19,47,891.00	831,675.00		452,41,423.39	--	25,22,422.43	427,19,000.96

अनुसूची 9 - निर्धारित निवेश / एन्डोवमेंट (Investment from Earmarked/Endowment)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-
2. अन्य अनुमोदित/स्वीकृत प्रतिभूतियां		-
3. शेअर्स		-
4. डिबेंचर्स तथा बॉण्ड्स		-
5. सहायक और संयुक्त उपक्रम		-
6. अन्य (उल्लेखित करे)		-
कुल		-

अनुसूची 10 - निवेश - अन्य

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-
2. अन्य अनुमोदित/स्वीकृत प्रतिभूतियां		-
3. शेअर्स	0.00	201,66,000.00
4. डिबेंचर्स तथा बॉण्ड्स		-
5. सहायक और संयुक्त उपक्रम		-
6. अन्य (उल्लेखित करे)	2972,00,000.00	2780,74,000.00-
कुल	2972,00,000.00	2982,40,000.00-

अनुसूची 11- वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, आग्रिम आदि.

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
A वर्तमान परिसंपत्तियाॅ		
1. वस्तु -सूची		
क) भांडार और पुर्जो		
ख) फुटकर औजार(लूज टूल्स)		
ग) बिक्री माल (स्टॉक इन ट्रेड)		
निर्मित माल		
निर्माणधीन उत्पादन		
कच्चा माल		
2. विविध देनदार (सैंड्री डेटर्स)		
क) छह माह से अधिक की अवधी के लिए बकाया ऋण		
ख) अन्य (उप अनुसूची 8)	24,95,476.00	60,13,095.00
3. नकद शेष (चेक/ड्राफ्ट और इम्प्रेस्ट सहित)	47,502.00	42,488.00
4. बैंक शेष		
क) अधिसूचित बैंको में		
-चालू खाता(कॅनरा बैंक, खजुराहों)	11,526.90	(2,335.10)
-जमा खातों पर (मार्जिन राशि के साथ)		
-बचत खाते में(उप-अनुसूची iv)	6,01,32,888.35	60,99,224.35
ख) गैर अनुसूचित बैंको में		
-चालू खाता		
-जमा खातों पर		
-बचत खाते में		
5. डाक घर बचात खाते		
कुल (A)	6,26,87,393.25	1,21,52,472.25

B ऋण ,आग्रिम तथा अन्य परिसम्पत्तियां		
1. ऋण		
a) कर्मचारी (त्यौहार तथा अस्थायी ऋण+ चिकित्सा)	1,97,676.00	1,77,984.00
2. वसूलने योग्य आग्रिम तथा अन्य राशी जो रोकड तथा वस्तु के रुप में प्राप्त करनी हो		
a) पूंजीगत लेखों पर		
b) पूर्व भुगतान		
कर्मचारी को व्यय हेतु आग्रिम (उप अनुसूची(IV A+B+C)	20,45,048.00	16,53,461.00
माल तथा सेवाओं के पूर्ती कर्ता को अग्रिम(उप अनुसूचि (IV 3)	27,18,058.00	34,63,007.00
c) अन्य (उप अनुसूची (VI D)	12,92,513.00	8,88,529.00
3. अर्जित आय		
a)निर्धारित निवेश/ एंडोमेंट निधीयों पर		
b)अन्य निवेश पर	5,30,060.00	3,77,792.00
c)ऋण तथा आग्रिमों पर		
d) अन्य (अनुदान आदि.)(अप्राप्त आय सम्मिलित)		
4. **दावा प्राप्य (Claims receivables)**	5,44,819.10	4,85,203.10
कुल (B)	73,28,174.10	70,45,976.10
कुल (A+B)	7,00,15,567.35	1,91,98,448.35

31.03.2016 के तुलन पत्र के लिए सूची की उप अनुसूची

देयताओं की उप अनुसूची

उप अनुसूची -1 ' सैंड्री क्रेडिटर्स & अन्य क्रेडीट शेष

अनुसूची 7.2 का भाग

विवरण	राशी (रु.) 31.03.2016	राशी (रु.) 31.03.2015
आदित्य मोडक	-	52,779.00
ॲडमार्क इवेंट प्रायवेट लिमिटेड	-	20,03,805.00
ॲडमास ॲड्वरटाईजमेंट	-	52,565.00
भारत सिक्युरिटी एजंसी	22,635.00	
इनमाईंड स्टूडीयो	-	2,170.00
जॉय हॉस्पिटॅलिटी प्रा.लि.	-	10,512.00
के.जी.एन. डेकोरेटर्स	-	20.00
मे. कलोती सिक्युरिटी एजंसी	87,870.00	-
मुल्ख राज लेखा	-	45,000.00
नटराज फिल्म्स	-	520.00
श्री अरविंद तागडे लेखा	-	2800
श्री असलम साबरी	-	82,500.00
श्री चि. श्याम लेखा	-	1,21,520.00
श्री ईमरान सिद्दी लेखा	-	1,32,640.00
श्री मासुम अब्दुल हफिझ	-	1,25,000.0
श्री सुमन मडावी लेखा	-	1,37,660.00
श्री सुमंथ लेखा	-	1,33,980.00
श्री टि.सी. सिद्धरामाजु लेखा	-	1,51,104.00
युनिवर्सल फॅसिलिटीज तथा मॅनेजमेंट सर्विसेज	4,38,600.00	-
आर.सी. बग्गा	80,000.00	-
निदेशक ई.सी.सी.सी.झेड, कोलकता	99,500.00	-
ग्लोबल टूर्स एंड ट्रवेल्स	17,782.00	

कार्यक्रम व्यय देय		-
भारतु कार्यक्रम अग्रिम	-	386.00
कुलकर्णी - दिपक कार्यक्रम अग्रिम	4,312.00	1,320.00
पाटील- कार्यक्रम आग्रिम	5,530.00	4,310.00
यात्रा भत्ता देय	-	-
बेटावार यात्रा अग्रिम	29,502.00	-
दंदे यात्रा आग्रिम	-	1784.00
इंदुरकर यात्रा आग्रिम	12,058.00	4,296.00
खंडागळे यात्रा आग्रिम	5,000.00	2,009.00
प्रजापती यात्रा आग्रिम	-	12,916.00
आर.वी कोचे यात्रा आग्रिम	19,161.00	986.00
सोनीपरे यात्रा आग्रिम	830.00	3,127.00
ठाकरे यात्रा आग्रिम	-	3,537.00
थोरात यात्रा आग्रिम	29,814.00	946.00
तिवारी यात्रा आग्रिम	3,333.00	10,616.00
ईश्वर श्रीरामे यात्रा आग्रिम	352.00	-
कोचे यात्रा आग्रिम	3,670.00	-
थोरात यात्रा आग्रिम	39,782.00	-
वानखेडे यात्रा आग्रिम	-	6,176.00
परिक्षेत्र बुकिंग के लिए आग्रिम	-	73,800.00
GSLI दावा प्राप्त	74,502.00	74,502.00
राज्य धनादेश (स्टेट चेक्स)	3,83,023.00	4,50,523.00
कुल-1	13,57,256.00	37,05,809.00

उप अनुसूची - '2' वेतन पंजी तथा वैधानिक देयताएं

अनुसूची 7.5 का भाग

विवरण	राशी (रु.) 31.03.2016	राशी (रु.) 31.03.2015
सी.पी.एफ अंशदान देय	76,778.00	71,176.00
देय वेतन से कटौती	-	36,922.0
जी.आय.एस. अभिदान लेखा	540.00	840.00
जी.पी.एफ. अभिदान देय	1,75,009.00	65,002.00
जी.एस.एल.आय. प्रिमियम देय	1,887.00	3,774.00
छुटी वेतन/पेंशन देय	7,77,983.00	-
प्रोत्साहन (इंन्सेटीव)देय	-	3,51,310.00
व्यावसायिक कर देय	4,100.00	4,200.00
अन्य वसूली लेखा	27,396.00	-
कुल -2	10,63,683.00	5,33,224.00

उप अनुसूची- '3' व्यय के लिए देयताएं (Liability for Expenses)
अनुसूची 7.6. का भाग

विवरण	राशी (रु.) 31.03.2016	राशी (रु.) 31.03.2015
वेतन तथा मजदूरी देय	15,724.00	450.00
ॲडमास ॲडव्हरटाजिंग	10,26,435.00	-
आर्ट गॅलरी भाडा देय	85,00,000.00	77,20,272.00
अमित टेंट हाउस	1,00,880.00	-
लेखापरीक्षा शुल्क देय	1,86,701.00	2,26.701.00
DGA (C) मुंबई को लेखापरीक्षा शुल्क देय	2,90,605.00	1,50,000.00
बियॉन्ड ट्रेंड, हैद्राबाद	32,802.00	-
सेंट्रल इंडीया टेलिविजन	79,592.00	-
ईस्टर्न झोनल कल्चरल सेंटर	4,74,832.00	-
विद्युत प्रभार देय	1,10,220.00	97,070.00
फेअर ऑफसेट	18,980.00	-
गफुर खान बझार	9000.00	-
गितिका अरोरा	14,000.00	-
गिरिसन्स बॉम्बे डाईंग	76,838.00	-
गोलमार्ट पब्लिसिटी	54,767.00	-
गोपिका वर्मा	45,000.00	-
गांधी शिल्प बझार देय	-	21973.00
ग्रॅच्युएटी प्रिमियम देय	-	29,25,222.00
गुरु शिष्य परंपरा देय	17,250.00	6,68,250.00
हॉटेल हेरिटेज	17,981.00	-
इनोवेटर्स नागपुर	2,84,090.00	-
जोग हॉस्पिटॅलिटी प्रा. लि.	15,943.0	-
ज्योती हेडगे	36,000.00	-

रिलाएबल ऑटोमेशन	4,49,332.00	-
ऋतुराज मोरे साउंड सिस्टीम	1,60,900.00	
रिया फ्लॉवर्स लेखा	3,650.00	-
SNPP कार्यक्रम देय	-	19,00,000.0
श्री गोपाल सिंह गोंड	87,950.00	0
श्याम डेकोरेशन वर्क्स	51,63,183.00	-
श्याम मॅजिशियन	5,000.00	-
श्याम टूरिस्ट दिल्ली	15,225.00	-
श्रीमती कोमकली कलापनी	63,000.00	-
श्रीमती मालिनी अवस्थी	1,80,000.00	-
श्रीमती ललिता कुमारी	10,000.00	-
श्रीमती रिम्पा शिवा	54,007.00	-
स्टेट गॅलरी ओफ आर्ट	1,20,000.00	-
सुबोध परमानिक	89,400.00	-
सुषमा बहल	80,000.00	-
तानसेन रेसिडेंसी	18,717.00	-
ट्रावेल लिंक्स	1,836.00	-
वानकर कनबाई पूनम	14,800.00	-
वेदापल्ली श्रीनिवास	1,09,200.00	-
पानी बिल देय	1,516.00	-
उदय अनंत डावल	16,528.00	4,852.00
यात्रा रिसोर्सेस	44,750.00	-
कुल-3	215,99,728.00	164,12,551.00

केदार गोखले & कंपनी	45,800.00	-
खंडेलवाल ट्रावेल्स	71,072.00	-
कोमलपब्लिसिटी & एंटरटेनमेंट	45,863.00	-
कत्थक नृत्य कार्यक्रम देय	-	10,000.00
व्यय के लिए देयताएं	24,622.00	53,419.00
L.I.C.प्रिमियम देय	43,598.00	-
लक्श्मि टेंट खजुराहो	43,598.00	--
मंग्रुसियन मरारी	1,07,700.00	-
मनिषा ट्रावेल्स	42,844.00	-
एम.पी. स्टेट टूरिझम	48,550.00	-
श्रीमती अर्चना सप्रे	42,750.00	-
नितिन सचदेवा & कंपनी	39,275.00	-
मुकेश दरबार	80,000.00	-
मुल्ख राज लेखा	22,500.00	-
म्युझिक ब्रॉडकास्ट प्रा.लि.	4,979.00	-
नरेन करमरकर	82,586.00	-
समाचार पत्र तथा नियतकालिकाएं देय राशी	2,385.00	2195.00
ओशन टूर्स & ट्रावेल्स	42,822.00	-
पंकज अॅडव्हरटाईजिंग ग्वालियर	63,965.00	-
पिनाज मसानी	1,60,819.00	-
परफेक्ट ओक्टीव मिडीया	44,880.00	-
पूजा कामद	99,996.00	-
रेनबो सोसायटी जयपुर	25,000.00	-
आयकर टीडीएस स्त्रोत से कटौती का प्रावधान	-	4,23,788.00
टेलिफोन व्यय हेतु प्रावधान	18,460.00	5,700.00
रमिंदर खुराणा	60,000.00	-
रामजोगा राव	1,35,825.00	-

युनिवर्सल सेवाएं सिक्युरिटी जमा	50,000.00	
कुल -4	1,696,551.00	1,656,031.00

उप अनुसूची 5 शुल्क तथा कर (Duties & Taxes)

विवरण	राशी (रु.) 31.03.2016	राशी (रु.) 31.03.2015
सेवा कर देय	281,182.00	117,665.00
TDS 92 A (वेतन पर देय)	3,090.00	-
TDS 94 C देय	240,360.00	601,660.00
TDS 94 J (Prof) देय	262,250.00	-
TDS/ आय कर देय	223,170.00	-
कुल- 5	1,010,052.00	719,325.00

उप-अनुसूची '6' अ-व्यय अनुदान (Unspent Grant)

विवरण	राशी (रु.) 31.03.2016	राशी (रु.) 31.03.2015
अ-व्यय अनुदान (Unspent Grant)ZCC(NCEP)	41,638,375.00	10,580,439.00
अ-व्यय अनुदान (Unspent Grant) उत्तर पूर्व कार्यकलाप (activity)	14,013,289.00	12,131,788.00
कुल 6	55,651,664.00	22,712,227.00
कुल (3 से 6)	79,957,995.00	41,500,134.00

अनुसूची -4

सिक्युरिटी जमा

विवरण	राशी (रु.) 31.03.2016	राशी (रु.) 31.03.2015
आर्ट गॅलरी के लिए सिक्युरिटी जमा आर्ट गॅलरी	10,000.00	10,000.00
कॅटरींग के लिए सिक्युरिटी जमा	250,000.00	250,000.00
डेकोरेशन ठेका के लिए के लिए सिक्युरिटी जमा	-	5,00,000.00
CCTV के लिए सिक्युरिटी जमा(OCCM)	3,000.00	3,000.000
बोर्डींग राईट्स,नागपुर के लिए सिक्युरिटी जमा	50,000.00	50,000.00
ग्रीन रुम निर्माण के लिए सिक्युरिटी जमा	48,603.00	48,603.00
बगिचा रखरखाव के लिए सिक्युरिटी जमा	5,000.00	5,000.00
हाउस किपिंग के लिए सिक्युरिटी जमा	-	5,000.00
कलोती सिक्युरिटी सर्विसेस सिक्युरिटी जमा	25,000.00	-
शिल्पग्राम डेकोरेशन सिक्युरिटी जमा	200,000.00	200,000.00
शिल्पग्राम डेकोरेशन ध्वनी &प्रकाश हेतु सिक्युरिटी जमा	25,000.00	25,000.00
शाम डेकोरेशन सिक्युरिटी जमा	350,000.00	-
सॉफ्टेक कम्प्यूटर्स सिक्युरिटी जमा	15,000.00	-
स्टेशनरी सिक्युरिटी जमा	5,000.00	5,000.00
ऑरेंज स्टेज सिक्युरिटी जमा	20,000.00	20,000.00
लॉन/हॉल/ओपीटी/डोर्मेटरी के लिए सिक्युरिटी जमा	307,498.00	202,428.00
प्रिंटींग के लिए सिक्युरिटी जमा-इनोवेटीव	25,000.00	25,000.00
विडीओग्राफी सिक्युरिटी जमा	2,000.00	2,000.00
कॅफेटेरिया नागपुर सिक्युरिटी जमा	300,000.00	300,000.00
प्रलेखन(Documentation) सिक्युरिटी जमा	5,000.00	5,000.00
		-

दक्षिण मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र, नागपुर

31.03.2016 के तुलन पत्र के लिए सूची की उप अनुसूची

उप अनुसूची '7' निवेश तथा जमा

विवरण	राशी (रु.) 31.03.2016	राशी (रु.) 31.03.2015
मियादी जमा - ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	25,00,000.00	5,75,00,000.00
मियादी जमा -बैंक ऑफ बडौदा	82,60,000.00	358,30,000.00
मियादी जमा -स्टेट बैंक ऑफ इंडीया	308,04,000.00	308,04,000.00
मियादी जमा - कॅनरा बैंक	330,00,000.00	330,00,000.00
आर.बी.आय बॉण्ड्स- कॉरपस फंड	301,66,000.00	100,00,000.0
लॉग टर्म फिक्सड डिपॉझिट- स्टेट बैंकऑफ इंडीया	22,00,000.00	22,00,000.00
स्टेट बैंक ऑफ पतियाला	1825,70,000.00	1000,00,000.00
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	77,00,000.00	77,00,000.00
शॉर्ट टर्म डिपाझिट (अलाहाबाद बैंक)	-	10,40,000.00
कुल	2972,00,000.00	2780,74,000.00

उप अनुसूची '8' विविध देनदार तथा अन्य नामे शेष (Sundry Debtors & other Debit Balances)

विवरण	राशी (रु.) 31.03.2016	राशी (रु.) 31.03.2015
विविध देनदार :		
निदेशक(NCZCC अलाहाबाद	-	30,232.00
देयक प्राप्तकर्ता (Bills receivables)SJLC-MOC		30,47,387.00
अंशदान प्राप्तकर्ता (contribution receivable for ZCC painting workshop)	-	4,40,000.00
अनुदान प्राप्तकर्ता - गांधी शिल्प बजार	6,95,476.00	6,95,476.00
अनुदान प्राप्तकर्ता - पेंशन योजना	18,00,000.00	18,00,000.00
कुल, अनुसूची के भाग 11.2	24,95,476.00	60,13,095.00

उप अनुसूची '9' बचत खाता लेखा

विवरण	राशी (रु.) 31.03.2016	राशी (रु.) 31.03.2015
बैंक शेष :(बचत खाते)		
बैंक ऑफ बडोदा - FFD	128,65,777.00	51,78,676.00
बैंक ऑफ बडोदा - बचत खाता	(17,64,474.29)	(5,42,377.29
बैंक ऑफ महाराष्ट्र बचत	101,47,917.83	13,56,825.83
कैनरा बैंक नागपुर	11,04,444.00	1,06,126.00
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	5,75,188.90	(1,60,677.10)
स्टेट बैंक ऑफ इंडीया -बचत	22,04,034.91	1,60,650.91
कुल	251,32,888.35	60,99,224.35

पृ. 20 उप अनुसूची 10 ' अग्रिम

विवरण	राशी (रु.) 31.03.2016	राशी (रु.) 31.03.2015
1. कर्मचारीयों को अग्रिम :		
क) कर्मचारियों को त्यौहार अग्रिम	43,200.00	25,962.00
ख) कर्मचारियों को अस्थायी ऋण	1,11,526.00	1,19,522.00
ग) कर्मचारियों को चिकित्सा अग्रिम	20,000.00	20,000.00
घ) गृह ऋण	12,500.00	12,500.00
कुल	1,87,226.00	1,77,984.00
2.कर्मचारियों को व्यय के लिए अग्रिम		
A) कार्यक्रम व्यय हेतु अग्रिम		
बेटावार - कार्यक्रम अग्रिम	14,04,651.00	12,87,101.00
दुरुगकर - कार्यक्रम अग्रिम	-	2,380.00
इश्वर श्रीराम -कार्यक्रम अग्रिम	59,388.00	12,610.00
मुकुलचंद - कार्यक्रम अग्रिम	20,000.00	20,000.00
प्रजापती- कार्यक्रम अग्रिम	2,06,751.00	1,84,756.00
थोरात - कार्यक्रम अग्रिम	-	35,000.00

वानखेडे -कार्यक्रम अग्रिम	10,731.00	10,731.00
दंदे - कार्यक्रम अग्रिम	82,000.00	-
धाबेकर - कार्यक्रम अग्रिम	40,155.00	-
कोचे - कार्यक्रम अग्रिम	5,000.00	-
ठाकरे- कार्यक्रम अग्रिम	9,608.00	-
कुल -A	18,38,284.00	15,52,578.00
3.यात्रा अग्रिम		
दिपक पाटील -यात्रा अग्रिम	5,745.00	108.00
राव- यात्रा अग्रिम	7,771.00	500.00
जाधव - यात्रा अग्रिम	1,454.00	198.00
डॉ. पियुष -यात्रा अग्रिम	31,269.00	5,525.00
सोनपिपरे- यात्रा अग्रिम	3,618.00	1,726.0
कुलकर्णी - यात्रा अग्रिम	15,319.00	3,403.00
शेंडे- यात्रा अग्रिम	3,768.00	3,960.00
सिंगल- यात्रा अग्रिम	55,473.00	55,473.00
शेलके - यात्रा अग्रिम	3,398.00	9,921.00
दंदे- यात्रा अग्रिम	15,000.00	-
ठाकरे- यात्रा अग्रिम	5,908.00	-
तिवारी - यात्रा अग्रिम	19,216.00	-
वानखेडे मॅडम - यात्रा अग्रिम	3,966.00	-
कुल -B	1,71,905.00	80,814.00
C) अग्रदाय पोस्टेज	34,859.00	20,069.00
कुल - C	34,859.00	20,069.00
कर्मचारियों को व्यय के लिए कुल अग्रिम(A+B+C) अनुसूची के 11(a)2(b) का भाग	20,45,048.00	16,53,461.00

उप अनुसूची "11" वितरकों को अग्रिम Advances to Suppliers

विवरण	राशी (रु.) 31.03.2016	राशी (रु.) 31.03.2015
अन्य व्यय हेतु अग्रिम :		
अमोल कॅटरर्स	5,00,406.00	5,00,406.00
डॉ. सेनगुप्ता खाता अग्रिम	19,850.00	19,850.00
कपुरचंद खाते में अग्रिम	26,000.00	26,000.00
शाहीन कारवान खाते में अग्रिम	21,000.00	21,000.00
सुरेंद्र चेदाम अग्रिम खाता	5,000.00	5,000.00
पी.एल.देशपांडे अकादमी अग्रिम	3,371.00	3,371.00
शंकर बंगासकर खाता आग्रिम	30,000.00	30,000.00
सी.पी.डब्ल्यू डी.नागपुर को अग्रिम(बंगला मरम्मत हेतु)	-	7,42,589.00
बुद्ध महोत्सक अग्रिम खाता	30,000.00	30,000.00
कार्यकारी अभियंता सी.पी.ड.ब्ल्यू को कार्य हेतु अग्रिम	20,45,531.00	20,45,531.00
धीशाराम जोशी	6,900.00	6,900.00
विजय चौरसिया	-	2,360.00
जेनेफर मडेरा अग्रिम लेखा	30,000.00	30,000.00
कुल - अनुसूची 11.2(B) का भाग	27,18,058.00	34,63,007.00

उप अनुसूची "12" प्रतिभूति जमा तथा अन्य नामे शेष Security Deposits & other debit Balances

विवरण	राशी (रु.) 31.03.2016	राशी (रु.) 31.03.2015
अन्य :		
a. उपयोगिता जमा (Utility Deposit)		
एच.पी.गॅस डोमेस्टिक सर्विसेज के साथ जमा	2,900.00	2,900.00
सुरक्षा गार्ड हेतु (house keeping)प्रतिभूति जमा (OCCM)	2,000.00	2,000.00
K.S.R.T.C होस्पेट (कर्नाटक राज्य.रोड ट्रा. कॉर्पो.)	15,848.00	15,848.00
म.प्र. विद्युत बोर्ड	9,050.00	9,050.00
म.रा.विद्युत बोर्ड	40,160.00	40,160.00
समूह ग्राच्युएटी प्रिमियम एल.आय.सी. पूर्वसंदत्त (prepaid)	2,17,000.00	2,17,000.00
पूर्वसंदत्त बीमा	36,684.00	-
प्रतिभुति जमा- स्पॅन्को	16,550.00	6,500.00
टेलिफोन जमा	26,200.00	26,200.00
पानी हेतु जमा (वाटर डिपोझिट)	10,000.00	10,000.00
प्रतिभुति जमा (BSNL)	500.00	500.00
कुल अनुसूची A का भाग	**3,76,892.00**	**3,29,658.00**
b) अन्य नामे शेष :		
क) टेलिफोन चार्जेस रिसीवेबल	51,111.00	51,111.00
ख) जी.पी.एफ अंशदान लेखा	4,998.00	4,998.00
ग) न्याप्रविष्ठ प्रकरणों हेतु देय राशि		
ए.एस. पद्मनाभ	21,868.00	21,868.00
शिल्पग्राम सेल्स इंपोरियम	89,690.0	89,690.00
यशवंत सरदेशपांडे	3,91,204.00	3,91,204.00
लिला मिडीया कॉरपोरेशन	6,750.00	-
NIFT मुंबई	3,50,000.00	-
कुल अनुसूची B का भाग	**9,15,621.00**	**5,58,871.00**
कुल नामे शेष (A+B)	**12,92,513.00**	**9,44,638.00**

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र

31.03.2016 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय लेखा

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय (उप अनुसूची - 15)	12 13	15,193,210.00 78,560,563.00	4,235,690.00 52,665,897.00
अनुदान /सहायिकी (Annexure Grant)	14	2,364,110.00	2,599,750.00
शुल्क/अंशदान (उप अनुसूची 26) (	15		
निवेश से आय (उद्दिष्टीत/ एंडोवमेंट निधी से निधी को हस्तांतरीत कर निवेश से आय)	16		
रॉयल्टी, प्रकाशन ई. से आय	17	28,261,406.00	23,399,328.0
ब्याज की प्राप्ती (उप अनुसूची 17)	18	2,376,229.00	2,978,448.00
अन्य आय (उप अनुसूची 18)	19		
निर्मित माल/ प्रगति पर कार्य के माल स्टॉक में बढोतरी/ (कमी)			
कुल (A)		126,755,518.00	85,879,023.00
व्यय			
आस्थापना व्यय	20	17,955,362.00	18,993,868.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि.	21	14,322,675.00	16,089,808.00
अनुदान, सहायिकी इ. पर व्यय	22		
ब्याज	23		
नियमित कार्यक्रम पर व्यय	24	72,567,064.0	33,572,314.00
विशेष कार्यक्रम पर व्यय	25	5,993,499.00	16,313,293.00
घिसावट (Depreciation) (अनुसूची 8 के अनुरुप वर्ष के अंत में कुल निवल)	26	2,522,422.43	2,147,071.33
कुल (B)		113,361,022.43	87,116,354.33
आय से अधिक व्यय का शेष (A-B)		13,394,495.57	(1,237,331.33)
जोडना : प्रारंभिक शेष		14,150,138.74	15,387,470.07
जोडना : JV मे पारीत तथा समायोजित			
घटाईये: विशेष आरक्षित हेतु स्थानांतरीत (प्रत्येक को उल्लेखित करें)		3,750,000.00	
घटाईयें/जोडें : सामान्य आरक्षित को/से			

स्थानांतरीत			
अधिक्य/(कमी) के शेष से कॉर्पस/ पूजी निधी को अग्रयन (carried)		**23,794,634.31**	**14,150,138.74**
महत्वपूर्ण लेखा नितियां			
लेखों संबंधी टिप्पणीया			

नागपुर :

दिनांक दिसंबर 27, 2016

हस्ता./

वरिष्ठ लेखा तथा प्रशा. अधिकारी

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र,नागपुर

हस्ता./

निदेशक

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र,नागपुर

हस्ता./-

केदार गोखले & कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटंट

हस्ता/-

(केदार गोखले)

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र

31.03.2016 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय लेखा

अनुसूची 12 - बिक्री तथा सेवाओ से आय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. बिक्री से आय		
a) तैयार माल की बिक्री		3,65,190.00
b) कच्चे माल की बिक्री		-
c) स्क्रेप की बिक्री		-
2. सेवाओं से आय		
a)श्रम और प्रसंस्करण शुल्क		-
b)पेशेवर/ पराअमर्श सेवाएं		-
c) एजंसी कमीशन और ब्रोकरेज		-
d) अन्य (उल्लेख करें) उप-अनुसूची - 15)	151,93,210.00	38,70,500.00
कुल	151,93,210.00	42,35,690.00

अनुसूची 13/ - अनुदान/ सहयिकी (Subsidy)	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
(स्थिर अनुदान तथा सब्सिडी प्राप्त)		
1.केंद्र सरकार - संदर्भ अनुदान के अनुलग्नक	785,60,563.00	498,72,607.00
2. राज्य सरकार		-
3. सरकारी एजंसियां		-
4. संस्थएं/कल्याणकारी निकायों -पेंशन योजनाओं के लिए अनुदान		18,00,000.00
5. आंतरराष्ट्रीय संघटन		-
6. अन्य (उल्लेखित करें)(प्रायोजित अनुदान)(उप अनुसूची- (अनुलग्नक-6)		9,93,200.00
कुल	785,60,563.00	526,65,807.00

अनुसूची 14 - शुल्क / अंशदान (सदस्यता (subscriptions)	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. प्रवेश शुल्क- उप- अनुसूची -16	23,64,110.00	25,99,750.00
2. वार्षिक शुल्क/सदस्यता		-
3. सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क		-
4. परामर्श सेवाएं (फिस)		-
5. अन्य (उल्लेख करें)		-
कुल	23,64,110.00	25,99,750.00
नोट:प्रत्येक मद के लिए लेखांकन नितीयों का खुलासा किया गया		

अनुसूची 15 - निवेश से आय

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1.ब्याज		
a) सरकारी प्रतिभूतियों पर		
b) अन्य बॉण्ड्स/ डिबेंचर्स		
2.लाभांश		
a)शअर्स पर		
b)म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर		
3.भाडा (किराया)		
4. अन्य (उल्लेखित करें)		
कुल		
निर्धारित/एंडोव्हमेंट फंड को स्थानांतरित		

अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन इ. से आय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. रॉयल्टी से आय		-
2. प्रकाशन से आय		-
3. अन्य (उल्लेख करें)		-
कुल		

अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सावधी जमा पर :		
a) अनुसूचित बैंक से- उप अनुसूची-17	274,96,413.00	233,14,979.00
b) गैर-अनुसूचीत बैंक		
c) संस्थाओं में		
d) अन्य		
2. बचत खातों पर		
a) अनुसूचित बैंक से	7,64,993.00	84,349.00
b) गैर-अनुसूचीत बैंक		-
c) डाक घर बचत खातों से		-
d) अन्य		-
3. ऋण पर :		
a) कर्मचारी/स्टाफ		-
b) अन्य		-
4. देनदार तथा अन्य प्राप्तीयों पर ब्याज		-
कुल	282,61,406.00	233,99,328.00

अनुसूची 18 - अन्य आय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. बिक्री/प्रयोज्य (निपटान योग्य) सम्पत्ती से आय		-
a) स्वामित्व संपत्ती (owned assets)		-
b) अनुदान से अर्जित सम्पत्ती , या नि:शुल्क प्राप्त		
2. निर्यात प्रोत्साहन हेतु प्राप्य	23,76,229.00	28,79,018.00
3. अन्य आय - उप अनुसूची-18		99,430.00
4. शिल्पग्राम से विविध आय		
कुल	23,76,229.00	29,78,448.00

अनुसूची 19 - तैयार माल तथा प्रगति पर कार्य से स्टॉक में वृद्धी/कमी	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
a) अंत शेष		
-तैयार माल		-
-प्रगति पर कार्य से		-
b) घटाएं : प्रारंभिक शेष		
-तैयार माल		-
-प्रगति पर कार्य से		-
निवाल बढोतरी/ (घटाव) (a-b)		-

अनुसूची 20- अस्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
वेतन तथा मजदूरी	132,12,621.00	152,31,396.00
महंगाई भत्ता लेखा	1,35,729.00	-
भत्ते तथा बोनस	84,335.00	86,350.00
बाल शिक्षा भत्ता	1,78,532.00	-
प्राविडंट फंड में अंशदान	10,81,157.00	12,07,058.00
अन्य निधी में अंशदान (छुट्टी वेतन तथा पेंशन अंशदान)		24,254.00
छुटी वेतन हेतु	7,77,973.00	-
कर्मचारी के सेवनिवृत्ती,सेवांत हितलाभ- ग्राच्युएटी प्रिमियम		15,20,154.00
पेंशन योजना व्यय	10,57,731.00	5,39,933.00
अन्य (उल्लेख करें) चिकित्सा प्रतिपूर्ती	4,27,284.00	3,84,703.00
कुल	179,55,362.00	189,93,868.00

अनुसूची 21- अन्य प्रशासनिक व्यय इ.	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
a) क्रय		-
b) मजदूरी तथ प्रक्रिया व्यय उप अनुसूची -19	21,36,398.00	6,16,146.00
c) कार्टेज तथा माल आवक पर भाडा	-	-
d) बिजली तथा पावर	10,26,450.00	8,10,648.00
e) जल प्रभार	43,539.00	52,99700
f) बीमा	16,154.00	61,781.00
g) मरम्मत तथा रखरखाव -उप अनुसूची -20	41,96,792.00	29,82,812.0
h) लॉकर भाडा	1,254.00	-
i) भाडा,दर,कर (Rent,Rate,Taxes)	7,79,728.00	77,20,272.00
j) वाहन रखरखाव	1,45,387.00	2,12,312.00
k) पोस्टेज,टेलिप्जोन तथा संदेशवहन प्रभार-उप अनुसूची 21	2,87,971.00	3,53,716.00
l) प्रिंटींग तथा स्टेशनरी	3,79,177.00	1,59,339.00
m) यात्रा तथा वाहन व्यय - उप अनुसूची 22	4,08,836.00	9,54,286.00
n) प्रोविडंट ब्याज वसूली	2,80,312.00	-
o) पूर्व कालावधी का व्यय	17,88,464.00	-
p) व्यवसाय कर	4600.00	
q) लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक	2,26,480.00	4,55,805.00
r) व्यवसायिक प्रभार	1,07,720.00	1,77,503.00
s) अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		-
t) स्त्रोत से आयकर के कटौती पर ब्याज	9,74,240.00	-
u) कार्यक्रम समिती व्यय	39,300.0	-
v) स्वातंत्रता दिवस व्यय	3,523.00	-
w) विज्ञापन और प्रचार	28,143.00	2,76,735.00
x) अन्य (उल्लेख करें) उप अनुसूची 23	14,52,207.00	12,55,456.00
कुल	143,22,675.00	160,89,808.00

अनुसूची 22- अनुदान, सहायिकी(सब्सिडी) इ. पर व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
a)नियमित कार्यक्रमों पर व्यय (उप अनुसूची 24) b)विशेष कार्यक्रमों पर व्यय (उप अनुसूची 25) c) थिएटर योजना पर व्यय (उप अनुसूची 26) d) शिल्पग्राम कार्यकलाप (उप अनुसूची 27)	695,60,890.00 79,24,251.00 20,000.00 10,55,422.00	173,60,104.00
कुल	785,60,563.00	173,60,104.00
नोट : संस्था, उनके कार्यकलाप तथा उनके लिए अनुदान/सब्सिडी आदि. का ब्यौरा दें		

अनुसूची 23- ब्याज	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
a)नियत ऋण पर		-
b)अन्य ऋण पर (बैंक प्रभार सहित)		-
c) अन्य (उल्लेख करें)		-
कुल		-

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र

31.03.2016 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय लेखा के उप-अनुसूची

अनुसूची 24 नियमित कार्यक्रमों पर व्यय

A) NECP कार्यक्रम

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
24 वां ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला नागपुर	10,698,013.00	7,180,339.0
28 वा ऑल इंडीया कॉन्टेप्र्री पेंटींग्ज एक्झेबिशन	1,325,961.00	3,257,612.00
29 वां नॅशनल एक्झेबिशन ऑफ कॉन्टेप्र्री आर्ट	7,299,282.00	-
अग्नि महोत्सव -बिदर जिल्हा	-	613,846.00
शताराम पंत खिरवाडकर संगीत समारोह	164,525.00	-
ऑल वुमन वर्ल्ड फोक आर्ट फेस्टीवल बंगलोर	33,200.00	-
आंबेडकरी जलसा कार्यक्रम	228,000.000	-
अष्टपहलू कालिदास समारोह	55,062.00	-
ऑल इंडीया पोलिस अॅक्व्यस्टेरियन मीट - जयपुर	-	70,755.00
अम्बा फेस्टिवल अमरावती लेखा	-	11,524.00
मंच संचालन प्रशिक्षण कार्यशाला कार्यक्रम, नागपुर	-	65,480.00
आव्हान कार्यक्रम व्यय लेखा	-	163,000.00
बैसाखी महोत्सव जयपुर/नागपुर	148,769.00	-
बसंत बहार	69,500.00	-
बिलसा महोत्सव- बिलासपुर	-	111,486.00
ब्रम्हानंद कार्यक्रम	2,005,120.00	1,447,660.00
चिखलदरा पर्यटन उत्सव	137.355.00	-
क्लासिकल डांस प्रोग्राम, नागपुर	20,000.00	-
समकालिन(contemporary) कला कॅम्प, गुरगाव	14,758.00	-
कार्टून कार्यशाला व्यय लेखा	-	11,000.00
कल्चरल ईविनिंग एम ई सी एल , नागपुर	-	40,000.00

कल्चरल ईविनिंग एन ए डी.टी, नागपुर	40,000.00	40,000.00
ओ.एफ.सी. सांस्कृतिक कार्यक्रम	190,000.00	-
15 अगस्त सांस्कृतिक कार्यक्रम	10,000.00	-
भारतीय थलसेना, कामठी सास्कृतिक कार्यक्रम	-	45,770.00
सांस्कृतिक कार्यक्रम पुणे महाराष्ट्र लेखा	-	30,000.00
महिलाओं के स्वास्थ, सांस्कृतिक कार्यक्रम लेखा,	-	6,349.00
डांस जठारे बंगलोर	35,000.00	-
दखाविशा आर्ट एक्झिबिशन- बंगलुरु	-	100,000.00
दस्तावेजी व्यय	668,804.00	-
दिपावली किला कार्यशाला लेखा	-	14,953.00
ड्रम्स ऑफ इंडीया, भिमावरम	-	130,563.00
डॉ. वसंतराव देशपंडे स्मृती समारोह, नागपुर	2,193,346.00	1,882,956.00
फोक फेअर, जगन्नाथपुरी लेखा	106,250.00	75,748.00
फोक फेअर, कार्यक्रम व्यय, ओडीशा लेखा	-	53,319.00
फोक्लोर कार्यक्रम व्यय लेखा	103,640.00	54,118.00
फुड फेस्टीवल, धारवाड	134,961.00	-
स्थापना दिवस समारोह	40,000.00	-
गांधी शिल्प बजार नागपुर लेखा	49,290.00	1,758,104.00
ग्राम महोत्सव, गोठणगाव	192,633.00	-
गुरुशिश्य परंपरा व्यय	172,500.00	-
गुडीया पेंटींग/मास्क कुखवटे वर्कशॉप लेखा	-	20,291.00
हॅप्पी स्ट्रीट लेझिम डांस लेखा	5,000.00	-
हिंदी पखवाडा	11,206.00	-
हिंदु युव-जना संगम	278,708.00	-
हंपी फेस्टीवल	-	441,131.00
आंतरराष्ट्रीय धृपद समारोह	2,282,810.00	-
इंटरनॅशनल फ्लीट रिव्हुव विशाखापटनम	9,378,857.00	-
आंतररष्ट्रीय योग दिवस	87,125.00	-
इबादत सांस्कृतिक कार्यक्रम लेखा	-	880,575.00
जननी संगित महोत्सव	15,000.00	-
जनभरी नॅशनल थिएटर फेस्टिवल	45,000.00	-
कबीर महोत्सव	1,283,194.00	-

काला घोडा महोत्सव, मुंबई	134,900.00	-
कला महोत्सव, औरंगाबाद व्यय	677,068.00	411,968.00
कॅलिडिओस्कोप लेखा	8,000.00	-
कलानगरी व्यय लेखा	-	10,500.00
करवा-ए-अदब (अखिल भारतीय मुशायरा)	75,205.00	521,968.0
करवली उत्सव लेखा	-	259,530.00
कथ्थक नृत्य कार्यक्रम, नागपुर	-	10,000.00
लिजंड फ़ॉर लिजंड लेखा	-	19,900.00
लोहा शिल्प कार्यशाला लेखा	4,708.00	12,560.00
लोक कला यात्रा आंध्र में	727,363.00	
लोक कला यात्रा बालाघाट (म.प्र.)	-	382,164.00
लोक कला यात्रा बेलगांव (कर्नाटक)	20,000.00	595,135.00
लोक कला यात्रा छित्तसगढ	286,741.00	-
लोक कला यात्रा धमतरी लेखा	-	571,796.00
लोक कला यात्रा गोंदिया	-	410,608.00
लोक कला यात्रा कर्नाटक	861,149.00	-
लोक कला यात्रा कारवार	774,981.00	-
लोक कला यात्रा करीमनगर	-	484,961.00
लोक कला यात्रा मुलताई	433,535.00	-
लोक कला यात्रा, राजनांदगांव (छत्तिसगढ़)	-	360,551.00
लोक कला यात्रा, सांगली लेखा	8,000.00	394,524.00
लोक कला यात्रा उज्जैन	-	305,860.00
लोक कला यात्रा उमरिया	7,547.00	-
लोक कला यात्रा वारंगल	-	495,747.00
लोक कला यात्रा वरुड	429,162.00	-
लोक कला यात्रा विदर्भ	526,900.00	-
लोक रंग उत्सव	390,831.00	-
लोक रंग महोत्सव भोपाल	108,488.00	-
लोक सांस्कृतिक संध्या	30,232.00	-
मां नव चंडिका मेला उत्सव लेखा	244,716.00	259,880.00
महामूर्ख सम्मेलन	583,320.00	-
मध्यप्रदेश में महाराष्ट्र दर्शन	3,091,076.00	

महाशिवरात्री उत्सव	60,000.00	-
मेक इन इंडिया, मुंवई	849,514.00	-
मालवा उत्सव इंदोर	120,000.00	117,240.00
म.प्र. दर्शन महाराष्ट्र में	14,478.00	-
मराठी हास्य कवि सम्मेलन अंजनगांव	-	53,433.00
माटी के रंग, दिमापुर	-	118,635.00
मुझे भी कुछ कहना है	57,017.00	102,833.00
मैसुर दशहरा उत्सव- मैसुर (कर्नाटक)	-	28,265.00
नकल समारोह, वणी	-	85,296.00
राष्ट्रीय पुस्तक मेला लेखा	-	126,500.00
नॅशनल कल्चरल एक्स्चेंज प्रोग्राग	278,693.00	-
नॅशनल फेस्टिवल लाईट म्युझिक, खैरागड.	-	159,435.00
नॅशनल मास्क डांस & मार्शल आर्ट फेस्ट.लेखा	21,596.00	789,458.00
राष्ट्रीय कव्वाली उत्सव - निमच लेखा	-	275,000.0
नई तालिम सेवाग्राम कार्यशाला	-	38,888.00
पारंपरिक शिल्प कार्यशाला लेखा	-	29,704.00
पावस प्रसंग	-	81,000.00
पोला उत्सव	8,600.00	-
पोलिस क्रिडा मिट	236,000.00	-
कव्वाली कार्यक्रम कामठी	-	50,000.00
राजस्थानी लोक गायन	80,000.00	-
रसभक्ति संगीत शाम	2000.00	-
राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव	4,997,661.00	-
रस रंग (कव्वाली) 2016 रायपुर	2,313,879.00	-
गणतंत्र दिवस संचलन (परेड)	6,141,586.00	-
गणतंत्र दिवस संचलन (परेड) 2015	30,000.00	-
राज्योत्सव रायपुर (छ.ग.)	18,383.00	251,951.00
राज्योत्सव बिलासपुर (छ.ग.)	-	68,325.00
राष्ट्रीय भक्ती संगीत समारोह, सेवाग्राम	80,650.00	727,504.00
राष्ट्रीय महा मूर्ख सम्मेलन नागपुर लेखा	-	8,000.00
सांस्कृतिक संध्या नागपुर	165,000.00	
संस्कार भारती रंगोली कार्यशाला लेखा	-	8,850.00

शौर्य पर्व, बंगलुरु	274,280.00	250,164.00
रजत जयंती समारोह	3,047,387.00	-
सिंहस्थ कुंभ मेला उज्जैन	60,561.00	-
सुरजकुंड आंतरराष्ट्रीय मेला	-	120,285.00
स्वच्छ भारत अभियान	30,000.00	-
स्वर्ण जयंती ग्रामिण रोजगार सांस्कृतिक कार्यक्रम	77,880.00	-
ताप्ती महोत्सव	134,670.00	-
विषयगत(Thematic) महोत्सव	58,905.00	-
आदिवासी फैशन शो	7,071.00	-
वेश्या के सामाजिक सौंदर्य की दुनिया (The social aesthetic world of the courtesan)	-	71,186.00
परंपरागत बांबु हट कार्यशाला, नागपुर लेखा	-	68.182.00
परंपरागत गुडीया बनाने की कार्यशाला लेखा	-	282,934.00
परंपरागत चित्रकारी/लोक कला की कार्यशाला लेखा	-	70,520.00
चित्रकारी प्रशिक्षण पर कार्यशाला - मुंबई	-	48,950.00
चित्रकारी प्रशिक्षण पर कार्यशाला - नागपुर	-	147,687.00
प्रशिक्षण कार्यशाला पर व्यय लेखा	-	215,990.00
परंपरागत चित्रकारी कार्यशाला, दिल्ली	383,702.00	-
परंपरागत आदिवासी चित्रकला कार्यशाला, नागपुर	1,088,667.00	-
उमंग महोत्सव औरंगाबाद लेखा	-	627,349.00
वहाडी हास्य सम्मेलन	50,000.00	-
विदर्भी महोत्सव, अमरावती	-	44,000.00
वाघ उत्सव व्यय लेखा	-	775,963.00
वर्धिनी महोत्सव- वर्धा लेखा	-	343,734.00
वर्धा स्वच्छता अभियान लेखा	-	61,533.00
महिला दिवस उत्सव हैद्राबाद	898,822.0	-
योग कक्षा व्यय लेखा	-	10,013.00
युवा संगीत नृत्य कार्यक्रम नीमच	60,000.00	
युवा संगीत प्रतियोगिता लेखा	511,849.00	552,793.00
युवा संगीत महोत्सव, पुणे	-	182,829.00

झेड सी सी दिवार चित्रकारी कार्यशाला दिल्ली	440,000.00	777,429.00
कुल (A)	71,491,642.00	31,786,099.00

24 वें अनुसूची के भाग : रंग़मंच योजना पर व्यय

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
लोक कला नृत्य पर शिबिर अकोला लेखा	-	35,000.00
राष्ट्रीय खान उत्सव, जबलपुर लेखा		590,253.00
राष्ट्रीय नाट्य समारोह लेखा	-	30,000.00
राष्ट्रीय नाट्य शाला उत्सव नासिक	-	84,151.00
रोटी वाली गली रंगमंच शो	20,000.00	-
कुल (B)	20,000.00	739,404.00

24 वें अनुसूची के भाग : शिल्पग्राम कार्यकलापों पर व्यय

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
आनंदम, लेखा	-	2,974.00
आनंदम, लेखा अगस्त 2014	-	1,100.00
आनंदम, लेखा सितंबर 2014	-	1100.00
आर्कियोलॉजिस्ट सर की क्लास	-	9,612.00
भक्ति संगीत संध्या लेखा		25,000.00
बुंदेली उत्सव	202, 529.00.00	-
बाल ग्रिष्म कालीन कैम्प	-	29,869.00
डी.एम. सर की क्लास लेखा	-	20,901.00
डॉ. सर की क्लास	-	10,823.0
हिंदी संगोष्ठी	-	5,364.00
इंटरनॅशनल फ्लिट रिव्यू, विशाखापटनम		1,520.00
कलाकारी प्रतियोगिता लेखा	15,926.00	78,509.00
कलाकारी लोक गीत प्रतियोगिता	17,923.00	-

खजुराहो नृत्य सम्मेलन लेखा	570,000.00	500,000.0
खजुराहो मे लोहा शिल्प कार्यशाला	-	15,604.00
लोक नाट्य उत्सव, नाच(Naach)	26,667.00	82,015.00
लोक नाट्य उत्सव, माच(Maach)	125,099.00	-
शिल्पग्राम खजुराहो में संग्रहालय का लेखा	-	102,553.00
नारी सांस्कृतिक संध्या लेखा	-	15,166.00
नारी 'महिलाओं' के लिए कार्यक्रम,शिल्पग्राम	-	7,146.00
पारंपारिक यात्रा रैली लेखा		40,518.00
रंग बुंदेली शिल्पग्राम	77,278.00	48,213.00
रंगोली प्रतियोगिता लेखा	-	23,666.00
सांस्कृतिक संध्या लेखा	-	7,672.00
एस.डी.ओ.पी सर की क्लास लेखा	20,000.00	8,470.00
शिवरात्री महोत्सव खजुराहो	-	-
एस.पी.सर की क्लास लेखा		9,016.00
कुल (C)	1,055,422.00	1,046,811.00
कुल (A+B+C)	72,567,064.00	10,046,811.00

अनुसूची 25 : विशेष कार्यक्रमों पर व्यय

(A)NER कार्यकलाप

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
3 रा हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गॉव कार्यक्रम बंगलूरु	-	355,086.00
24 वां ओ सी सी एम (NEA कार्यक्रम)	231,080.00	-
अखिल भारतीय शिल्प मेला	435,027.00	-
भारत लोकरंग महोत्सव	474,832.00	-
बस्तर लोकोत्सव जगदलपुर लेखा	-	172,321.00
दशहरा महोत्सव, छित्तसगढ़	526,858.00	-
ड्रम्स ऑफ इंडीया राम नगर	654,622.00	-
ड्रम्स ऑफ इंडीया, भिमावरम 1	-	139,616.00
लोक कला यात्रा NEA	32,060.00	-
लोक कला यात्रा मूलताई	108,024.00	-
लोक कला यात्रा, मोर्शी	108,025.00	-
मंडई महोत्सव	96,776.00	-
उत्तर पूर्व समारोह खजुराहो लेखा	-	1,254,448.00
उत्तर पूर्व कार्यकलाप/ हस्तशिल्प ग्राम बंगलूरु	141,800.00	-
पचमढी महोत्सव	126,161.00	-
सांस्कृतिक कल्चरल कार्यक्रम	454,167.00	-
शौर्य पर्व बंगलूरु	180,217.00	-
उत्कल बंगला उत्सव	174,050.00	-
राजीम कुंभ मेला (सी.जी)	-	608,157.00
राज्योत्सव रायपुर, छित्तसगड़	-	338,470.0
दस्तावेजी व्यय लेखा	-	46,043.00
गुरुशिष्य परंपरा व्यय	-	888,000.00
कृषि वसंत व्यय	-	6,560.0
गणतंत्र दिवस समारोह 2015	-	5,394,432.00
23 वां अरविंद देशपांडे स्मृती समारोह, मुंबई	-	100,000.00
अलखनंदन स्मृती 3 री वर्षगांठ जबलपुर	-	75,000.00
मॉडर्न ड्रामा उत्सव	-	75,000.00

सिरॅमिक से बर्तन बनाने की (पॉटरी) कार्यशाला	-	50,000.00
छित्तसगढ़ रामायण मेला व्यय, बिलासपुर	-	80,000.00
छित्तसगढ़ राऊत नाच	-	60,000.00
शास्त्रीय संगीत तथा नृत्य समारोह ,बंगलूरु	-	50,000.00
लोककला समारोह तथा सेमिनार	-	75,000.00
ग्रामीण लोक कला महोत्सव , नागपुर	-	100,000.00
ग्रामीण लोक कला महोत्सव, नरखेड	-	90,000.00
एच.एस.आई. धर्मार्थ न्यास यशवंतपुर	-	50,000.00
इनोवेटिव्ह ईपर	-	75,000.00
जननी संगीत महोत्सव तथा कार्यशाला, सिरसी	-	75,000.00
कल्पश्री नृत्य वैभव सांस्कृतिक नृत्य महोत्सव	-	55,000.00
क्षेत्रीय स्तर तेलगू साहित्य कवी सम्मेलन	-	40,000.00
किर्तन महोत्सव, नागपुर	-	100,000.00
स्व. प्रभाकरराव देशकर	-	50,000.00
चमडा के बर्तन बनाने की कार्यशाला	-	50,000.00
राष्ट्रीय स्तर चित्रकारी कार्यशाला	-	50,000.00
नृत्य संगीत समारोह, जलगांव	-	75,000.00
नृत्य संध्या, सिरसी	-	50,000.00
पारंपारीक लोकसंगीत	-	75,000.00
कन्नड के जन को लोकप्रिय तथा मशहूर बनाने हेतु	-	50,000.00
लोक संस्कृति को बढावा देने के लिए	--	50,000.00
पं.जितेद्र अभिषेकी संगीत समारोह भोपाल	-	50,000.00
क्ठ्पुतली रंगमंच	-	50,000.00
रंग और विमर्श	-	50,000.00
ग्रामीण सांस्कृतिक समारोह	-	75,000.00
ग्रामीण लोक डप्पु नृत्य समारोह	-	50,000.00
शास्त्रीय संगीत सभा	-	50,000.00
श्राद्धांजली महोत्सव - औरंगाबाद लेखा	-	75,000.00
सामाजिक नाटक समारोह	-	75,000.00
सुंदरी सम्राट सिदरामजी संगीत सम्मेलन, सोलापुर	-	75,000.00
तीन दिवसीय शुल्क कंपनी नाटक हेतु	-	75,000.00
दो दिवसीय पौराणिक नाटक हेतु	-	75,000.00

आदिवासी लोक नृत्य	-	50,000.00
आदिवासी लम्बानी लोक समारोह	-	75,000.00
उडान कार्यक्रम, नागपुर	-	75,000.00
भारतीय पारंपारीक लोक सृष्टी पर कार्यशाला,अनंतपुर	-	50,000.00
लूप्त(vanishing)प्राय कलाओं पर कार्यशाला	-	60,000.00
विश्व रंगमंच दिवस	-	75,000.00
यक्षगान समारोह	-	70,000.00
युवा संगीत तथा नृत्य त्यौहार समारोह	-	50,000.00
युवा संगीत तथा नृत्य समारोह	-	75,000.00
ऑल इंडीया पोलिस अॅक्युस्टेरीयन मीट - जयपुर (TSP)	-	108,940.00
बस्तर लोकोत्सव व्यय लेखा	-	55,400.00
कुल (A)	3,743,499.00	12,247,473.00

(B) आदिवासी उप योजना (TSP) कार्यकलाप

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
बिल्सा महोत्सव	126,017.00	
ड्रम्स ऑप इंडीया भिमावरम (आ.प्र.)	-	271,300.00
गीता गायत्री	253,356.00	-
लोक कला यात्रा छत्तीसगढ़	248,279.00	48,125.00
लोक कला यात्रा (आ.प्र.)	780,771.00	-
बंगलोर मे लोकोत्सव	96,170.00	185,855.00
लोकरंग महोत्सव भोपाल	-	348,265.00
लोपमुद्रा अमरावती	86,875.00	-
मैसुर दशहरा महोत्सव 1	-	140,602.00
राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य संगीत समारोह, चित्रदूर्ग	-	369,662.00
राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य संगीत समारोह, अमरावती लेखा	-	416,130.00
राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य संगीत समारोह, खंडवा	-	535,326.00
राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य संगीत समारोह, विजयनग्राम	-	880,631.00
राज्योत्सव छत्तिसगढ़ 1	-	70,970.00
राजिम कुंभ कार्यक्रम	365,027.00	-
सूरजकुंड आंतरराष्ट्रीय मेला (TSP)	-	122,050.00
विश्व आदिवासी कॉन्क्लेव अमरकंटक	-	676,904.00
पारंपारिक लोक चित्रकारी	49,980.00	-
भारतीय आदिवासी उत्सव	243,525.00	-
कुल (B)	2,250,000.00	4,065,820.00

कुल - (A+B)	5,933,499.00	16,313,293.00

31 मार्च 2016 को समाप्त आय तथा व्यय लेखा की उप- अनुसूची(शेड्यूल)

उप- अनुसूची(शेड्यूल)-15 - बिक्री एवं सेवाओं से अन्य आय

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
स्टॉल बुकींग प्राप्तियॉ	52,03,210.00	38,70,500.00
आय.एफ.आर. विशाखापट्नम कार्यक्रम प्राप्तियां	99,90,000.00	-
कुल	151,93,210.00	38,70,500.00

उप- अनुसूची(शेड्यूल)-16 -प्रवेश शुल्क

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
प्रवेश शुल्क	5,52,350.00	9,81,200.00
प्रवेश पास तथा टिकट बिक्री	18,11,760.00	16,18,550.00
कुल	23,64,110.00	25,99,750.00

उप- अनुसूची(शेड्यूल)-17 -जमा पर ब्याज

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
लम्बी अवधी की जमा के जमा राशी पर ब्याज	225,83,975.00	
भा.रिजर्व बैंक बॉण्ड्स - एफ.डी.आर. पर ब्याज	16,88,135.00	
अल्पावधी जमा राशी पर ब्याज	32,24,303.00	
कुल	274,96,413.00	233,14,979.00

उप- अनुसूची(शेड्यूल)-18 -अन्य आय

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
परिक्षेत्र/लॉन्स से प्राप्तीयां	13,34,755.00	19,65,550.00
निविदा(टेंडर) फॉर्म बिक्री से आय	18,500.00	8,400.00
अन्य विविध प्राप्तीयां	5,47,974.00	8,26,049.00
वॉल पेंटींग कार्यशाला से प्राप्ती	-	79,017.00
स्वामी विवेकानंद अधिक अनुदान से प्राप्ती	-	2.00
प्रायोजित कार्यक्रम	4,75,000.00	-
कुल	23,76,229.00	28,79,018.00

उप- अनुसूची(शेड्यूल)-19- श्रम तथा प्रक्रिया व्यय

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
बाहरी एजेंसी को भुगतान	13,72,049.00	2,99,968.00
सुरक्षा रक्षकों को मजदूरी	7,64,349.00	3,16,178.00
कुल	21,36,398.00	6,16,146.00

31 मार्च 2016 को समाप्त आय तथा व्यय लेखा की उप- अनुसूची(शेड्यूल)

उप- अनुसूची(शेड्यूल)- 20- मरम्मत और रखरखाव व्यय

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
प्रेक्षक दिर्घा (आर्ट गॅलरी) रखरखाव	6,740.00	2,850.00
कैम्पस का सौंदर्यीकरण	7,42,589.00	5,03,441.00
बगिचा रखरखाव	83,890.00	2,88,729.00
शिल्पग्राम -भूमी विकास तथा स्थल विकास का	-	55,200.00
परीक्षेत्र का रखरखाव	9,80,659.00	7,16,684.00
कार्यालय भवन/परीक्षेत्र की मरम्मत तथा रखरखाव	17,33,985.00	3,59,782.00
कार्यालय उपस्कर की मरम्मत तथा रखरखाव	97,792.00	45,719.00
शिल्पग्राम रखरखाव व्यय	5,30,932.00	3,70,499.00
स्थल विकास और भूमी सौंदर्यीकरण	-	6,39,908.00
प्रेक्षक दिर्घा (आर्ट गॅलरी) रखरखाव	5,870.00	-
कार्यालय कम्प्यूटर की मरम्मत तथा रखरखाव	8,925.00	-
कार्यालय वाहन की मरम्मत तथा रखरखाव	5,410.00	-
कुल कुल	41,96,792.00	29,82,812.00

उप- अनुसूची(शेड्यूल)- 21-डाक,टेलिफोन और संचार प्रभार

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
डाक व्यय	43,671.00	88,034.00
एस एम एस व्यय		22,000.00
टेलिफोन व्यय	2,33,161.00	1,69,420.00
वेबसाइट व्यय	11,139.00	19,469.00
वाई-फाई व्यय	-	54,793.00
कुल	2,87,971.00	3,53,716.00

उप- अनुसूची(शेड्यूल)- 22-यात्रा तथा वाहन व्यय

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
स्थानीक यात्रा	-	6,778.00
यात्रा व्यय	4,04,836.00	9,47,508.00
कुल	4,04,836.00	9,54,286.00

उप- अनुसूची(शेड्यूल)- 23 - अन्य व्यय

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
लिवरीज	18,924.00	4,050.00
बैंक प्रभार	48,255.00	18,769.00
बैठक व्यय	11,23,245.00	9,00,090.00
समाचार पत्र तथा आवधिक (periodicals)	29,170.00	22,240.00
कार्यालय तथा विविध व्यय	1,02,033.00	1,85,848.00
सत्कार व्यय	1,30,580.00	1,24,459.00
कुल	14,52,207.00	12,55,456.00

उप- अनुसूची(शेड्यूल)- स्टॉल बुकींग से आय

विवरण	2015-16
24 वा ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला स्टॉल बुकींग	27,56,000.00
24 वा ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला खाद्यांन्न (फूड)स्टॉल बुकींग	16,56,532.00
आई.एफ.आर विशाखापट्ट्नम स्टॉल बुकींग	7,90,678.00
कुल	52,03,210.00

उप- अनुसूची(शेड्यूल)- प्रवेश शुल्क से आय

विवरण	2015-16
कार्यशाला के प्रवेश शुल्क से आय	54,600.00
29 वां एन.इ.सी.ए.(NECA) के प्रवेश शुल्क से आय	4,61,500.0
एम.बी.के.के.एच. (MBKH) के प्रवेश शुल्क से आय	12,750.00
प्रवेश शुल्क	23,500.00
कुल	5,52,350.00

उप- अनुसूची(शेड्यूल)- प्रवेश पासेस तथा टिकट से आय

विवरण	2015-16
प्रवेश टिकट की बिक्री से आय	5,69,950.00
24 वां ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला के प्रवेश टिकट बिक्री से आय	12,41,810.00
कुल	18,11,760.00

उप- अनुसूची(शेड्यूल)- परीसर तथा लॉन से प्राप्ती

विवरण	2015-16
परिक्षेत्र तथा लॉन बुकींग से प्राप्ती खजुराहो लॉन बुकींग से प्राप्ती	12,54,755.00 80,000.00
कुल	13,34,755.00

उप- अनुसूची(शेड्यूल)- अन्य विविध प्राप्तीयां

विवरण	2015-16
अन्य विविध प्राप्तीयां 28 वां अखिल भारतीय प्रतियोगिता के चित्र की वापसी से प्राप्ती शिल्पग्राम - विविध प्राप्तीयां	4,89,549.00 32,000.00 26,425.00
कुल	5,47,974.00

उप- अनुसूची(शेड्यूल)- अन्य प्राप्तीयां (ब्याज)

विवरण	2015-16
दिर्घ कालिन जमाओं पर ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक के बॉण्डस -एफ.डी.आर. पर ब्याज अल्प समयावधी के जमाओं पर ब्याज	225,83,975.00 16,88,135.00 32,24,303.00
कुल	274,96,413.00

31.03.2016 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय लेखा का अनुलग्नक

अनुदान प्राप्त तथा किए गए व्यय का अनुलग्नक

विवरण	2014-15 में उपयोग न किए गए अनुदान अग्रेनीत	वर्ष 2015-16 में अनुदान प्राप्त्त/प्राप्य	अतिरिक्त अनुदान अन्य योजनाओं हस्तांतरण/ वापसी	उप कुल	अव्ययित अनुदान आगे बढाया	वर्ष 2015-16 मे अनुदान जमा
	1	2	3	4	5	6
				(1+2+3)		
आदिवासी उप योजना के लिए अनुदान		22,50,000.00	-	22,50,000.00	-	22,50,000.00
उत्तर पूर्व कार्यकलापो के लिए अनुदान	121,31,788.00	56,25,000.00	-	177,56,788.00	140,13,289.00	37,43,499.00
गांधी शिल्प बाजार के लिए अनुदान	-	-	-	-	-	-
रंगमंच योजना के लिए अनुदान	-	-	-	-	-	-
उप कुल A	121,31,788	78,75,000.00	-	200,06,788.00	140,13,289.00	59,93,499.00
<u>आंचलिक सांस्कृतिक केंद्र के लिए अनुदान(सामान्य)</u> NCEP कार्यक्रम , रंगमंच योजना	105,80,439.00	686,25,000.00		792,05,439.00	66,98,936.00	725,06,503.00
अन्य अनुदान						
सिंहस्थ कुंभ मेला के लिए अनुदान		350,00,000.00		350,00,000.00	349,39,439.00	60,561.00
उप कुल (B)	105,80,439.00	1036,25,000.00	-	1142,05,439.00	416,38,375.00	725,67,064.00
कुल रु. (A+B)	227,12,227.00	1115,00,000.00	-	1342,12,227.00	556,51,664.00	785,60,563.00

स्थन : नागपुर दिनांक 27 दिसंबर 2016 केदार-गोखले, चार्टर्ड अकाउंटंट

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF CULTURE, GOVERNMENT OF INDIA





दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर
SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE, NAGPUR

56/1, सिविल लाईन, नागपुर–440001 | 56/1, CIVIL LINES, NAGPUR-440001
P: 0712-256 2974; F: 0712-256 0966; E: sczccnagpur1986@gmail.com; W: www.sczcc.gov.in